

स्वतंत्र चेतना




प्रयागराज
वर्ष 33, अंक 236
सोमवार 06 मई, 2024
पृष्ठ 12 ₹4.00

www.swatantrachetnanews.com

गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, नई दिल्ली, हरिद्वार, वाराणसी, आजमगढ़ व अयोध्या से प्रकाशित

यह चुनाव विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला : नड्डा

रामलला के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, उमड़ा जनसैलाब



पीएम ने किए रामलला के दर्शन.... अयोध्या: रामलला के दरबार में साधुग दंडवत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रामलला का दर्शन मुख्यमंत्री योगी। तथा रोड शो करते प्रधानमंत्री साथ में मुख्यमंत्री व प्रत्याशी। छाया चेतना

बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर, 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा

जम्मू। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने रविवार को बाबा बर्फानी के धाम की



इस वर्ष की पहली तस्वीर जारी की है। श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी हिमशिबिङ्ग के रूप में विराजमान हो चुके हैं और गुफा के चारों ओर बर्फ जमी हुई है। इस बार यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। बाबा बर्फानी की इस वर्ष यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा को देखते हुए हर तरह के इंतजाम किये जा रहे हैं।

भाजपा नेताओं की हत्या की साजिश, मौलवी गिरफ्तार

सुरत। भाजपा और हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में शनिवार को सुरत से एक मौलवी



मोहम्मद सोहेल उर्फ अबु-बकर तीमोल को गुजरात क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के निशाने पर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा, तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह, हिंदू सनातन संघ चेयरमैन उपदेश राणा और सुदर्शन टीवी के चीफ एडिटर सुरेश चव्हाणके थे।

तीसरे चरण के लिए सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों ने अपने पूरे जोश के साथ चुनावी प्रचार किया। चुनाव आयोग तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के कई कार्यक्रम कर रहा है। तीसरे चरण में 12 राज्यों के 94 लोकसभा सीटों के लिए वोट पड़ेंगे, इनमें बिहार की पांच, मध्य प्रदेश की नौ, असम की चार, छत्तीसगढ़ की सात, कर्नाटक की 14, गोवा की दो, गुजरात की 25, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, बंगाल की चार, दमन और दीव की दो सीट शामिल हैं।

आईपीएल 2024

आज का मैच

मुंबई बनाम हैदराबाद

स्थान मुंबई

समय रात 7.30 बजे

तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थमा

नयी दिल्ली, वार्ता। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर रविवार की शाम

● 12 राज्यों के 94 सीटों के लिए पड़ेंगे वोट, इस चरण में शाह, सिधिया व डिपल समेत कई दिग्गजों का होगा फैसला

पांच बजे थम गया। चुनाव आयोग तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। चुनाव के वोटों की गिनती चार जून को की जाएगी। तीसरे चरण के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह, ज्योतिरावदास सिधिया,

विश्व के लोकातांत्रिक क्षेत्र में भारतीय चुनाव महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं : राजीव

नई दिल्ली। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम (आईईवीपी) के हिस्से

● कहा भारतीय चुनाव क्षेत्र अद्वितीय है, यहां चुनावी पंजीकरण व मतदान दोनों अनिवार्य नहीं हैं ● लोकतंत्र के महापर्व को देखने भारत पहुंचे हैं 23 देशों के 75 प्रतिनिधि

के रूप में भारतीय आम चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के 75 प्रतिनिधि भारत में हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रविवार को नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार

एवं सुखबीर सिंह संघू की उपस्थिति में किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि



भारतीय चुनाव और चुनाव आयोग के प्रयास विश्व के लोकातांत्रिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रक्रिया और क्षमता के संदर्भ में यह काफी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारतीय चुनाव क्षेत्र

अद्वितीय है। यहां चुनावी पंजीकरण और मतदान दोनों ही अनिवार्य नहीं हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को पूरी तरह से प्रेरक के तौर पर काम करना होता है। नागरिकों को

स्वेच्छा से मतदाता सूची का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करना और उसके बाद व्यवस्थित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें अपने मतदाता का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना होता है।

आयोजन से इतर आयोग ने कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं नेपाल के मुख्य चुनाव आयुक्तों और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय बातचीत

की थी। इससे पहले, दिन में प्रतिनिधियों को ईवीएम-वीवीपेट, आईटी पहल, मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका सहित भारतीय आम चुनाव 2024 के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई।

आईसीएसई व आईएससी बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज होगा घोषित

नई दिल्ली। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड 10वीं, 12वीं के रिजल्ट कल 6 मई को जारी होंगे। बोर्ड सचिव ने जानकारी दी है कि कउएर यानी कक्षा 10 और कउउ यानी कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे 6 मई, सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट cisce.org results.cisce.org पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

बोर्ड ने जानकारी दी है कि इस साल स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंटल एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट्स अपने मार्क्स सुधारना चाहता है, तो उसे इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा। इंप्रूवमेंट एग्जाम अधिकतम 2 सजेक्ट्स में दे सकेंगे। इस साल की सीआईएससी की बोर्ड परीक्षाओं में दो पेपर स्थगित किए गए थे। आईसीएसई 10वीं का केमेस्ट्री का पेपर 26 फरवरी को होना था, मगर 21 मार्च के लिए स्थगित किया गया था। इसके अलावा, एक एग्जाम सेंटर पर क्वेश्चन पेपर का पैकेट हलकों जाने की सूचना मिलने के बाद कउउ 12वीं का साइकोलॉजी का पेपर स्थगित किया गया था।

इंडी गठबंधन बनने के बाद से ही विवादों में है : योगी

स्वतंत्र चेतना लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को हरदोई और इटावा में जनसभा से पहले

● कहा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लगातार दे रहे विवादास्पद बयान ● इंडी के विवादास्पद बयानों से खुश होता है कंगाल पाकिस्तान

अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन पर जमकर हमला किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंडी गठबंधन बनने के बाद से ही विवादों में है। यही वजह है कि इनके नेताओं के लगातार विवादास्पद बयान सामने आ रहे हैं। यह इनके लिये नई बात नहीं है। यही इनका चरित्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा

कि इंडी गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। जो बयान भारत के दुश्मनों को अच्छे लगे, जिससे देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो। यह लोग अपने



स्वार्थ के लिए लगातार ऐसे विवादास्पद बयान दे रहे हैं। इसके जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता को अपूर्णाय क्षति भी पहुंचा रहे हैं। इनका एक परिवार पर आधारित पार्टियों का कउएर है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस, नेशनल कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी के बयान आतंकवाद को प्रश्रय, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। यह केवल चुनाव में ही नहीं, बल्कि हमेशा ऐसे बयान देते हैं। इनके बयान देशद्रोही तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाता है। यह देश में अनावश्यक माहौल खराब करने का कुत्सित प्रयास है।

यूपी में मौसम फिर बदलेगा करवट, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना

स्वतंत्र चेतना कानपुर। उत्तर प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव होने के आसार

● प्रदेश में 12 जिलों में बरसेंगे बादल हैं। रविवार को दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही, लेकिन तापमान में बदलेरी हो गई। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दो दिन उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी है। चन्द्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. एस एन सुनील पाण्डेय ने रविवार को बताया कि पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षीमंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक गर्त के रूप में अपनी धुरी के साथ समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर है, जो लगभग 25 उत्तर अक्षांश के उत्तर में 54 डिग्री पूर्व देशांतर के साथ चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, कल यानी 6 मई को लखीमपुर-खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संतकबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया में बारिश के आसार हैं। उत्तर-पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।

भाजपा का आरक्षण खत्म करने का इरादा: राहुल

निर्मल (तेलंगाना), वार्ता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने रविवार को यहां आरोप लगाया कि भारतीय जनता

● गरीबों के अधिकारों को कमजोर कर अमीरों को फायदा पहुंचाने का भाजपा के कथित एजेंडे की आलोचना की

पार्टी (भाजपा) का लोकसभा चुनाव में जीत कर सत्ता में आने पर आरक्षण खत्म करने का इरादा है। श्री गांधी ने गरीबों के अधिकारों को कमजोर करते हुए अमीरों को फायदा पहुंचाने के भाजपा के कथित एजेंडे की आलोचना की। उन्होंने किसानों के फसल ऋण माफ करने के कांग्रेस के प्रस्ताव की तुलना कॉर्पोरेट जगत के लिए ऋण माफ

करने के भाजपा के कार्य से करते हुए प्रतिक्रियाओं में विसंगति पर सवाल उठाया।



उन्होंने चुनावों को संविधान की रक्षा करने का लक्ष्य रखने वाली कांग्रेस और इसे बदलने की मांग करने वाले एक अन्य समूह के बीच का विकल्प चुनने का रास्ता बताया। कांग्रेस नेता ने तेलंगाना में जन-केंद्रित शासन के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनने पर महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता और आदिवासी मुद्दों के त्वरित समाधान का वादा किया। उन्होंने जातिगत जनगणना और

आर्थिक सर्वोच्च करण का संकल्प लिया और 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा हटाने की वकालत की।

श्री गांधी ने कथित तौर पर अमीरों का पक्ष लेने के लिए भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की आलोचना की और उन पर विभाजनकारी राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण की कांग्रेस की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ए. रवंत रेड्डी ने भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को फिर से खोलने का वादा करते हुए आदिलाबाद के विकास के प्रति अपना समर्पण व्यक्त किया। उन्होंने नौ मई तक किसानों के खातों में रायथु भरोसा निधि जमा करने और 15 अगस्त तक दो लाख रुपये तक का फसल ऋण माफ करने की योजना की घोषणा की।

केंद्र में गठबंधन की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज होगा माफ : अखिलेश

जलेसर। सपा मुखिया अखिलेश यादव रविवार को अग्रा लोकसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी सुरेश चंद्र कर्दम के समर्थन में आयोजित जनसभा में

● उद्योगपतियों को 16 लाख करोड़ केंद्र ने किया माफ पर किसानों को एक र. भी नहीं

जमकर दहाड़े। उन्होंने भाजपा की डबल इंजन पर चारों ओर से तीखे प्रहार किये। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के साथ केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा धोखा किया है। किसानों की दोगुनी आय करने का वायदा आज तक पूरा नहीं किया है। किसानों को आय दोगुनी करने की जगह महंगाई का तोहफा दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के



गया। किसानों का एक रुपये का कर्ज नहीं माफ नहीं किया है। जबकि केन्द्र की मोदी सरकार ने देश के बड़े बड़े उद्योग पतियों के 16 लाख करोड़ रुपये के कर्ज माफ कर दिये गये हैं। एक एक उद्योगपति के पांच-पांच करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज माफ हो गए। उन्होंने घोषणा की कि अगर केन्द्र में अगली सरकार इण्डिया गठबंधन की बनी तो किसानों के कर्ज भी माफ किये जायेंगे।

शाही परिवार के वारिस के ही पीएम बनने की कुप्रथा चायवाले ने तोड़ी : मोदी

इटावा, वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में एक जनसभा के दौरान परिवारवाद पर तीखा हमला करते हुए कहा कि एक चायवाले ने शाही परिवार

● कहा इन परिवारवादियों की विरासत गाड़ी व बंगला राजनीतिक रसूख है

के किसी वारिस के ही पीएम और सीएम बनने की कुप्रथा को तोड़ दिया। यहां आयोजित जनसभा के माध्यम से एक साथ तीन लोकसभा क्षेत्रों (इटावा, मैनपुरी और कन्नौज) के मतदाताओं

को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील की। जनसभा में परिवारवाद



के खिलाफ मोदी जमकर गरजे और इस संकल्पना पर तीखा हमला करते हुए कहा इन परिवारवादियों की विरासत गाड़ी, बंगला, राजनीतिक रसूख है। कोई मैनपुरी, कन्नौज, इटावा को अपनी जागीर मानता है, कोई अमेटी रायबरेली को अपनी जागीर मानता है। मोदी की विरासत गरीब का पक्का घर है, मोदी की विरासत देश की करोड़ों

माताओं-बहनों को मिला शौचालय है, मोदी की विरासत दलित गरीबों को मिली बिजली, गैस, नल की सुविधा है। मोदी की विरासत गरीबों को मिला मुफ्त राशन है, मुफ्त इलाज है, मोदी की विरासत आपके बच्चों के उच्चल भविष्य के लिए बनाई गई नई शिक्षा नीति है, मोदी की विरासत तो सबकी है, सबके लिए है।

कोन जानता है कि 2047 में आपका ही बेटा, बेटी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। शाही परिवार का वारिस ही पीएम और सीएम बनेगा, ये कुप्रथा इस चायवाले ने तोड़ दी है। सपा और कांग्रेस के वादों को झूठा बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकी बातें झूठी, वादे भी झूठे हैं। सपा कांग्रेस के नारे झूठे, और नीयत में भी खोत

महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अपमान करने वाले सापड़ियों पर एक आईआर

मैनपुरी। मैनपुरी में राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर अपमान करने वाले सापड़ियों के साथ ही प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करने वाले

● घटना को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश, सैकड़ों लोगों ने दिया धरना, प्रतिमा का अनादर करने वालों की हो गिरफ्तारी

सपाई गुंडों पर मैनपुरी कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं, इस घटना से आक्रोशित लोगों ने रविवार सुबह महाराणा प्रताप चौक पर धरना दिया और अराजक सापड़ियों के साथ ही सपा के लोकसभा प्रभारी और विधान सभा प्रभारी की गिरफ्तारी की मांग की।

दरअसल, शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में अपनी पत्नी और सपा प्रत्याशी डिपल यादव के समर्थन में रोड शो किया था। रोड शो के दौरान ही सपा के कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर अभद्र नारे लगाए। रोड शो के बाद ये सपाई गुंडे स्वदेश और स्वधर्म के लिए लड़ने वाले राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर भी चढ़ गए और वहां उन्होंने प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की। आरोप है कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा के हाथ में मौजूद भाले को टेंटा कर दिया गया, जबकि उनके हाथ में सपा का झंडा पकड़ा दिया गया। यही नहीं, सापड़ियों ने यहां सीएम और पीएम को गालियां भी दीं। राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा के इस अनदर और अपमान पर मैनपुरी समेत पूरे प्रदेश के लोगों में आक्रोश है।

मोहब्बत की दुकान खोलकर कांग्रेस झूट का सामान बेच रही है - करण सिंह पटेल

प्रयागराज। इलाहाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के शहर दक्षिणी विधानसभा के बृथ अध्यक्ष सम्मेलन मुंशी राम प्रसाद की बगिया नारायण वाटिका मुंबई गंज में आयोजित की गई इस अग्रिम पर सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूर्व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉ. करण सिंह पटेल ने कहा कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ और कांग्रेस का पाकिस्तान की पार्टनरशिप का पूरी तरह से देश जान चुका है और यही कारण है पाकिस्तान की दुर्दशा पर आज कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ मोदी देश को एक करने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल के सपनों को पूरा कर रहे हैं और कांग्रेस देश के अंदर जातिवाद फैलाकर समाज में लड़ाई करवा रही है उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलकर कांग्रेस झूट का सामान बेच रही है और कहा कि कांग्रेस और सपा एक ही सिक्के की दो पहलु हैं दोनों की विचारधारा एक है एक ने देश को लूटा दूसरे ने प्रदेश को लूटा आज दोनों की लूट की फैक्ट्री बंद हो गई है और कहा कि मोदी और

योगी सरकार देश प्रदेश को लूटने वाले को छोड़ने वाली नहीं है इसलिए यूपी में अपने आप को बचाने के लिए एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं और आगे कहा कि कांग्रेस और सपा आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, गुंडाराज एवं परिवारवाद की फैक्ट्री है जिसे जनता ने उखाड़ फेंका

पाकिस्तान की दुर्दशा पर कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है कांग्रेस और सपा आतंकवाद भ्रष्टाचार, गुंडाराज नक्सलवाद, एवं परिवारवाद की फैक्ट्री हर बूथो पर शानदार जीत का इतिहास रचना है-नीरज त्रिपाठी शहर दक्षिणी विधानसभा बृथ अध्यक्ष सम्मेलन का हुआ आयोजन

है और कहा कि मोदी के आने से पहले इस देश में दो संविधान दो झंडे थे शहजादे की पार्टी कांग्रेस ने उनके परिजनो ने देश में संविधान लागू नहीं होने दिया था कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होता था क्योंकि कांग्रेस धारा 370 दौवार बनकर बैठी थी और इस दौवार को मोदी सरकार ने ध्वस्त कर दिया और जो कांग्रेस को

कसना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है और इसके लिए समर्पित भाव से हमें काम करना होगा और प्रचंड बहुमत के साथ 400 सीट पारकर मोदी सरकार बनाई है और अंत में उन्होंने नीरज त्रिपाठी को जीत की अग्रिम बधाई दी। इस अवसर पर इलाहाबाद लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी ने कहा कि बृथ जीता चुनाव जीता का मंत्र लेकर हमें हर बूथ पर पिछले चुनाव की अपेक्षा 370 वोट बढ़ाकर कमल खिलाना है उन्होंने कहा कि चुनाव हम नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता लड़ रहा है इसलिए हम लोगों को हर बूथो पर शानदार जीत का इतिहास रचना है। इस अवसर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा ने कहा कि भूत के कार्यकर्ता 23 में तक अपने भूतों को ही भारत समझें और कम से कम तीन बार मतदाता से संपर्क साधें और की मोटर शुद्ध जीवी लाभार्थी आदि से संपर्क व संवाद बनाकर भाजपा के पक्ष में अपने प्रेरित करें और घर-घर जाकर चुनाव पर्वी मतदाता तक पहुंचाएं। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, महापौर गणेश केसरवानी

पूर्व विधायक नीलम करवरीया पूर्व विधायक दीपक पटेल, लोकसभा संयोजक शिवदत्त पटेल विधानसभा प्रभारी सुरेश मौर्य, कुमार नारायण, जिला प्रवक्ता राजेश केसरवानी, सुरारी लाल अग्रवाल, पार्श्व दिव्य, मुन्शी लाल अग्रवाल, रईस चंद्र शुक्ला, अश्वनी पटेल, राम जी के सरवानी, नवरत्न कल्याण, राजन शुक्ला ने कार्यक्रमताओं में जोश भरा कार्यक्रम संयोजक विधानसभा संयोजक ज्ञानेश्वर शुक्ला रहे मीडिया प्रभारी रजेश केसरवानी एवं गोपाल जी मालवीय ने इस अवसर पर शहर दक्षिणी विधानसभा के 377 बृथ अध्यक्ष 83 थिंकिंग प्रभारी, 74 मतदान केंद्र प्रमुख एवं 25 वर्य अध्यक्ष एवं सचिव एवं को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर विस्तारक प्रिंस गुप्ता, गिरि बाबा, मीडिया प्रमुख गोपाल जी मालवीय, बृजेश मिश्रा, गिरजेश मिश्रा, प्रमोद जायसवाल (मोदी) दीप द्विवेदी, दिनेश विश्वकर्मा, विवेक अग्रवाल, रणविजय सिंह, सुमित वैश्य, रावधर मिश्रा, चंद्रशेखर मिश्रा, दिलीप केसरवानी किशोरी लाल, अजय अग्रहरि, आदि शहर दक्षिणी विधानसभा के बृथ अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।

सनातन भारतीय संस्कृति का परिचायक चारों धाम की यात्रा

सोरांव प्रयागराज भारतीय धर्म ग्रंथों में सनातन भारतीय संस्कृति मानव जीवन की पवित्रता व कल्याणार्थ हेतु इसी मान्यता को लक्ष्य करके चार धाम यात्रा का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि प्रसिद्ध चार धाम कौन है और इन पवित्र धामों की क्या विशेषता है जिसके दृष्टिगत सोरांव तहसील क्षेत्र के विकासखंड इलाहाबाद के ग्राम जमुनीपुर में ब्रह्मचारी राजेश मिश्रा व उनकी धर्मपत्नी प्रमिला मिश्रा रविवार को चारों धाम के लिए प्रस्थान किए जानकारी के अनुसार भारत के चार धाम की विशेषताओं को लेकर देखा जाए तो इन धामों का महत्व इस बात को लेकर अति महत्वपूर्ण माना जाएगा कि चारों धाम अलग-अलग चारों दिशाओं में मौजूद हैं जहां पूर्व में जगन्नाथ पुरी पश्चिम में द्वारकापुरी उत्तर में बद्रीनाथ व दक्षिण में रामेश्वरम जिनकी विशेषताएं को लेकर धर्म ग्रंथों के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है इस मंदिर को हिंदुओं के चार धाम में से एक गिना जाता है यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है जहां द्वारकापुरी मंदिर भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे स्थित है हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बसाया था यह मंदिर का

कृष्ण की कर्मभूमि है द्वारिका भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है इसी क्रम में बद्री नारायण मंदिर चमोली जगपद में अलकनंदा नदी के तटवर्ती पर स्थित मंदिर है यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित

समन हो जाता है और ऐसे व्यक्ति का जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है गौरतलब है कि चार धाम यात्रा को लेकर सोरांव तहसील क्षेत्र के विकासखंड इलाहाबाद



मंदिर है रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है इस मंदिर पर स्थापित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है उल्लेखनीय है कि हिंदू ग्रंथों के मुताबिक ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक हिंदू समुदाय के आम जनमानस को अपने जीवन काल में चार धाम की यात्रा करनी चाहिए बताते वलें कि शास्त्रों के अनुसार चार धाम की यात्रा करने से व्यक्ति की सभी पाप तपा का

के जमुनीपुर गांव निवासी ब्रह्मचारी राजेश मिश्रा व उनकी धर्मपत्नी प्रमिला मिश्रा अपने कई भक्तगणों के साथ प्रस्थान किया प्रस्थान को लेकर गाजा बाजा के साथ उन्हें माल्यापर्ण कर पूरे ग्राम व क्षेत्रवासी द्वारा खुशियों के साथ विदाई की गई और खुशियों में सराबोर होकर सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत भजन कीर्तन किया गया जो कि भारतीय संस्कृति का परिचायक रहा

सड़कों की पटरियों पर अतिक्रमण से लग रहा जाम

सोरांव प्रयागराज तहसील क्षेत्र के कई सड़कों के पटरियों पर अतिक्रमण के चलते आए दिन जाम लग रहा है जिससे आए दिन जिससे राहगीरों के आवागमन में परेशानी हो रही है जिसके लिए संबंधित विभाग मान है जानकारी के अनुसार तहसील सोरांव के फूलपुर मार्ग होलागाढ़ मार्ग सोरांव कल्याण पुर मार्ग ही नहीं बल्कि तथा कथित दुकानदारों द्वारा सोरांव चौराहा के प्रमुख सड़कों के दोनों पटरियों पर अतिक्रमण किया जा रहा है इसी क्रम में कई ई-रिक्शा टैपो एवं डागा मार गाड़ियां बिना ट्रेफिक नियमों के पालन करते हुए दबदबा जमाए रहते हैं जिसके लिए प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है मजे की बात तो यह है कि आम चौराहा के आसपास ही तहसील मुख्यालय थाना ब्लॉक सहित कई कार्यालयों का संचालन होने के बावजूद भी फुलपुर के दुकानदारों एवं डागा मार गाड़ियों व तथा कथित दुकानदारों का दबदबा कायम है जिसे लेकर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है उल्लेखनीय है कि कभी-कभी जाम का आलम इस कदर अपना झाम बना लेता है कि लोगों को एक बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिसमें प्रशासन व पुलिस प्रशासन भी शामिल रहते हैं परंतु जाम को लेकर प्रशासन पुलिस प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कोई जांच देही नहीं दिखाई पड़ रही है जिससे अतिक्रमण का निजात होना नहीं दिखाई पड़ रहा है



झूसी शास्त्री पुल पर लगा घंटों भीषड़ जाम, कई घंटों तक फंसे रहे लोग

प्रयागराज। झूसी शास्त्री पुल पर मरम्मत के कारण रविवार को चार घंटे के लिए ट्रेफिक वनवे होने से भीषण गर्मी में हजारों लोगों को जाम से जूझते रहे। झूसी से लेकर शहर तक भीषण जाम लगा रहा वहीं बैरहना तक वाहनों की कतारें लगी रहीं उसी बीच में एम्बुलेंस भी फंसी रही। इधर, नए यमुना पुल पर भी वाहनों की कतार लग गई। लेप्रोसी चौराहे तक जाम लग गया। डायवर्जन खत्म होने के बाद स्थिति सामान्य हो सकी। शास्त्री पुल की शहर से झूसी जाने वाली लेन को सुबह 11 बजे से तीन बजे तक के लिए बंद किया गया था। झूसी से शहर आने वाली लेन से ही दोनों तरफ का

ट्रेफिक गुजर रहा था। दोपहर करीब 12 बजे जाम शुरू हुआ। कुछ ही देर में गाड़ियों की लम्बी कतारें लग गईं। झूसी थाने के सामने तक जाम की स्थिति बन गई। इधर, शहर में स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। दोपहर में अलोपीबाग और चुंगी से लेकर जीटी जवाहर चौराहा तक वाहन फंसे रहे। हर तरफ भयंकर जाम लग गया। पटेल संस्थान के सामने गाड़ियां फंसे गईं पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। देखते ही देखते नए यमुना पुल पर भी वाहन फंस गए। जाम लेप्रोसी चौराहा तक पहुंच गया। बस से वाराणसी जा रहे यात्री दोपहर में जाम में फंस गए। निजी बसें भी जाम में फंसी रहीं। यात्री गर्मी में



हलाकान हो गए। जाम के कारण दोपहिया वाहनों का भी निकलना मुश्किल हो गया।

दोपहर बारह से लेकर तीन बजे तक यही स्थिति बनी रही। बीच-बीच में टूटर बजाते

हुए एम्बुलेंस किसी तरह से निकल पा रही थीं।

विशेष टीम करेगी पूर्व सपा विधायक पर दर्ज मुकदमें की विवेचना

प्रयागराज। पूर्व सपा विधायक परवेज अहमद टंकी पर दर्ज मुकदमें की जांच के लिए विशेष टीम का गठन होगा। वहीं टीम मुकदमें की विवेचना करेगी। पूर्व सपा विधायक पर प्लाट के नाम पर 9.90

छह माह पहले पूर्व विधायक को प्लाट खरीदने के लिए 9.90 लाख रुपये नगद दिये थे। आरोप है कि इसके बाद न उसे प्लाट दिया गया और न ही रुपये दिये गये। आरोप है कि 20 दिन पहले वह करमात की चौकी की तरफ जा रहा था तो रास्ते में पूर्व विधायक अपने दो अन्य साथियों के साथ मिल गए। वहां एक बार फिर उसने अपने रुपये वापस मांगे तो वह गालीमाली करने लगे और जान से मारने की धमकी दी। अंतरसुइया निवासी अब्बास ने पूर्व विधायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी है वह कभी उनका साथी था। करेली में माफिया अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशराफ के साथ मैक टाउन नाम की टाउनशिप बसाने में दोनों पार्टनर थे। अवैध रूप से बसाई गई इस प्लाटिंग के मामले में अशराफ व राधिद फरीदी के साख्त वह दोनों भी नामजद कराये गये थे।

9.90 लाख रुपये हड़पने के आरोप में करेली थाने में दर्ज है मुकदमा

लाख रुपये हड़पने के आरोप में करेली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। सूत्रों की माने तो जल्द ही दर्ज मुकदमें की विवेचना के लिए एक विशेष टीम का गठन होगा। अंतरसुइया निवासी मो. अब्बास ने करेली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है कि

वोटों को साधने के लिए भाजपा का नुक्कड़ नाटक का मेगा प्लान

नुक्कड़ नाटक के जरिए वोटों को साधेगी भाजपा

प्रयागराज। चुनावी माहौल को दिलचस्प बनाने के लिए अपने सांस्कृतिक चुनावी कैम्पेन के साथ मतदाता तक पहुंचने की तैयारी कर रही है जिला प्रवक्ता राजेश केसरवानी ने बताया कि प्रयागराज की दोनों लोकसभा फूलपुर एवं इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को साधने के लिए नुक्कड़ नाटक का मेगा प्लान बनाया है जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा किए गए विकास का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा और

कांग्रेस और सपा के शासन में किए गए भ्रष्ट शासन की पोल खोलेंगे और और उनकी निरपत्ति का पदाफांश करेंगे नुक्कड़ नाटक के जरिए मोदी सरकार के द्वारा राम मंदिर निर्माण, धारा 370 का हटाना, सिटिजन अमेंडमेंट एवं ट्रिपल तलाक एक्ट लागू करना, प्रयागराज का दिव्य एवं भव्य कुंभ एवं प्रयागराज में विकास की योजनाओं को लेकर किए गए कार्यों के विषय पर आधारित होगा इलाहाबाद एवं

फूलपुर संसदीय क्षेत्र में लगभग 40 नुक्कड़ नाटक की टोली वार्ड स्तर पर महानगर, नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्रसिद्ध चौक चौराहों पर नुक्कड़ नाटक के जरिए मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में साधने का काम करेगी और पार्टी के प्रत्यक्षियों को जीतने की और 400 पार मोदी सरकार बनाने की अपील करेगी और नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम बहुत जल्द शुरूआत होने जा रही है जो 23 मई तक चलेगी।

डॉ भीमराव अंबेडकर पीजी कॉलेज के प्रबंधक का हार्ट अटैक से निधन



मऊ आइमा प्रयागराज। विकासखंड फूलपुर के ग्राम पंचायत लिलहट निवासी व बहरिया के जमुनीडीह गांव में स्थित डॉ भीमराव अंबेडकर पीजी कॉलेज एवं लां फात्मा कॉलेज के प्रबंधक मोहम्मद अब्दुल्ला सिद्दीकी की अचानक हृदयाघात के चलते रविवार सुबह निधन हो गया। जिसके चलते क्षेत्र वसियों एवं पीजी कॉलेज के समस्त स्टाफ में शोक की लहर है।

शौच गई महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास मुकदमा दर्ज

मऊ आइमा प्रयागराज। बहरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला जो शनिवार 2 बजे रात शौच के लिए खेत में जा रही थी। उसे गांव के ही चार लोगों ने पकड़ कर खेत में उठा ले गये और निर्वस्त्र करके गलत काम करने का प्रयास किया। मिली जानकारी के अनुसार बहरिया थाना क्षेत्र की एक गांव निवासिनी महिला जो शनिवार राति लगभग 2 बजे शौच के लिए बगल के खेत में जा रही थी। उसी समय गांव के उमाकांत उर्फ मिट्टू पुत्र शम्भू नाथ अपने तीन साथियों के साथ महिला को खेत में उठा ले गए तथा उसे निर्वस्त्र कर गलत काम करने का प्रयास किया। महिला के विल्लाने पर उक्त सभी लोग महिला को मारे पीट तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। जिसकी सूचना परिजनों ने बहरिया थाने में दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष बहरिया रणविजय सिंह मय फोर्स मौके पर पहुंचे और महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य

केंद्र बहरिया भेजा। इलाज के बाद महिला ने बहरिया थाने पहुंचकर चार लोगों के खिलाफ घटना की लिखित तहरीर दी। थानाध्यक्ष बहरिया रणविजय सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर एक नामजद और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। पुरानी रजिश को लेकर मार पीट मुकदमा दर्ज

मऊआइमा प्रयागराज। पुरानी रजिश को लेकर पड़ोसी ने मार पीट कर लहुतुहान कर दिए। पुलिस ने तीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। मऊआइमा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहन का पूरा निवासी अशोक कुमार पुत्र जयराम का आरोप है कि पुरानी रजिश को लेकर उसे मारा पीटा गया ? [तथा गालियां दी गईं]। अशोक कुमार ने विपिन कुमार, नितिन कुमार, सुभद्र कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया है।

समाज से अलग मनुष्य का अस्तित्व सम्भव नहीं-फादर पी विक्टर

सामाजिक जागरूकता पर आधारित प्रदर्शनी का प्रदर्शन

स्वतंत्र चेतना जौनपुर। सेंट जॉन्स स्कूल, सिद्दीकपुर, जौनपुर की शनिवासीय प्रार्थना सभा में कक्षा 10 स के विद्यार्थियों ने सामाजिक जागरूकता विषय पर प्रदर्शनी के माध्यम से प्रकाश डाला।



कक्षा 10 स के छात्र छात्राओं ने पूरे सप्ताह सामाजिक जागरूकता विषय पर अपने विचार प्रकट किए। विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर पी विक्टर ने विद्यार्थी एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज से अगल मानव अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती अतः सामाजिक चेतना का संचार परमावश्यक है। समाज में बड़े छोटे

एवं एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार हो अन्य जीव, जंतुओं खासकर वृक्षों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य हो संवैधानिक, लोकोतांत्रिक व्यवस्था कैसे सुचारु रूप से चले आदि

विषयों पर सामाजिक चैतन्यता आवश्यक है। इस अवसर पर फादर ने सामाजिक सहभागिता एवं सहयोग की भावना विकसित करने की सीख दी।

आत्महत्या के लिए उकसाने में पत्नी और प्रेमी पर केस

सोनभद्र। करमा थाना पुलिस ने जनवरी माह में युवक की आत्महत्या के मामले में महिला समेत दो लोगों पर केस दर्ज किया है। दोनों पर युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

न्यायालय के समक्ष दिए गए प्रार्थना पत्र में मिर्जापुर जिले के सुरहांद निवासी रमेश पाल ने बताया कि 14 साल पूर्व उसके पुत्र राजकुमार पाल ने करमा थाना क्षेत्र के बहेरा में जमीन

लिया था। वहां वे अपनी पत्नी प्रमिला के साथ रहता था। बताया कि बहेरा के ही रामवृक्ष के साथ प्रमिला का प्रेम संबंध हो गया था। इस कारण राजकुमार और प्रमिला के बीच कुछ दिनों से मनमुटाव चल रहा था। रमेश ने बताया कि 21 जनवरी को रामवृक्ष यादव ने फोन कर कहा कि लड़के को समझा दो। घर जाने कि प्रमिला ने कहा कि लड़के को समझा दो मेरे कमरे में न आया करें।

सांसद प्रो.रीता बहुगुणा जोशी ने बूथ सम्मेलन को संबोधित कर कमल खिलाने की अपील

प्रयागराज। आप के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करने आया हूँ, आपके लिए हमेशा दरवाजा खुले रहेंगे-नीरज त्रिपाठी सांसद, महापौर, विधायक, ब्लाक प्रमुख, जिलाध्यक्ष, लोकसभा व जिला पदाधिकारियों ने बारा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया।

बारा विधानसभा व करुणा विधानसभा में आयोजित हुई बूथ अध्यक्ष सम्मेलन प्रयागराज। हमारे शक्ति केंद्र प्रभारी, संयोजक, बूथ अध्यक्ष, वीएलओ-2 और पन्ना प्रमुखों की मेहनत ही घर-घर कमल खिलाने का कार्य करते हैं। 2024 में भी यही समितियां कमल खिलाने की अपील कर रही हैं। सांसद प्रो.रीता बहुगुणा जोशी ने कहा जो आप कार्यकर्ताओं ने महीनों से मेहनत किया है उससे परिणाम लेने के लिए शेष बचे दिनों में और अधिक परिश्रम करें 25 मई को कमल खिलाने का कार्य करना है। इलाहाबाद लोकसभा उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी ने कहा पार्टी ने

उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक करन सिंह पटेल ने रविवार को इंडरवर्दीन छेदीलाल इंटर कॉलेज जसरा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा और बताया कि हमारे पास मोदी सरकार और योगी सरकार अनगिनत उपलब्धियां हैं। नीति निहित निर्णय लेने वाली



भाजपा सरकार है। हम सब आपके मेहनत से पुनः जीत दर्ज करेंगे इसमें तनिक संदेह नहीं है। सांसद प्रयागराज प्रो.रीता बहुगुणा जोशी ने कहा जो आप कार्यकर्ताओं ने महीनों से मेहनत किया है उससे परिणाम लेने के लिए शेष बचे दिनों में और अधिक परिश्रम करें 25 मई को कमल खिलाने का कार्य करना है। इलाहाबाद लोकसभा उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी ने कहा पार्टी ने

जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसे बहुत सोच-समझकर आप कार्यकर्ताओं के बल पर लिया हूँ। और आप कार्यकर्ताओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करने आया हूँ, आपके लिए नीरज त्रिपाठी के दरवाजे सदैव खुले रहेंगे। मैं स्वर्गीय पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी की विरासत को स्वच्छ

ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरकर सरकार की तमाम योजनाओं को स्मरण कराया। लोकसभा संयोजक शिवदत्त पटेल ने सभी का वृत्त लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष यमुनापुर विनोद प्रजापति ने करते हुए मुख्य अतिथि को विश्वास जताया कि नीरज

विधायक, जिलाध्यक्ष का स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष विभवनाथ भारती, पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र अध्यक्ष अश्वनी कुमार सिंह, लोकसभा विस्तारक प्रिंस गुप्ता, लोकसभा सह संयोजक बबू राम द्विवेदी, जिला उपाध्यक्ष संतोष त्रिपाठी, पुष्पराज सिंह पटेल, जिला मंत्री प्रकाश शुक्ल, कमलेश त्रिपाठी, शिवराम सिंह परिहार, ब्लाक प्रमुख शंकरगढ़ निर्मला देवी, ब्लाक प्रमुख कोशियारा इन्द्रनाथ मिश्र, जसरा अजीत प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा राजमणि पासवान, पिछला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुभाष सिंह पटेल, मंडल अध्यक्ष जगत शुक्ला, शिवपसाद केसरवानी, शंकर लाल पाण्डेय, अमन मिश्र, बृजेश पांडेय, वेदश दत्त पाण्डेय, राजू सिंह पटेल, बंदना सिंह, कुलदीप सिंह पटेल, धर्मराज पाल आदि ने भी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में अनिल मिश्र, उमेश शुक्ला, बबलू, प्रवीण, अशोक, मिथिलेश आदि के साथ बूथ अध्यक्ष, वीएलओ, शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी, विधानसभा के जिला, क्षेत्र, प्रदेश के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि इसके बाद करुणा में भी बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें करुणा विधानसभा के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे।



संगम तट, दशाश्वमेध मंदिर पर चला स्वच्छता जन जागरूकता अभियान

प्रयागराज। रविवार को प्रातः काल अनामिका चौधरी प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश एवं प्रभारी चंदौली ने अपने पदाधिकारियों संग प्रयागराज के संगम तट, दशाश्वमेध मंदिर, बड़े गणेश जी मंदिर, वेणीमाधव जी मंदिर पर स्वच्छता और जन जागरूकता अभियान चलाया।

भगवान श्री वेणीमाधव की पूजा अर्चना कर प्रार्थना किया गया। इस अवसर पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष नीरज त्रिपाठी को सम्मानित भी किया गया। नीरज त्रिपाठी ने गंगा तटों पर स्वच्छता अभियान को साराह और प्रत्येक नागरिक को भी इससे जुड़ने के लिए आवाहन किया।

सुभाष तिवारी, आशीष कुशवाहा, मीरा देवी, दीप द्विवेदी, टीटू केसरवानी, सुधीर श्रीवास्तव ने अनामिका चौधरी एवं नीरज त्रिपाठी को पुष्प गुच्छ एवं माल्यापर्ण कर स्वागत किया। नेता केशरी, रूशाली मिश्रा, मृगाली मिश्रा, नीलम शुक्ला, सुमन बाला ने अनामिका चौधरी को स्मृति चिन्ह व मिष्ठान भेंट कर सम्मानित किया। आचार्य कोशल किशोर मिश्र, सोनू अरोरा राकेश मिश्रा, निखिल श्रीवास्तव, रामजी शर्मा अधिवक्ता, अजय द्विवेदी अधिवक्ता, विजय केशरी, पंकज राय, भीम सिंह, अतुल श्रीवास्तव, पार्थ श्रीवास्तव, आशुतोष श्रीवास्तव, मेजर सुनील निषाद ने भी सहयोग दिया।

पूजा जगन्नाथ सोनपाकर को मिली शिक्षाशास्त्र में पीएचडी की उपाधि



प्रयागराज। सैम हिमिंगनॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय में पूजा जगन्नाथ सोनपाकर द्वारा शिक्षाशास्त्र में शोध कार्य पूरा करने पर उन्हें पीएचडी उपाधि अर्जित की गई। पूजा सोनपाकर के फार्मल वाइवा में चेरपर्स प्रोफेसर (डा.) अशुषी जबकि वाहय परीक्षक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. प्रतिभा उपाध्याय थीं। पूजा की पीएचडी की गाईड डॉ. अनुपमा मेहता थीं। पूजा जगन्नाथ सोनपाकर का शोध शीर्षक आधुनिक युग में वैदिक शिक्षा का पुनः उदय था, जिसमें उन्होंने पाया कि प्राचीन ग्रंथों में शिक्षा को गुणवत्ता परक बनाने,

इसे आम जनता तक सुलभतापूर्वक पहुंचाने के साथ मानव जीवन में इसकी महत्ता के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है, जिसे डिफेंड किया जा सकता है और वर्तमान परिदृश्य में उपयोग किया जा सकता है। फार्मल वाइवा में डीन डा. सामला एस मसीह, मास कम्यूनिक्शन के डीन डा. आशीष अलेक्जेंडर, डा. निहारिका डेनिस, डा अनुपमा मेहता, डा. ए.ए.एस. चिन्तामणि, डा. प्रेम प्रभा, डा. वेतना पाण्डेय, डा. संगीता अल्फ्रेड, डा कीर्ति कटिंग, डा सेखादा सारा अजीज, डा ज्योत्सना जायसवाल, डा. प्रक्षोभ, डा अंजनी सर्वसेना आदि उपस्थित रहे।

निःशुल्क योग साधना केंद्र शाखा मंडल का रेल प्रबंधक ने किया उद्घाटन

प्रयागराज। रविवार को मंडल रेल प्रबंधक/प्रयागराज, हिमांशु बडोनी द्वारा मंडल रेल प्रबंधक, प्रयागराज कार्यालय के प्रांगण में स्थित मंडल सभागार में भारतीय योग संस्थान द्वारा संचालित किये जा रहे निःशुल्क योग साधना केंद्र शाखा

जब हम योग करते हैं तो मांसपेशियों में खिंचाव, मरोड़, मरोड़ और खिंचाव जैसी कई क्रियाएं होती हैं। इससे हमारे शरीर की थकान दूर होती है और हम हमेशा तरोताजा महसूस करते हैं। यदि आप

आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर और आत्मा को एकत्र करना ही योग कहलाता है। योग समझने से ज्यादा करने की विधि है। योग साधने से पहले योग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। राजन कुमार

कार्यक्रम के समापन पर सर्वेश पांडे जिला मंत्री प्रयागराज द्वारा कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु आनंद कृष्ण गुप्ता एवम उनकी कर्मचारी हित निरीक्षी का कार्यलय सहायको की टीम, टेलीकॉम, आई ओ डब्ल्यू

प्रयागराज मंडल कार्यालय में भारतीय योग संस्थान द्वारा योग साधना केंद्र का शुभारम्भ

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय की उद्घाटन किया गया। आयोजन के प्रारंभ में मंडल रेल प्रबंधक, अन्य अधिकारी गण और भारतीय योग संस्थान/प्रयागराज के जय प्रकाश श्रीवास्तव, राजेश कुमार जायसवाल अन्य पदाधिकारियों द्वारा मांसरस्वती तथा भारतीय योग संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय प्रकाश लाल के प्रतिभा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलित एवं सरस्वती वंदना करने के उन्का अभिनंदन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक/प्रयागराज, हिमांशु बडोनी ने इस कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए कहा योग हमें जोड़ता है यह हमारे मन और शरीर को एकत्र करता है



नियमित रूप से योग करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा का संवहर होगा। जय प्रकाश श्रीवास्तव, राजेश कुमार जायसवाल जी एवं हंस कुमार राय द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया एवम मंडल सभागार में उपस्थित सभी रेल कर्मचारियों को योग कराया गया एवम योग करने के लाभ एवं बारीकियों से अवगत कराया गया और बताया कि योग एक

श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रधान -कद्वारा योग साधना केंद्र की मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय शाखा के संरक्षक राम कृत सिंह यादव, केंद्र प्रमुख अशोक कुमार एवं उप केंद्र प्रमुख प्रशांत कुमार के नाम की घोषणा की गई साथ ही श्री गौतम शील निजी सहायक मंडल रेल प्रबंधक को शाखा की स्थापना में विशेष योगदान हेतु सम्मानित किया गया।

स्टाफ आरएसओ, ऑफिसर टि ग, मॉडि क ल टिम, एसी, विद्युत विभाग के स्टाफ तथा सफाई व्यवस्था हेतु डी डी एच एम के स्टाफ तथा आयोजन में सम्मिलित हुए सभी योग साधकों को धन्यवाद ध्यापित किया गया। योग साधने के इस आयोजन में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, मनीष खरे; वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, एस. के. शुक्ला; मंडल कार्मिक अधिकारी, के.एल. जायसवाल; सहा कार्मिक अधिकारी, आदेश मिश्रा; सहायक मंडल विद्युत अभियंता (ओपी), ललवानी एवम अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे।

कसाइयों से गोवंशजो को बचाने हेतु गौरक्षक सचल दस्ते का गठन

प्रयागराज। विश्व हिंदू परिषद, गौरक्षा के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक आज कीडंगज में संपन्न हुई जिसमें प्रयागराज में गोवंशजो की तस्करी व गौहत्या पर आक्रोश व्यक्त करते हुए पदाधिकारियों ने कहाकि जब ररक्षक ही भक्षक बन बैठे तो गोमाता की सुरक्षा कैसे होगी? क्योंकि जिस

गोहत्या व गोतस्करी का गोरक्ष घंघा चल रहा है ' गोमाता को कसाइयों के चंगुल से बचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा की बैठक में गोरक्षक सचल दस्ते का गठन किया गया जो प्रांत मंत्री की देखरेख में कार्य करेगा

आकरिमिक छापा मारकर गोमाता की जान बचाने का निर्णय

जिसमें प्रयाग महानगर में लवलेषा बजरंगी, विजय पांडे, श्याम जी, चंद्रशेखर साहू व गंगापार में विष्णु स्वामी जी, प्रियांशु जी, संतोष त्रिपाठी, दीपक जी, रोहित त्रिपाठी, विनय जी, निकेत व आशुष श्रीवास्तव तथा यमुनापुर में विनय द्विवेदी, प्रमोद जी, विनय मिश्रा व शुभम जी के नेतृत्व में 21-21 लोगों को गौरक्षक सचल दस्ते में रखा गया है जो गौहत्या व गोतस्करी की सूचना मिलने पर आकरिमिक छापा मारकर कसाइयों के चंगुल से गो माता को बचाकर कसाइयों को दंडित कराने का कार्य करेंगे। अब किमी भी कीमत पर गोवंशजो की तस्करी व गौहत्या नहीं होने दी जाएगी। बैठक में भोलानाथ मिश्र, विष्णु स्वामी, प्रियांशु, लवलेषा बजरंगी, श्याम, विजय पांडे, संतोष, दीपक, रोहित त्रिपाठी, आशुष श्रीवास्तव, चंद्रशेखर साहू, विनय द्विवेदी, प्रमोद, विनय मिश्रा, शुभम सहित काफी पदाधिकारी उपस्थित थे।

आरपीएफ ने आपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत नाबालिक लड़की को बाल कल्याण समिति को सुपुर्द किया

प्रयागराज। रविवार को रेलवे सुरक्षा बल/मिजापुर के निरीक्षक मनोज कुमार पांडे एवं कांस्टेबल प्रदीप कुमार पाल प्रथम को प्लेटफार्म पर निगरानी के दौरान लगभग 11.00 बजे प्लेटफार्म 02/03 पर पश्चिमी छोर पर एक लड़की डरी सहमी अवस्था में खड़ी मिली रेलवे सुरक्षा बल द्वारा पकड़कर लेने पर उसने अपना नाम अमीना पुत्री आलम, उम्र- 17 वर्ष, निवासी- किदवई नगर थाना- आरके किदवई नगर चौकी जिला- मुंबई सीएसटी (महाराष्ट्र) बताया अमीना घर से नाराज होकर बिना किसी को बताए घर से भाग मुंबई से ट्रेन पकड़कर मिजापुर पहुंची और जब पानी लेने के लिए ट्रेन से उतरी तो ट्रेन चल पड़ी और वह उसमें चढ़ नहीं पाई, महिला कांस्टेबल ज्योति रानी को मौके पर बुलाकर उनके द्वारा लड़की को आरपीएफ पोस्ट मिजापुर पर लाकर अपनी निगरानी में रखा गया और बाद में जिला बाल कल्याण समिति मिजापुर के सुपुर्द कर दिया गया।



प्रयागराज। रविवार को धूमनांगज में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन की ओर से शरबत वितरण का कार्यक्रम किया गया जिसमें सैकड़ों लोगों ने शरबत ग्रहण किया। साथ ही साथ एसोसिएशन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके साथ ही संगठन में कार्य करने वाले सदस्यों व पदाधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। 25 मई को होने वाले मतदान में

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन ने शरबत वितरण कर मतदाता जागरूकता संगोष्ठी का किया आयोजन

प्रयागराज। रविवार को धूमनांगज में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन की ओर से शरबत वितरण का कार्यक्रम किया गया जिसमें सैकड़ों लोगों ने शरबत ग्रहण किया। साथ ही साथ एसोसिएशन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके साथ ही संगठन में कार्य करने वाले सदस्यों व पदाधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। 25 मई को होने वाले मतदान में

लोकतांत्रिक भारत में वोट और चुनाव के महत्व की एक संगोष्ठी आयोजित की गयी जिसमें संगठन के सदस्य व पदाधिकारियों को अपने मत का प्रयोग करने व अपने अधिकारों का प्रयोग करने तथा मतदान कर के रात में अपनी भागीदारी देकर एक नए रास्ते के निर्माण में अपना अमूल्य मदद देकर एक जिम्मेदार नागरिक बनें। इस मौके पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश सिंह तोमर ने कहा कि मानवाधिकार एसोसिएशन समय-समय पर आमजन मानस के



लिए कार्य करता रहता है, चाहे उनके हक की लड़ाई हो यह उनके अधिकारों की हम मानव सेवा के साथ-साथ देश सेवा भी करते हैं। इस कड़ी में मतदान के लिए जागरूक किया और मतदान से अपने बचाव और उम्मीदवार को चयनित करे एक जिम्मेदार मतदाता ही सभी में जागरूकता ला सकता है। कार्यक्रम के अंत में मानवाधिकार के नए सदस्यों का परिचय पत्र देकर सपथ दिलाई गई साथ ही साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले को संस्था की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उनको मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया जिसमें सजद गुरा जिला अध्यक्ष हसन नकवी अल्प संस्थक विदेशी प्रोफेसर विजय सिंह राष्ट्रीय प्रमुख, पवन कुमार गौरव संगठन सचिव, प्रदीप शर्मा नगर उपाध्यक्ष, अमित कुशवाहा, प्रदीप केसरवानी, मनीषा साहू डब्ल्यूटी राय, लल्ल मिश्रा व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे संगोष्ठी का समापन राष्ट्र गान के साथ समापन किया गया।

अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई बाइक सवार युवक की मौत, दो गंभीर

प्रयागराज। पीसीबी हास्टल के पास रविवार की सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकरा गयी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गये। दोनों घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। युवक की मौत से परिजनों में मातम छा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

कर्मनागल थाना क्षेत्र के कटरा निवासी बृजेश सोनकर के चार बेटे थे। सभी सच्ची कारोबारी थे। बताया जाता है कि चार भाइयों में सबसे छोटा ऋतिक अपने साथी राहुल सिंह और सत्यम सर्वसेना के साथ बाइक से रविवार की सुबह चाय पीने के लिए जा रहा था। पीसीबी हास्टल के पास बाइक अनियंत्रित हो गयी और पेड़ से टकरा गई। हादसे में ऋतिक की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि राहुल सिंह और सत्यम गंभीर रूप से घायल हो गये। घायल राहुल की हालत गंभीर बताया जा रही है। जिसे डाक्टरों ने पीजीआई के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस ने ऋतिक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत से परिजनों में मातम छा गया।

बूथ जीता तो लोकसभा जीतेंगे और लोकसभा जीता तो केन्द्र में भाजपा की सरकार- करण सिंह पटेल

प्रयागराज। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी के समर्थन में आज बारा करुणा और शहर दक्षिणी विधानसभा में बूथ सम्मेलनों का आयोजन संपन्न हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं विधायक रहे करण सिंह पटेल सम्मिलित होते हुए आह्वान किया कि बूथ जीता तो लोकसभा जीतेंगे और लोकसभा जीता तो केन्द्र में भाजपा की सरकार तीसरी बार बनने से कोई रोक नहीं सकता विपक्षी चाहे जो भी प्रयास कर ले देश की जनता देख रही है कि सभी भ्रष्टाचारी आए एक स्वर में सिर्फ भाजपा को हराने कि बात कर रही है तकि भ्रष्टाचार में दुबे विपक्षी तलों के नेता जेल जाने से बच सके हमारे पास केन्द्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का खजाना है

जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहें हैं, भाजपा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी ने बूथ सम्मेलनों और जायसवाल सम्मेलन में शामिल होते हुए कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय के लिए भाजपा की

रहें है। इलाहाबाद संसदीय मीडिया प्रभारी देवेन्द्र नाथ मिश्र के अनुसार कार्यक्रम में

जोशी, विधायक वाजस्पति जी, महापौर गणेश केशरवानी, जिलाध्यक्ष विनोद प्रजापति, लोकसभा प्रभारी मनोज



मुख्य अतिथि पूर्व विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष रहे करण सिंह पटेल जी, महानगर अध्यक्ष राजेश मिश्र, जिलाध्यक्ष यमुनापुर विनोद प्रजापति, सांसद रीता बहुगुणा

जायसवाल, लोकसभा संयोजक शिवदत्त पटेल जी, ब्लाक प्रमुख इन्द्रदेव मिश्र जी, ब्लाक प्रमुख निर्मला (शंकरगढ़), ब्लाक प्रमुख अजीत पताप

सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा हाई स्कूल वर्ष 1970 अणु 176772 का प्रमाण पत्र वास्तव में कही खो गया है। सुधीर कुमार वासवा पून स. रामदेव वासवा एमडी 1-202 सेक्टर डी-1 एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ

सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा हाई स्कूल वर्ष 2022 अणु 1221402642 का अंकपत्र व सहप्रमाण पत्र वास्तव में कही खो गया है। उमा देवी पुत्री राजकरण, फिओ अर्बन बरदा खुर्द थाना राजपुर, वरसील राजपुर, विन्कट

मैनपुरी में अब तक नहीं टूटा रघुनाथ सिंह का रिकार्ड

मैनपुरी। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली सीट मैनपुरी पर रघुनाथ सिंह के 78.60 फीसदी वोट पाने का रिकार्ड कोई दूसरा अब तक तोड़ नहीं पाया। इस सीट से सपा और कांग्रेस के बड़े नेता जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन रघुनाथ सिंह का रिकार्ड तोड़ना तो दूर पिछले 42 वर्षों में कोई उसके आस-पास भी पहुंच नहीं सका। 1996 से लगातार इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। उल्लेखनीय है कि तीसरे चरण में सात मई को मैनपुरी में मतदान होगा।

मैनपुरी संसदीय सीट से कांग्रेस के बादशाह गुप्त, बंसी दास दीगरा, महाराज सिंह जैसे

दिग्गज जीत चुके हैं। जनता पार्टी सेक्युलर के रघुनाथ सिंह वर्मा, मुलायम सिंह के गुरु उदय प्रताप सिंह जनता दल और जनता पार्टी की टिकट पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव, वरिष्ठ सपा नेता बलराम सिंह यादव, मुलायम सिंह की बहू डिपल यादव, भतीजे धर्मन यादव और पोते तेज प्रताप यादव जीत हासिल कर चुके हैं। बावजूद इसके रघुनाथ सिंह का रिकार्ड अब तक कायम है।

1977 में रघुनाथ सिंह को मिले थे 78.60 फीसदी वोट। पांचवीं लोकसभा के 1977 में हुए चुनाव



में देशभर में कांग्रेस विरोध की प्रवृद्ध लहर थी। इस लहर का असर उत्तर प्रदेश में देखने का मिला। भारतीय लोकदल (बीएलडी) ने सूबे की सभी 85 सीटों पर विजय पाताका

फहरा कर कांग्रेस को शून्य पर बोल दिया था। बीएलडी के ज्यादातर प्रत्याशियों ने 60 फीसदी से ऊपर वोट हासिल किए थे। बात मैनपुरी सीट की कि जाए तो इस सीट पर भारतीय लोकदल प्रत्याशी रघुनाथ सिंह वर्मा 78.60 फीसदी वोट पाकर कुर्सी पर काबिज हुए। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के महाराज सिंह को 17.46 फीसदी वोट हासिल हुए। इस चुनाव में मैनपुरी सीट पर चार प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें दो निर्दलीय थे। कुल 368,223 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।

2004 में मुलायम सिंह को मिले थे 63.96 फीसदी वोट।

फिरा कर कांग्रेस को शून्य पर बोल दिया था। बीएलडी के ज्यादातर प्रत्याशियों ने 60 फीसदी से ऊपर वोट हासिल किए थे। बात मैनपुरी सीट की कि जाए तो इस सीट पर भारतीय लोकदल प्रत्याशी रघुनाथ सिंह वर्मा 78.60 फीसदी वोट पाकर कुर्सी पर काबिज हुए। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के महाराज सिंह को 17.46 फीसदी वोट हासिल हुए। इस चुनाव में मैनपुरी सीट पर चार प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें दो निर्दलीय थे। कुल 368,223 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।

2004 में मुलायम सिंह को मिले थे 63.96 फीसदी वोट।

मोदी वॉशिंग मशीन में धुल रहे भ्रष्टाचारियों के दाग :आप

नयी दिल्ली,वार्ता। आम आदमी पार्टी (आप) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी करार देते हुए रविवार को कहा कि मोदी वॉशिंग मशीन में भ्रष्टाचारियों के दाग धुल रहे हैं। आप ने आज यहाँ राजेंद्र नगर में जेल का जवाब वोट से अभियान के तहत वॉशिंग मशीन का आयोजन किया। इस दौरान आप सांसद संजय सिंह ने कहा, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का वॉशिंग मशीन एक बहुत अच्छा तरीका है। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह मोदी वॉशिंग मशीन 2014 के बाद पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को भाजपा के साथ मिलकर, उनका सहयोग लेकर और मंत्री बनाकर उनके भ्रष्टाचार के दाग को



धुल रही है। यह कोई छोटा मामला नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ने अशोक चौहान के लिए कहा कि कारगिल के विधवाओं के प्लेटों के पैसे खाए।

श्री सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री ने अजीत पवार के लिए कहा कि 70 हजार करोड़ के लिए कहा कि कारगिल के विधवाओं के प्लेटों के पैसे खाए।

दाउद इब्राहिम का आदमी है। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी में मिला लिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा सरमा पर घोटाले का आरोप लगाकर कुलेट जारी करती है। इसके बाद उसे भाजपा में मिला लेते हैं और मुख्यमंत्री बना देते हैं।

उन्होंने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा ने रिश्वत लिया और धंधा दिया। जिन कंपनियों से रिश्वत ली गई, उनको मोदी सरकार द्वारा तीन लाख आठ करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। कंपनियों पर प्रवर्तन निदेशालय (इंडी) और केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के छापे मारे गए और और उनसे रिश्वत ली गई। भाजपा ने इतना भ्रष्टाचार किया है कि भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा पताला में घुस गई है।

भाजपा को आठवीं बार जीत का परचम लहराने से

रोकने के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत

धिलासापुर, वार्ता। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में शुमार हाई-प्रोफाइल बिलासपुर से लगातार सात बार चुनाव जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 2024 में आठवीं दफ्ता जीत का परचम लहराने के लिए आतुर है। वहीं उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस ने अपने रणनीतिक व्यूह के जरिए इस चुनावी कुरुक्षेत्र में भाजपा का किला फनह करने के वास्ते पूरी ताकत झोंक दी है।



घोषित किये जाने के बाद से साहू और यादव समाज के मतदाताओं में अपने अपने जाति के प्रत्याशियों के पक्ष में जबरदस्त एकजुटता दिखाई दे रही है। वहीं एएसटी/एससी के मतदाताओं के बीच सविधान की रक्षा के मुद्दे ने पहली बार जोर पकड़ा है और

इससे भाजपा को नुकसान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। भाजपा ने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा से काफी पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था और शुरूआत में कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो किसी के चक्कर में नारे के साथ हावी होती नजर आ रही थी। दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार देवेन्द्र यादव की धमाकेदार एंटी और बदलबो बिलासपुर के बुलंद नारे से जबरदस्त मुकबले की तस्वीर सामने आयी है। भाजपा अपने उम्मीदवार के पक्ष में राम मंदिर निर्माण तथा मोदी की गारंटी का हवाला देकर मतदाताओं के अपने पक्ष में होने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार विशेषकर कुछ महीनों पहले चुनावी बांड के खुलासे तथा सविधान में बदलाव को लेकर भाजपा की नीयत को जनता के सामने रखने के साथ ही अपने न्याय पत्र (घोषणापत्र) में युवाओं को रोजगार, गरीब महिलाओं को साल में एक लाख रुपए देने के वादों पर जोर दे रही है।

इससे भाजपा को नुकसान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। भाजपा ने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा से काफी पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था और शुरूआत में कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो किसी के चक्कर में नारे के साथ हावी होती नजर आ रही थी। दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार देवेन्द्र यादव की धमाकेदार एंटी और बदलबो बिलासपुर के बुलंद नारे से जबरदस्त मुकबले की तस्वीर सामने आयी है। भाजपा अपने उम्मीदवार के पक्ष में राम मंदिर निर्माण तथा मोदी की गारंटी का हवाला देकर मतदाताओं के अपने पक्ष में होने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार विशेषकर कुछ महीनों पहले चुनावी बांड के खुलासे तथा सविधान में बदलाव को लेकर भाजपा की नीयत को जनता के सामने रखने के साथ ही अपने न्याय पत्र (घोषणापत्र) में युवाओं को रोजगार, गरीब महिलाओं को साल में एक लाख रुपए देने के वादों पर जोर दे रही है।

लोकसभा चुनाव 2024

नीतीश का सियासी परवाज, परवान चढ़ने के पहले ही थम गया था

पटना, वार्ता। बिहार में सर्वाधिक नौ बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार का सियासी परवाज, परवान चढ़ने के पहले ही थम गया था।

नीतीश कुमार ने अपने सियासी जीवन की शुरूआत जे.पी.आंदोलन में वर्ष 1977 में हरनौत विधानसभा से की थी। हरनौत विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से टाल क्षेत्र में आता है और मोकामा के बाद दलहन-तिलहन के लिए यह टाल क्षेत्र मशहूर है। टाल क्षेत्र को मुद्दा बना कर उन्होंने राजनीति में कदम रखा था।

वर्ष 1977 में हरनौत विधानसभा क्षेत्र से नीतीश कुमार ने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन उन्हें निर्दलीय भोला प्रसाद सिंह ने मात दे दी। श्री कुमार वर्ष 1980 में भी हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनावी समर में उतरे, लेकिन इस बार भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। जनता पार्टी (सेक्यूलर) के टिकट पर चुनाव



लड़ रहे श्री कुमार को इस बार निर्दलीय प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह ने मात दे दी। बताया जाता है कि लगातार दो हार के बाद श्री कुमार ने तय कर लिया था कि वह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। वर्ष 1985 के विधानसभा चुनाव में श्री कुमार फिर हरनौत से चुनाव लड़ने उतरे। इस बार उनकी किस्मत चमक गयी।

लोकदल प्रत्याशी नीतीश कुमार ने कांग्रेस के बृजानन्दन प्रसाद सिंह को पराजित किया और पहली बार विधानसभा पहुंच गये। इसके बाद उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। हरनौत सीट को श्री कुमार का अभेद किला माना जाता है। वर्ष 2005 से लेकर अबतक हुए चुनावों में उनकी पार्टी जनता दल युनाइटेड (जदयू) के प्रत्याशी यहां से लगातार जीतते रहे हैं। श्री कुमार ने वर्ष 1989 में बाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और पहली बार जीतकर संसद पहुंचे। उन्होंने इसके बाद बाढ़ संसदीय सीट से वर्ष 1991, 1996, 1998 और 1999 में लगातार पांच बार लोकसभा चुनाव जीता। वर्ष 2004 में उन्होंने बाढ़ और नालंदा दो जगहों से

लोकसभा का चुनाव लड़ा। नालंदा में श्री कुमार ने जीत हासिल लेकिन बाढ़ में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विजय कृष्णा ने जनता दल के नीतीश कुमार को पराजित किया था। इसके बाद से श्री कुमार ने न विधानसभा और न ही लोकसभा का चुनाव लड़ा है। श्री कुमार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भूतल परिवहन मंत्री, कृषि मंत्री और रेल मंत्री भी रहे हैं। नीतीश कुमार 03 मार्च 2000 को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हालांकि, बहुमत नहीं होने के कारण उन्होंने सात दिन में ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राबड़ी देवी की सरकार गिरने के बाद नीतीश कुमार 24 नवंबर 2005 से अबतक आठ बार मुख्यमंत्री बने हैं। बीच में 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015 तक नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था।

भाजपा का दावा

मैंने निभाया राजधर्म, भाजपा ने आपदा प्रभावितों को दिखाई पीठ: सुक्खू



शिमला। कसौली विधानसभा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री टाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में खरीद-फरोख्त की राजनीति शुरू कर राज्य की संस्कृति को कलंकित किया है।

उन्होंने कहा कि पार्टी से गद्दारी कर छह कांग्रेस विधायक राजनीतिक मंडी में बिके और अब खरीद फरोख्त की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाने की जिम्मेदारी प्रदेश के मतदाताओं की है। अगर खरीद फरोख्त की राजनीति को अभी सबक नहीं सिखाया तो यह आगे भी चलती रहेगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास धन बल नहीं है, बल्कि जनबल ही पार्टी की ताकत है। यह लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और आगे वाले चुनाव में प्रदेश के मतदाता भाजपा को एक राज्यसभा

सीट चुराने की सजा देकर लोकसभा की चारों सीटें कांग्रेस पार्टी के नाम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले वोट खरीदने के लिए पैसा लेते आएंगे। आप पैसे रख लेना लेकिन वोट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को ही देना।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दारियों ने जनता के साथ नमक हरामी की है और जिन भावनाओं से खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी से गद्दारी करने के बाद बिके हुए विधायक एक महीने तक प्रदेश से बाहर भागते रहे और उनके परिवार के सदस्य भी उनके लिए वंचित थे।

उन्होंने कहा कि एक दिन अचानक दारियों ने दिल्ली जाकर भाजपा पटका पहन लिया। टाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऐसा पहली बार है जब निर्दलीय विधायक हाथ में इस्तीफा लेकर घूम रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कोर्ट जा रहे हैं।

लोस हमीरपुर: निर्णायक मतदाता चुनावी महासमर में दिग्गजों को दे सकते हैं झटका

हमीरपुर। हमीरपुर-महोबा-तिंदवारी संसदीय सीट पर अब चुनावी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन निर्णायक मतदाताओं ने अभी खामोशी नहीं तोड़ी है। इस बार मतदाताओं की बेरुखी देह प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। जातीय समीकरणों के तेजी से बदलने के कारण अबकी बार निर्णायक मतदाता दिग्गजों को तमाड़ा झटका दे भी सकते हैं।



विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक सवर्ण मतदाता हैं जबकि राठ और चरखारी विधानसभा क्षेत्र में लोधी बिरादरी के मतदाताओं की बड़ी संख्या है। इसके अलावा तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ी जाति के ज्यादा मतदाता हैं। लोकसभा क्षेत्र में 18.34 लाख 444 मतदाता हैं, जिनमें सर्वाधिक

9.91 लाख 352 पुरुष और 8.43 लाख 053 महिला मतदाता हैं। राठ विधानसभा क्षेत्र में 424672 मतदाता हैं जो संसदीय क्षेत्र के अन्य विधानसभा क्षेत्रों से सर्वाधिक है। संख्या सबसे कम मतदाताओं की संख्या महोबा विधानसभा क्षेत्र में है। इस बार जातीय समीकरण में निर्णायक मतदाता चुनावी महासमर में आए दिग्गजों को झटका देने की तैयारी में है। लोधी बिरादरी से इंडी गठबंधन में सपा प्रत्याशी अजय सिंह राजपूत चुनावी गणित बनाने में जुटे हैं। जबकि बसपा प्रत्याशी निर्दोष दीक्षित भी जातीय समीकरण साधने के

लिए तपती धूप में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। चुनावी विसात में ये सभी प्रत्याशी किसी से कम भी नहीं हैं। हमीरपुर-महोबा-तिंदवारी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल तीसरी बार चुनाव मैदान में है। ये पिछले दस सालों से इस सीट पर काबिज है और अबकी बार यहां की सीट पर हैटिक लगाने के लिए चुनाव प्रचार में बड़ी ताकत लगा रहे हैं। सिटी एमपी और भाजपा प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों की तुलना में बड़े धनकुबेर है जबकि धनकुबेरों में सपा प्रत्याशी दूसरे स्थान पर है। इसीलिए भाजपा फिलहाल अन्य दलों के प्रत्याशियों पर

थारी पड़ सकते हैं। भितरघात से गठबंधन समेत अन्य प्रत्याशियों को मिल सकता है झटका अबकी बार संसदीय क्षेत्र में भाजपा और बसपा प्रत्याशियों को झटका देने के लिए भितरघात का खेल शुरू हो गया है। भाजपा प्रत्याशी से संसदीय क्षेत्र के लोग नाराज हैं। फोन न उठाने और सुख दुख में शामिल न होने के कारण सवर्ण लोग उनसे असंतुष्ट हैं। वहीं बसपा प्रत्याशी निर्दोष दीक्षित के खिलाफ भी बड़ी संख्या में लोग भितरघात कर रहे हैं, जिससे उनके माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा रही है।

कांग्रेस नेता गहलोत का दावा

चुनावी बाण्ड योजना योजना दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला

राजगढ़। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चुनावी बाण्ड योजना दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। वह राजगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का मुकबला दो बार के मौजूद भाजपा सांसद रोडमल नागर से है।



बड़ा घोटाला है। उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बाण्ड योजना को असंवैधानिक और सूरना के

प्रभाकर, जो एक अशंशास्त्री हैं, का दावा है कि चुनावी बाण्ड योजना न केवल भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बाण्ड योजना को असंवैधानिक और सूरना के

छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर भाजपा जीत कर इतिहास बनाएगी : साय

रायपुर, वार्ता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को दावा किया कि राज्य की सभी 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर इतिहास बनाएगी। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश भर से जिस तरह के फीडबैक आ रहे हैं, लगातार होती रही चुनावी सभाओं में जैसी भीड़ उमड़

रही थी, जिस तरह माताओं-बहनों का र्नेह दिख रहा था, उससे वह इस बात के प्रति आश्चर्य हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जनता से सीधे जुड़ना का यह पहला अवसर था। इस दौरान 20 मार्च से चार मई तक श्री साय ने छत्तीसगढ़ में 66 बड़ी जनसभाएं की। श्री साय ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह

जी समेत सभी लोकप्रिय राष्ट्रीय नेताओं की भी लगातार सभाएं हुईं, जिससे भाजपा के पक्ष में और अधिक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा इस चुनाव में मोदीजी की सरकार की दस वें की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार की मोदी गारंटियों को पूरा करने का संदेश जनता तक ले जा पाने में सफल हुई है, यही कारण है कि वह परिणाम के प्रति पूरी तरह

आश्चर्य हैं। श्री साय ने कहा कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और भारत को विकसित देशों की कतार में खड़ा कर देने के लिए हमारे पास जहां एक बड़ा विजन है। जहां हम अपनी योजनाओं, रोडमैप और उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच थे, वहीं देश भर में कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने नकारात्मकता और दुष्प्रचार, बदजुबानी की सारी सीमाएं लांच दी।



संभल में अभी तक बस तीन सांसद छू सके 50 फीसदी मतों का आंकड़ा

बदायूं में बीते 40 सालों में किसी विजेता को नहीं मिले 50 फीसदी वोट

स्वतंत्र चेतना लखनऊ। 18वीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में ब्रज और रुहेलखंड की 10 सीटों पर सात मई को मतदान होगा। इसमें एक सीट सूफ्री-संतो औलियाओं और पीरों की भूमि वाली बदायूं की है। पिछले चार दशकों में इस सीट पर हुए 12 चुनाव में कोई भी विजेता कुल मतदान में 50 फीसदी के जादुई नंबर को छू नहीं पाया। उल्लेखनीय है कि बदायूं से दिल्ली का सफर तय करने वाले दो सांसद ही अब तक चुनावी पिच पर हा50ल्ल बन सके हैं।




बदायूं संसदीय सीट पर 1977 में हुए आम चुनाव में भारतीय लोकदल प्रत्याशी ओंकार सिंह ने 50 फीसदी से ऊपर वोट हासिल किए थे। इस चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में थे। कुल 340,263 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग

को 54.21 फीसदी वोट मिले थे। छत्ती लोकसभा के लिए 1977 में हुए चुनाव में ओंकार सिंह के बाद बदायूं से किसी भी विजेता ने 50 फीसदी का आंकड़ा नहीं छुआ। 1980 के आम चुनाव में ये सीट कांग्रेस (आई) के मोहम्मद असरार अहमद ने 38.28 फीसदी मत हासिल कर जीती थी। सन्-1984 के चुनाव में कांग्रेस के इकबाल शेरवानी 44.59 फीसदी वोट के साथ विजेता बने। 1989 के आम चुनाव में यहां से जनता दल के प्रत्याशी शरद यादव ने जीत हासिल की। शरद यादव को 47.00 फीसदी वोट मिले। 1991 में हली बार शिंला कमल 10वीं लोकसभा के लिए 1991 के आम चुनाव में इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार स्वामी चिन्मयानंद ने पहली बार कमल खिलाया। स्वामी चिन्मयानंद

को 36.08 फीसदी वोट मिले। जनता दल के शरद यादव 32.61 फीसदी वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। बदायूं सीट पर पहली बार सपा की साइकिल को सलीम शेरवानी ने 1996 के आम चुनाव में दौड़ाया। इस चुनाव में सपा उम्मीदवार को 37.51 फीसदी वोट मिले। बसपा प्रत्याशी बृज लाल 28.95 फीसदी वोट पाकर रनर रहे। सलीम शेरवानी ने 1998, 99 और 2004 के चुनाव में इस सीट पर सपा का कब्जा बरकरार रखा। 1998 में सलीम शेरवानी को 41.83, 1999 में 39.15 और 2004 के चुनाव में 45.03 फीसदी वोट हासिल हुए। सलीम शेरवानी चार बार लगातार जीत के बावजूद 50 फीसदी वोट का जादुई आंकड़ा छूने में नाकाम रहे। 2009 के आम चुनाव में सपा ने इस सीट से धर्मन यादव को उतारा। धर्मन

सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के भतीजे हैं। धर्मन यादव ने 31.70 फीसदी वोट हासिल कर सपा की जीत का सिलसिला कायम रखा। दूसरे स्थान पर रहे बसपा के डीपी यादव के खाते में 27.29 फीसदी वोट आए। 2014 के आम चुनाव में सपा के धर्मन यादव ने 48.50 फीसदी मत पाकर कुर्सी कब्जा जमाया था। भाजपा के उम्मीदवार वामीश पाटक 32.31 फीसदी मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। पिछले आम चुनाव में भाजपा उम्मीदवार डॉ. संधिप्राया गौतम ने यहां जीत का परचम फहराया। भाजपा प्रत्याशी को 47.28 फीसदी वोट प्राप्त हुए। सपा के धर्मन यादव 45.58 फीसदी वोट हासिल कर दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के सलीम शेरवानी 4.8 फीसदी वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे।



शान्ति देवी को मिले थे 64.29 फीसदी वोट संभल संसदीय सीट पर 1977 में हुए पहले आम चुनाव में भारतीय लोकदल प्रत्याशी शांति देवी ने पहली बार 50 फीसदी से ऊपर वोट हासिल किए थे। इस चुनाव में 7 उम्मीदवार मैदान में थे। कुल 333,665 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। शांति देवी ने 64.29 फीसदी मत पाकर कुर्सी पर कब्जा जमाया था। कांग्रेस के उम्मीदवार जगल किशोर 24.47 फीसदी मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। मुलायम सिंह ने हासिल किए थे 50.04 फीसदी मत



समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुलायम सिंह यादव ने 1998 के चुनाव में यह करिश्मा किया था। इस चुनाव में 753,104 मतदाताओं ने वोट डाले थे। इस चुनाव में 16 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई थी। इसमें मुलायम सिंह को 50.04 फीसदी मत मिले थे। इन्होंने तत्कालीन सांसद धर्मापल यादव उर्फ डी.पी. यादव को हराया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के डी.पी. यादव को 27.90 फीसदी मतों से ही संतोष करना पड़ा था। यह रनर रहे थे। मुलायम सिंह इस सीट से 1999 में भी जीते, तब उन्हें 41.85 फीसदी वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी के डॉ. शफीकुर्हमान बर्क ने संभल संसदीय सीट के इतिहास में आखिरी बार यह करिश्मा किया। वर्ष 2019 के चुनाव में 12 प्रत्याशी मैदान में थे। इस चुनाव में कुल 11 लाख 83 हजार 469 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। सपा के डॉ. शफीकुर्हमान बर्क ने 55.58 प्रतिशत मत हासिल किए थे।

सगरा में जल निकासी के लिये नाली की खुदाई फिर शुरू

डीएम के निर्देश पर एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस बल व नपाकर्मों पहुंचे सगरा

प्रतापगढ़। नगर पालिका के विस्तारित क्षेत्र सगरा में जल निकासी की समस्या को लेकर क्षेत्रीय लोगों द्वारा चुनाव बहिष्कार के बाद जिलाधिकारी संजीव रंजन ने आज एसडीएम, तहसीलदार के साथ पुलिस बल भेजकर नाली निर्माण का कार्य नगर पालिका द्वारा शुरू कराया।

बता दें कि दो माह पहले नाली निर्माण नगर पालिका ने शुरू किया तो आधी नाली निर्माण खुद जाने के बाद कुछ लोगों के विरोध से निर्माण कार्य रुक गया था। अब लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद जल समस्या से परेशान सगरा के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दी। उसके बाद जिलाधिकारी संजीव रंजन ने एसडीएम सदर को निर्देश दिया कि इसे तुरंत कोर्स के साथ नगर पालिका से नाली खुदाई शुरू कराई जाए। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर, तहसीलदार, नगर



नाली खुदाई के दौरान मौजूद एसडीएम, तहसीलदार व नपा अधिकारी

पालिका के अधिशाषी अधिकारी, सफाई निरीक्षक व आरआई मोंके पर

पहुंचे और जेसीबी से नाले की खुदाई शुरू कर दी। पुलिस बल को देखते हुए आज

नाली निर्माण का कोई विरोध करने नहीं आया। सगरा में नाले की खुदाई से सगरा

क्षेत्र की जल निकासी की प्रमुख समस्या का निदान होगा।

पानी को तरस रही जनता यह कैसा विकास: प्रथमेश

प्रतापगढ़। लोकसभा सीट प्रतापगढ़ के बसपा उम्मीदवार प्रथमेश मिश्र सेनानी ने रविवार को रानीगंज क्षेत्र में सधन जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि लोगों को बिजली, पानी व सड़क की समस्या झेलनी पड़ रही है। इससे स्पष्ट है कि जनता को अब तक विकास के केवल सबबाग दिखाए गए। उसको छला गया। टंकी बनी, पर पानी नहीं मिल रहा, सड़कें सफरी हैं, अस्पतालों में डाक्टर बाहर की दवा लिख रहे हैं। लोग भटक रहे हैं। किसान खाद-पानी नहीं पा रहे हैं।

युवा रोजगार न पाने से निराशा हैं। दिलीपुर, बसीरपुर समेत दर्जनों जगह लोगों से मिलते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रथमेश ने बसपा जिलाध्यक्ष सुशील कुमार गौतम, अश्वनी राणा समेत लोगों के साथ जनसंपर्क में कहा कि वह नेता नहीं, भाई व बेटे हैं। एक बार युवा हाथों को



लोगों को मुलाकात करते बसपा प्रत्याशी प्रथमेश

सेवा का मौका दें। जिले में विकास धरातल पर दिखाई देगा। बसपा ही कानून का राज दे सकती है। उधर

बसपा उम्मीदवार की पत्नी प्रीती मिश्रा रविवार को भी रामपुर खास क्षेत्र में डटी रही। अपने पति के लिए वोट मागे।

साड़ी के फंदे पर लटकता मिला विवाहिता का शव

पट्टी, प्रतापगढ़। साड़ी के फंदे पर मिला विवाहिता का शव पट्टी कोतवाली के अमुआही चौकी से कुछ दूर कुशहा गांव में दो बच्चे की मां ने लगाया मौत को गले सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। पट्टी कोतवाली के कुसहा गांव में फूल कलती उम्र 30 वर्ष की सादी पट्टी कोतवाली के गांव के फतेहपुर वार्मा से आठ वर्ष पहले आसलपुर गांव के राम प्यार वार्मा की बेटी फूल कलती के साथ हुई थी दोनों के पास दो बेटे हैं बड़ी बेटी पारुल वार्मा उम्र (6) वर्ष तो छोटी बेटी अनामिका वार्मा उम्र (01) वर्ष की शनिवार की रात में भोजन कर आपने छोटी बेटी के साथ फूल कलती सोने चली गईं सुबह 6 बजे पति उठा तो छोटी बेटी की रोंने की आवाज करने से आ रही थी तो पिता की चारपाई पर लेटी बड़ी बेटी पारुल से कहा की जाओ अपनी अम्मी को

जगा दो अनामिका रो रही हैं। बड़ी बेटी मां के कमरे गई देखा तो फूल कलती कमरे में नहीं थी उसे खोजने के लिए छत पर गई देखा तो फूल कलती का शव छत के ऊपर बने टॉन सेड के घर में लगे लोहे की पाइप के सहारे साड़ी के फंदे पर फूल कलती का शव लटक रहा था पारुल के अचानक चीखने लगी चीख पुकार सुन कर भाग कर परिजन बेटी के पास पहुंचे तो नजारा देख सब कोई दहंग रह गए घटना की सूचना अमुआही पुलिस चौकी को दी मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज विजय कुमार ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चौकी इंचार्ज अमुआही विजय कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है हर पहलुओं पर जांच की जा रही है।

लोकसभा चुनाव में बह रही परिवर्तन की बयार: राष्ट्रीय महासचिव

प्रतापगढ़। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के राष्ट्रीय महासचिव/

इण्डिया गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में हुई बैठक

प्रभारी उ.प्र. अविनाश पाण्डे एम राष्ट्रीय सचिव, पूर्व कैबिनेट मंत्री, छत्तीसगढ़ राजेश तिवारी इण्डिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी डॉ.एस.पी सिंह पटेल के समर्थन में स्थानीय शैल श्याम पैलेस में संगठन की एक बैठक में शामिल हुए।

महाराष्ट्र अविनाश पांडेय ने संगठनात्मक बैठक के साथ साथ कांग्रेस पार्टी एम समाजवादी पार्टी के बीच समन्वय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तेजश्री यादव आदि ने राष्ट्रीय स्तर पर जो समन्वय बनाया है, वही समन्वय हमें जनपद से लेकर बृथ स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में परिवर्तन की बयार



राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पाण्डेय का स्वागत करते कांग्रेसी

बह रही है। बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकसभा कोऑर्डिनेटर संजय तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष मकसूद खान, महासचिव मुकुंद तिवारी, विवेकानंद पाठक एम प्रदेश सचिव राकेश मौर्या, पूर्व विधायक नागेन्द्र सिंह यादव मुन्ना, जी भी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष डॉ0नीरज

तिवारी ने सभी अतिथियों का स्वागत व अभिनंदन किया तथा नेतृत्व के निर्देशों का पालन करते हुए गठबंधन व समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डॉ0 एस0 पी0सिंह पटेल को भारी मलों से विजयी बनाने का संकल्प दोहराया। संचालन जिला सचिव सुरेश मिश्रा ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में डॉडिया

गठबंधन व समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डॉ0 एस0 पी0सिंह पटेल ने कहा कि मोदी सरकार में सभी वर्ग परेशान हैं। बैठक में नगर अध्यक्ष इरफान अली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा0वी0के0सिंह, कोषाध्यक्ष वेदान्त तिवारी, पीसीसी सदस्य डॉ0 प्रशांत देव शुक्ल, मा0प्रमोद तिवारी के मीडिया प्रभारी ज्ञान प्रकाश शुक्ल आदि मौजूद रहे।

नीट की परीक्षा में शामिल हुए 495, नौ परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित

प्रतापगढ़। देशभर के मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेद, वैदिक तथा च्यनित नर्सिंग कॉलेजों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पाठ्य सहाय परीक्षा (नीट यूजी 2024) रविवार को नेशनल टैसिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की गई। एमबीबीएस,

न्यू एजिल्स सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल में हुई परीक्षा

बीएचएस, बीएमएस, बैचलर इन डेंटल सर्जरी और बीएससी नर्सिंग समेत विभिन्न स्नातक स्तरीय मेडिकल कोर्सों में दाखिले के लिए आज देशभर से करीब 24 लाख छात्रों ने इस प्रवेश परीक्षा में भाग लिया।

उपरोक्त के क्रम में न्यू एजिल्स सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, कटरा रोड प्रतापगढ़ में भी नीट यूजी परीक्षा दोपहर दो बजे से शुरू हुई। प्रधानाचार्य डा0 वीके सोनी ने बताया कि 504 परीक्षार्थियों में से 495 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए और 9 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। एनएटी द्वारा नीट-यूजी के प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जैमर लगाए गए



न्यू एजिल्स स्कूल से परीक्षा देकर बाहर निकलते परीक्षार्थी

थे तथा परीक्षा केंद्र पर फ्लाईंग स्क्वाड की टीमों द्वारा मोनिटरिंग भी किया गया। परीक्षार्थियों के आधार कार्ड की जांच बायोमेट्रिक पर हुई। स्कूल की चेयरपर्सन डा0 शाहिदा ने बताया कि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, जैवली व अन्य कौमती सामान

व परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित चीजें नहीं लेकर जाने की हिदायत थी अथवा परीक्षा से वंचित किया जा सकता था। नीट यू जी 2024 परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के एडमिट कार्ड परीक्षा से तीन दिन पहले जारी किए गए थे। परीक्षा 5.20 पर समाप्त हुई। परीक्षा सफल सम्पन्न हुई।

भाईचारा स्थापित करने का काम करते हैं शिक्षा के मंदिर: डा. आरके वर्मा

कटरा युवाव सिंह, प्रतापगढ़। समाज में असली भाईचारा स्थापित करने एवं गरीबी अमीरी की दीवार को मिटाने का

बीआरडी पब्लिक स्कूल व गर्ल्स इंटर कालेज का हुआ वार्षिकोत्सव

काम शिक्षा के मंदिर करते हैं और यहीं देश के कर्णधारों का निर्माण भी होता है। आज देश को अच्छे नागरिक की आवश्यकता है यह काम भी शिक्षा के मंदिर शिक्षा और संस्कार देकर कर सकते हैं। यह दायित्व समाज के साथ-साथ शिक्षकों का भी है।

यह बातें रानीगंज विधायक डॉ0 आरके वर्मा ने क्षेत्र के बी आर डी पब्लिक स्कूल एवं गर्ल्स इंटर कालेज गंभीरा के वार्षिक समारोह में उपस्थित छात्रों एवं अभिभावकों के बीच अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब प्रतिभावान बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम लोगों को आगे आना चाहिए तथा गरीब परिवार की बेटियों की शादियों में भी सहयोग करना चाहिए। यही असली समाज सेवा है। समारोह में विद्यालय के बच्चों ने गीत एवं प्रहसन के माध्यम से परिवार के बुजुर्गों

का सम्मान करने का संदेश दिया। नन्हे मुन्हे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए खूब धमाल मचाया। हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के विश्वनाथगंज विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट सत्यनारायण यादव, विद्यालय के प्रबंधक विनोद कुमार पटेल, प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार शुक्ला के साथ अंशु पटेल, पूर्व प्रधान दूधनाथ पटेल, पूर्व प्रधान हरिशंकर पटेल, फकरा अभय



प्रताप सिंह, मंत्री यादव सहित शिक्षक और क्षेत्र के दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद रहे।

बूथ अध्यक्ष हमारी पार्टी का रीढ़ होता है: गोविन्द नारायण



बूथ सम्मेलन में बोलते प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण

प्रतापगढ़। विधानसभा विश्वनाथगंज में भारतीय जनता पार्टी विश्वनाथगंज के कार्यकर्ताओं के बूथ सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश महामंत्री/सदस्य विधानपरिषद गोविंद नारायण शुक्ला। मुख्य अतिथि सदस्य विधानपरिषद गोविंद नारायण शुक्ला ने कहा कि मोदी की गारंटी पर तीसरी बार केंद्र में भाजपा सरकार बनेगी। पार्टी की जीत में सभी बूथ अध्यक्ष व बूथ

स्तर के कार्यकर्ता नीव के पत्थर हैं। श्री शुक्ला ने प्रत्येक बूथ पर कम से कम 65 प्रतिशत मतदान कराने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव ने प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला का जिले में आगमन पर स्वागत करते हुए कहा कि हमारे सभी बूथ अध्यक्ष अपनी पूरी समितियों के साथ चुनाव के लिए कर्म करस कर पूरी तरह से तैयार हैं

और अपने कार्य में लगे हुए हैं। इस अवसर पर सांसद संम लाल गुप्ता, लोकसभाप्रार्सी डॉ0 सीता शरण त्रिपाठी, राय साहब सिंह, जिला महामंत्री राजेश सिंह, जिला मंत्री रामजी मिश्र, जिला प्रवक्ता राधेन्द्र शुक्ल, ब्लॉक प्रमुख राकेश सिंह, विधानसभाप्रार्सी चंद्र दत्त शुक्ला, विधानसभा संयोजक सुर्य प्रकाश पटेल, जिला सह-मीडियाप्रभारी देवेश त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।

संदिग्ध परिस्थितियों में लगी हरिजन बस्ती में आग, कई घर जलकर राख

पट्टी, प्रतापगढ़। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से हरिजन बस्ती के कई रहिवासी छपर जलकर राख हो गए। सूचना पर पहुंचे फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। पट्टी तहसील क्षेत्र के अंतरीय गांव निवासी कालू राम के रहिवासी छपर में रविवार की दोपहर करीब दो बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जिसमें लाखों की गृहस्थी जलकर राख हो गई। आग फैल कर मातादीन, राकेश के छपर को भी अपनी आगोश में ले लिया। समीप में ही स्थित सुरेश वर्मा के पीपिंग सेट में भी उड़ी सिंगारी से आग लग गई। उनका भी मोटर आदि जलकर राख हो गया। ग्रामीण आग बुझाने का प्रयास किया। आग काबू में ना होता देख ग्रामीणों ने फायर कर्मियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन तब तक कालू राम माता दीन राकेश का सब कुछ जलकर राख हो चुका था। इस विलंबिता की धुं में परिवार के लोगों खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हो गए हैं।

संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, कोहराम

लालमंज, प्रतापगढ़। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गयी। लीलापुर थाने के तिना वितरी निवासी सदाशिव वैरसिया की पत्नी ज्योती वैरसिया 23 नवंबर की देश श्रम कोर्स जहरीला पदार्थ मिला लिया। विवाहिता की तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे अनेकफानन में लेकर इलाज के लिए लालमंज द्रामा सेण्टर पहुंचे। यहां चिकित्सकों से ज्योती को मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर लीलापुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजवाया। मृतका की मां सुनीता की ओर से पुलिस को पीएम कराने के लिए तहरीर सौंपी गयी। मृतका के पति सदाशिव के मुताबिक उसकी पत्नी की मानसिक स्थिति इधर खराब थी। सदाशिव ने बताया कि दिल्ली में ज्योती का इलाज भी चल रहा था। प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र सिंह का कहना है कि मृतका का शव पीएम के लिए भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। प्रभारी निरीक्षक ने यह भी कहा है कि अभी परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दिया है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके प्रभानमंत्रों को सिर्फ पूंजीपतियों की कर्मगाफी और उन्हें मुनाफा पहुंचाने की ही फिक्र बनी रही। रविवार को रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में इण्डिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी डॉ. एसपी सिंह पटेल के समर्थन में चुनावी जनसभाओं में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार की विफलताओं को जनाते

जिले में भी मौजूद नितवर्तमान भाजपा सांसद के द्वारा अपने स्तर पर एक भी विकास परियोजना प्रस्तापगढ़ को न सौंप पाने की विफलता पर भी निशाना साधा। भदारी कला, पुरे-नेली, तथा समापुर में रविवार को कांग्रेस द्वारा आयोजित जनसभाओं में उमड़े जनसमूह के बीच विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों का कर्जा नहीं माफ कर सकी। इस मौके

मोदी सरकार को पूंजीपतियों के मुनाफे की फिक्र: प्रमोद तिवारी

प्रमोद तिवारी ने सपा प्रत्याशी डॉ. एसपी सिंह पटेल के समर्थन में की जनसभा

लालमंज, प्रतापगढ़। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता एवं कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रमोद तिवारी ने कहा है कि मोदी सरकार ने अपने पुरे कार्यक्रमों में किसानों और नौजवानों तथा मध्यम वर्ग की तकलीफों की रती भर चिन्ता नहीं की।

उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके प्रभानमंत्रों को सिर्फ पूंजीपतियों की कर्मगाफी और उन्हें मुनाफा पहुंचाने की ही फिक्र बनी रही। रविवार को रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में इण्डिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी डॉ. एसपी सिंह पटेल के समर्थन में चुनावी जनसभाओं में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार की विफलताओं को जनाते



भदारी कला में जनसभा को संबोधित करते राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी

पुरे-नेली, तथा समापुर में रविवार को कांग्रेस द्वारा आयोजित जनसभाओं में उमड़े जनसमूह के बीच विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों का कर्जा नहीं माफ कर सकी। इस मौके

पर केडी मिश्र, अमित सिंह पंजक, संतोष द्विवेदी, भवती प्रसाद तिवारी, ज्ञानप्रकाश शुक्ल, जीतलाल पटेल, श्याम लाल वर्मा, रामू मिश्र, पप्पू वर्मा, सुरेन्द्र मिश्र, कमलेश, राजकुमार, दिनेश सिंह आदि मौजूद रहे।

डम्फर ट्रक की चपेट में आने से अर्धेड की मौत

परियावां, प्रतापगढ़। नवाबगंज थाना क्षेत्र के छाछामऊ गांव निवासी मो0 ताहिर सुत उमराव अली रविवार की दोपहर अपने दांत का इलाज कराकर बाइक से मानिकपुर से वापस घर आ रहे थे कि मानिकपुर रेलवे फाटक से कुछ दूर पर डम्फर ट्रक ने टक्कर मार दिया, जिससे सड़क किनारे गिर गये स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी मानिकपुर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से पहचान कराया पहचान होने पर घटना की जानकारी परिजनों को दी मौके पर परिजनों के पहुंचने पर पुलिस ने डम्फर के लिए सीएचसी कालाकांकर उपकुलेंस से भेजा जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव का पंचनामा करके परिजनों की मांग पर सुपुर्द कर दिया परिजन लोग शव को घर ले गये जहां शव पर पहुंचते ही चीख पुकार मच गई।

राजा भइया के समर्थन से कौशाम्बी में विनोद सोनकर की राह हुई आसान

प्रतापगढ़। जनसत्ता दल के अध्यक्ष व कुण्डा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया ने बैंगलोर में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से

केन्द्रीय गृह मंत्री अभित शाह से मुलाकात के बाद राजा भइया का निर्णय

मुलाकात के बाद लगभग यह तय माना जा रहा है कि कौशाम्बी संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर को राजा भइया का समर्थन मिलेगा। इससे विनोद सोनकर को कौशाम्बी क्षेत्र को पतह करने की राह आसान हो गई है। बता दें कि कुण्डा व बाबागंज दो विधान सभा क्षेत्र कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र में आते हैं जहां राजा भइया का क्षेत्र है। राजा भइया भाजपा के टिकट बंटवारे के बाद से चुने थे लेकिन उनकी विचारधारा भाजपा के साथ जग जाहिर

है। बता दें कि विनोद सोनकर के पिछले दो चुनाव में राजा भइया ने अपना प्रत्याशी उतारकर विनोद सोनकर का विरोध किया था, फिर भी विनोद सोनकर दो बार इस सीट से जीते थे। इस बार कौशाम्बी सीट राजा भइया स्वयं चाह रहे थे लेकिन भाजपा द्वारा विनोद सोनकर को तीसरी बार टिकट दिये जाने से राजा भइया असहज महसूस कर रहे थे। इसके अलावा विनोद सोनकर से राजा भइया के अच्छे तालुका भी नहीं बन पाए थे। राजा भइया ने काफी विचार विमर्श के बाद फिर से भाजपा को समर्थन देने का फैसला किया है। इसका सबसे ज्यादा लाभ कुण्डा व बिहार में भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर को होगा। बता दें कि कौशाम्बी सीट पर अब विनोद सोनकर की लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे पर दाव लगाया है। राजा भइया का समर्थन मिलने से कुण्डा व बिहार के भाजपाई खुश दिखाई दिये।



कई सारी शारीरिक समस्याओं की वजह बन सकता है हल्दी वाले दूध का अधिक सेवन

अगर सेहत बनाने के लिए आप भी हल्दी वाले दूध का सेवन कर रहे हैं तो आपको इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी जान लेना चाहिए। दरअसल, हल्दी वाले दूध का अधिक सेवन कई सारी शारीरिक

हमारी रसोई में उपाख्य हल्दी तो औषधि है, जो देसी नुस्खों और उपायों में रामबाण के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटीइंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर हल्दी का सेवन बेहद लाभकारी माना गया है लेकिन कहते हैं न कि एक निश्चित मात्रा से अधिक औषधि का सेवन भी जहर के समान है, हल्दी दूध के अधिक सेवन में भी यही बात लागू होती है।

समस्याओं की वजह बन सकता है, तो वहीं कुछ विशेष परिस्थिति में तो ये घातक भी हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर हल्दी वाले दूध के अधिक सेवन से किस तरह की शारीरिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं।


शरीर में आयरन की कमी
आप पौष्टिकता के लिए हल्दी वाले दूध का सेवन करते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए इसकी अधिकता के कारण शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। दरअसल, हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन नामक कंपाउंड, शरीर में आयरन के अवशोषण में बाधा बनता है। इसलिए जो लोग आयरन की कमी से जूझ रहे हैं, लोगों को खासतौर पर सीमित मात्रा में हल्दी वाले दूध का सेवन करना चाहिए।

लिवर की समस्या
हल्दी वाले दूध के सेवन का कारण लिवर की समस्या भी हो सकती है। असल में हल्दी में मौजूद करक्यूमिन लिवर में सूजन पैदा करता है, जिसके कारण लिवर की समस्या हो सकती है।

पेट की समस्याएं
हल्दी वाले दूध का अधिक सेवन शरीर के पीएच को प्रभावित करता है, जिसके कारण पेट में गैस और अपच की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए अगर आप पेट की समस्या से पीड़ित हैं तो आपको हल्दी वाले दूध का सेवन से बचना चाहिए।

गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक
हल्दी वाले दूध का सेवन गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक माना जाता है। एक्सपर्ट की माने तो हल्दी के अधिक सेवन से गर्भाशय में ऐंठन, दर्द हो सकता है। वहीं कई बार इसके चलते ब्लॉडिंग की भी समस्या हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं को हल्दी वाले दूध के सेवन से बचने की सलाह देते हैं।

शरीर में एलर्जी की प्रतिक्रिया
वहीं हल्दी दूध के अधिक सेवन से आपको एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं, दरअसल हल्दी में पाए जाने वाले कंपाउंड्स के चलते कुछ लोगों को स्किन पर रेशेज और सांस लेने में दिक्कत भी होती है। इसलिए अगर आपकी बाँड़ी एलर्जिक है तो आपको हल्दी वाले दूध के सेवन से परहेज करना चाहिए।



मेनिनजाइटिस इंफ्लामेशन काफी खतरनाक साबित हो सकती है। यह इंफेक्शन के कारण होता है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो शरीर की कुछ क्षमताएं खत्म हो सकती हैं। इसलिए इसके लक्षणों को कभी नजरअंदाज ना करें।

3 चीजों से बनता है मेनिनजाइटिस तुरंत चाहिए इलाज

दिमाग को बाँड़ी का प्रमुख कहा जाता है। यह शरीर के बाहरी और अंदरूनी सारे काम कंट्रोल करता है। अगर इसमें कोई भी खराबी आ जाए तो शरीर में भी खराबी आने लगती है। मेनिनजाइटिस भी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी समस्या है। इसके अंदर दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास के मेंब्रेन में इंफ्लामेशन आ जाती है। इसमें मरीज को तुरंत इलाज की जरूरत पड़ती है वरना शरीर कई काम करने बंद कर सकता है। यह बीमारी काफी खतरनाक है, इस कारण वर्ल्ड मेनिनजाइटिस डे की तारीख 24 अप्रैल से 5 अक्टूबर बदल दी गई। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें।

मेनिनजाइटिस होने के पीछे इंफेक्शन होते हैं। यह वायरल, बैक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन की वजह से हो सकता है। वायरल इंफेक्शन सबसे ज्यादा मेनिनजाइटिस के लिए जिम्मेदार देखा गया है। हालांकि दूसरे इंफेक्शन ज्यादा खतरनाक रूप ले सकते हैं।

मेनिनजाइटिस के लक्षण
इसके लक्षण कारण पर निर्भर करते हैं। हालांकि, कुछ आम संकेत निम्नलिखित हैं, जो किसी और बीमारी के कारण भी हो सकते हैं।
 • भूख मरना • चिड़चिड़ापन • उल्टी • डायरिया • सांस की दिक्कत • सिरदर्द • बुखार • गर्दन में अकड़न • लाइट से संसितिविटी • ज्यादा नींद आना

बच्चों में मेनिनजाइटिस
यह इंफ्लामेशन छोटे बच्चों को भी हो सकती है। उनके अंदर निम्नलिखित लक्षण दिख सकते हैं।
 • बुखार • शरीर में अकड़न • तेज रोना • बच्चा शांत ना होना • ज्यादा सोना • चल ना पाना • चिड़चिड़ापन

शरीर ये काम कर देता है बंद
मेनिनजाइटिस के कारण शरीर को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो सुनने की क्षमता, याददाश्त, देखने की क्षमता कम हो जाती है। इसकी वजह से दौरा पड़ना, माइग्रेन, ब्रेन डेमेज, सबड्यूरल एम्प्यामा, हाइड्रोसेफलस भी हो सकता है।

फैल भी सकता है मेनिनजाइटिस

मेनिनजाइटिस संक्रामक भी हो सकता है। इसके कुछ प्रकार एक मरीज से दूसरे मरीज तक फैल सकते हैं। मरीज के खांसने, छींकने या चुंबन लेने से यह स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित बना सकता है। इंफेक्शन फैलाने वाले मरीजों में यह वायरस या बैक्टीरिया अक्सर गले या नाक में मौजूद रहता है।

दही पाचनतंत्र को ऊर्जा देने का काम करती है। साथ ही हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। लेकिन यदि दही का सेवन रात में किया जा तो पाचनतंत्र भी डिस्टर्ब होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है।
 अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर रात में दही खाने पर ऐसा क्या हो जाता है? तो जान लीजिए कि रात को दही खाने पर पाचनतंत्र मंद हो जाता है। आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो जटग्रामिण मंद हो जाती है और शरीर की वायु कुपित हो जाती है। इस कारण रात में दही का सेवन करने पर हाथ, पैर, सिर, कमर या शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द की समस्या हो सकती है।
 इसके साथ ही दही खाने पर रोग प्रतिरोधक क्षमता पर इस लिए बुरा असर पड़ता है, क्योंकि दही तासीर में ठंडी होती है। यदि रात में दही खाई जाती है तो शरीर में कफ की मात्रा में वृद्धि हो सकती है। इससे गले में दर्द, खराश, बलगम वाली खांसी, सिर में भारीपन, जुकाम आदि की समस्या हो सकती है।
 जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है, उन्हें रात के समय भूल से भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं रात के समय अस्थमा अटैक के कारण सांस लेना मुश्किल हो सकता है। हालांकि सभी लोगों को इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए खट्टी दही और मीठी दही दोनों के शरीर पर अलग-अलग प्रभाव होते हैं। लेकिन रात के समय आपको किसी भी प्रकार की दही लेने से बचना चाहिए।



रात के खाने में ना खाएं दही

हम सभी जानते हैं कि दही खाना सेहत के लिए बहुत अधिक लाभकारी होता है। दही एक सुपर फूड है, जिसे हर दिन खाना जा सकता है और यह सेहत को सिर्फ एक नहीं अनेक तरीकों से लाभ पहुंचाती है। पाचन से लेकर त्वचा और बाल सबको हेल्दी रखती है। इस विषय पर नए सिरे से बात करने की जरूरत नहीं है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि आखिर रात के खाने में दही खाने को क्यों मना किया जाता है।

आपने अपने पैरेंट्स से अक्सर सुना होगा कि रात के समय दही या दही से बना रायता नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज कल शादी-पार्टीज में यह ट्रेंड है कि आप रात के 12 बजे भी डिनर ले रहे होंगे तो आपको रायता जरूर मिलेगा खाने में। खैर, सर्व करनेवाले तो सर्व करते हैं। यह तो आपको निर्णय लेना है कि रात में रायता या दही खाकर आप बीमार पड़ना चाहते हैं या नहीं।



न जिम-न डाइटिंग, हल्दी से अंदर धंसेगी लटकती तौंद

अगर आप सोच रहे हैं कि हल्दी का उपयोग सिर्फ खाने का स्वाद और रंग बढ़ाने तक सीमित है, तो आप गलत हैं। यह एक ऐसा मसाला है, जो पेट की जिद्दी चर्बी को खत्म करने की ताकत रखता है, बस आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए।

को काटने का काम करता है। खाने को स्वाद और रंग देने वाले इस मसाले को आप वजन कम करने वाले हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आप वजन घटाने के लिए हल्दी का उपयोग कैसे कर सकते हैं।

पेट की चर्बी का नामोनिशान मिटा सकती है हल्दी
एक अध्ययन के अनुसार, हल्दी वजन घटाने के लिए फायदेमंद है। पशु अध्ययनों से पता चला है कि हल्दी में एक शक्तिशाली यौगिक करक्यूमिन होता है, जो फैट बर्न करने का काम करता है। वजन कम करने में असमर्थ 44 लोगों पर किए गए एक अध्ययन से पता चला कि दिन में दो बार 800 मिलीग्राम करक्यूमिन लेने से उनका वीएमआई (बाँड़ी मास इंडेक्स) कम हो गया। इसका अलावा कमर और कूल्हे की चर्बी भी कम हुई।

वजन कम करने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन सदियों के दिनों में वजन कम करना बहुत मुश्किल होता है। लगातार बैठे रहने से पेट की चर्बी तो निकल जाती ही है लेकिन पेट के साथ-साथ जांघें और कमर भी मोटी दिखने लगती है। बहुत से लोग कमर और पेट के आकार को कम करने के लिए जिम जाकर घंटों एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। वजन कम करने के लिए क्या करें? पेट और कमर की चर्बी कम करने और सुडौल शरीर पाने के लिए आप किचन में रखे मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें मसालों की तो इनमें हल्दी एक ऐसा जादुई मसाला है, जो पेट की चर्बी

हल्दी के गुण
कच्ची हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी-ऑक्सीडेंट, एंटी-फंगल गुण होते हैं। इसमें विटामिन सी, पोटैशियम, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, थायमिन, राइबोफ्लेविन होता है। ये पोषक तत्व शरीर को शारीरिक समस्याओं से बचाते हैं।

वजन घटाने के लिए हल्दी वाला पानी कैसे तैयार करें?

• मोटापा कम करने के लिए आप कच्ची हल्दी को गर्म पानी में उबालकर पी सकते हैं। इस मिश्रण का खाली पेट सेवन करने से आपको तेजी से वजन घटाने में मदद मिल सकती है।
 • इसके लिए 2 गिलास पानी में कच्ची हल्दी के टुकड़े डालकर उबाल लें
 • जब एक गिलास पानी बचे तो आंच बंद कर दें और पानी को छानकर एक गिलास में निकाल लें
 • सुबह खाली पेट सबसे पहले इसका सेवन करें।
 • अगर आप हल्दी वाला पानी नहीं पीना चाहते तो आप हल्दी वाले दूध का सेवन कर सकते हैं



हाइड्रेट और रीहाइड्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी

पानी सबसे जरूरी पोषक तत्व है और पानी पीने के ढेरों फायदे हैं। वास्तव में पानी को जीवन के लिए अमृत कहा गया है। ऐसे में जरूरी है कि आप पानी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानें क्योंकि पानी मनुष्य के शरीर का 70 फीसदी हिस्सा बनाता है और शरीर की हर कोशिका को हाइड्रेट, डीहाइड्रेट करता है, शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखकर जीवनशैली को स्वस्थ बनाता है।

प्यास लगना डीहाइड्रेशन का संकेत है, इसलिए जरूरी है कि आप दिन भर पानी पीते रहें। डीहाइड्रेशन के कारण शरीर में ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है और इम्यून सिस्टम (बीमारियों से लड़ने की ताकत) कमजोर पड़ जाता है। वे लोग जो अधिक सक्रिय रहते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, खेलते हैं, उनमें पसीना ज्यादा बहता है, ऐसे में उनके लिए अपने शरीर को नियमित रूप से हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। शरीर से पानी ज्यादा निकल जाने से क्रैम्पस पड़ने लगते हैं और शरीर लेवेट को बफर करने में सक्षम नहीं रहता। अक्सर देखा जाता है कि एथलीट्स और बॉस्केटबॉल खिलाड़ियों को हाइपरथर्मिया हो जाता है या पानी की कमी एवं बहुत ज्यादा

डीहाइड्रेशन के चलते उनका ब्लड प्रेशर गिर जाता है। ऐसी स्थिति में रीहाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपमें डायरिया, कम पानी पीना, पेट में पल्लू, बहुत ज्यादा दवाएं लेना जैसी स्थितियां हैं या आपने पिछली रात ज्यादा शराब का सेवन किया है तो ऐसे में शरीर को रीहाइड्रेट करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। रीहाइड्रेशन औरल माध्यम से या इन्ट्रावीनस तरीके से किया जा सकता है। हममें से ज्यादातर लोग पानी पीने पर टीक से ध्यान नहीं देते। दिन भर चलने वाले वर्चुअल मीटिंग्स, असाइनमेंट और घर के कामों के बीच अक्सर हम पानी पीना भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपने पास पानी की बोतल रख या हेल्थ ऐप के जरिए रिमाइंडर लगाकर बार-बार पानी पीते रहना चाहिए।

कोशिका की संरचना में पानी का महत्व
कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पानी जरूरी है, यह बालों, त्वचा और नाखूनों की कोशिकाओं का अभिन्न हिस्सा है। पानी कोलाजन के उत्पादन में मदद कर कोशिकाओं की उम्र बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा, पानी जोड़ें एवं रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ बनाए रखने के

लिए भी जरूरी है क्योंकि पानी शरीर में लुब्रिकेंट की भूमिका निभाता है, जिसके परिणामस्वरूप जोड़ों के बीच फ्रिक्शन कम होता है।
शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करता है
शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए तरल का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके शरीर में एंजाइम टीक से काम करते रहें, इसके लिए शरीर का तापमान सामान्य बना रहना बहुत जरूरी है, अगर ऐसा नहीं होगा तो शरीर के सभी काम रूक जाएंगे।



पाचन में मदद करता है
अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं 'पानी पीने का सही समय क्या है? खाना खाने से पहले? खाना खाने के बाद? खाना खाने के दौरान? इन तीनों समय में पानी पीने से भोजन को पचाने में मदद मिलती है। पानी पीने से सलाइवा यानि लार की सही मात्रा बनती है, लार में इलेक्ट्रोलाइट, म्यूकस और एंजाइम होते हैं जो भोजन पचाने में मदद करते हैं और मुख के स्वास्थ्य को सामान्य बनाए रखते हैं। भोजन का पाचन मुख में ही शुरू हो जाता है और उम्र बढ़ने के साथ लार का उत्पादन कम मात्रा में होने लगता है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका मुंह सूख रहा है तो ज्यादा मात्रा में पानी पीना शुरू कर दें।

शरीर में फैट यानि वसा को बर्न करने में मदद करता है
कई अध्ययनों में पाया गया है कि पानी का सेवन सही मात्रा में करने से शरीर की वसा को बर्न करने में मदद मिलती है, इस तरह यह वजन कम करने में भी मददगार है।

31.79 लाख से कड़ में बना सार्वजनिक शौचालय रास्ता न मिलने से ध्वस्त यात्रियों की सुविधा को लेकर पर्यटन विभाग ने बनवाया था शौचालय



बंद पड़ा सार्वजनिक शौचालय व आसपास लगा कूड़े का ढेर

स्वतंत्र चेतना
देवीगंज, कौशांबी। शाक्तिपीठ कड़ाधाम में स्थित मां शीतला मंदिर के परिसर में पर्यटन विभाग की ओर से निर्मित सार्वजनिक शौचालय तक जाने के लिए रास्ता नहीं बनाया गया है। इसकी वजह से स्थानीय लोगों व आने जाने वाले श्रद्धालुओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रख-रखाव न होने से लाखों की लागत से बना शौचालय बहाली के कारण पर पहुंच गया है। नगर पंचायत दारानगर कड़ाधाम में 5वीं शक्तिपीठ मां शीतला का मंदिर

इस सार्वजनिक शौचालय के लिए टेंडर हो चुका है। जिसमें पटेल धर्मशाला से इंटर लॉकिंग रोड बनना है। आचार सहिता लागू होने से कार्य बंद पड़ा है। जल्द ही इसकी व्यवस्था कराई जाएगी वैभव कुमार ईओ, नप दारानगर कड़ाधाम

है। जहां हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2018 में पर्यटन विकास योजना के

तहत 31.79 लाख की लागत से छह-छह सीटर महिला व पुरुष, एक सीटर दिव्यांग शौचालय का निर्माण कराया गया। जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सामुदायिक शौचालय तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से जरूरतमंद नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में आने वाले श्रद्धालुओं को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। धाम में रहने अरविंद पंडा, राजीव पंडा, सोनू पंडा, पंकज पंडा आदि ने बताया कि शौचालय बंद होने से आसपास

सार्वजनिक शौचालय बंद होने से यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदार स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाने में तुले है। शौचालय शुरू होने से जहां लोगों को सहूलियत मिलेगी, वहीं धाम में गंदगी से भी निजात मिलेगी। विजय कुमार पंडा



शक्तिपीठ कड़ाधाम में बना यह सार्वजनिक शौचालय कई वर्षों से बंद पड़ा है। जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नगर प्रशासन को ध्यान देकर इसे जल्द चालू करना चाहिए। कंचन पंडा, दुकानदार



शौचालय बंद होने से तीर्थ यात्रियों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। कई बार नगर पंचायत के जिम्मेदारों का ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। विनोद कुमार त्यागी, उपाध्यक्ष पंडा समाज

कूड़े का ढेर लगा है। कई बार रास्ता बनाने व साफ सफाई करने के लिए नगर पंचायत

से मांग की गई, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया।

कीटनाशक निगलने से युवक की मौत

स्वतंत्र चेतना
सिराथू, कौशांबी। सैनी कोतवाली के घुमाई गांव में एक युवक की कीटनाशक निगलने से शनिवार की देर शाम उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत से स्वजनों में कोहराम मचा हुआ है।

घुमाई गांव निवासी भीम (20) पुत्र नथन लाल ने नशे में झुब होकर किसी बात से नाराज हो जहरीला पदार्थ निगल लिया। संकरा बाबा मंदिर के पास उसके तड़पने की सूचना मिलने पर स्वजनों ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां देर शाम उसकी मौत हो गई। मृतक चार भाईयों में दूसरे नंबर का था। मां पार्वती ने बताया कि बेटा भीम नशे का आदि था। पति नथन लाल होमगार्ड है, जिनकी बुनाव में गैरजनपद झूटी लगाई गई है। उनके आने के बाद शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मृतक ने जहर क्यों खाया इसका कारण नहीं बता सकी।

अवैध तमंचा संग धराया युवक

स्वतंत्र चेतना
कौशांबी। संदीपनघाट पुलिस ने तेरामील कयामुद्दीनपुर गांव निवासी अनिल पटेल को पकड़ी सड़क मोहनपुर के पास से गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से पुलिस ने 315 बोर का एक अवैध तमंचा व दो कारतूस बरामद होने का दावा किया है। उपनिरीक्षक किशन बिंद ने बताया कि युवक का चालान न्यायालय भेज दिया गया है।

बच्चों की प्यास बुझाएगा मटके का पानी

स्वतंत्र चेतना
कौशांबी। सभी परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को लू से बचाने और टंडा पानी पिलाने के लिए दो-दो मटके रखवाए जाएंगे। गर्मी व हीट वेब से बचाव के लिए बच्चों को नींबू पानी, नमक-चीनी का घोल, चना-गुड़, कच्चे आम व सत्तू और शरबत

कहा गया है। इन दिनों तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस पार हो गया है। दिनों दिन बढ़ती जा रही गर्मी से आमजन पूरी तरह से परेशान है। बीएसए डा. कमलेंद्र कुमार कुशवाहा ने बताया कि आदेश के बाद जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में मिट्टी के मटके या अन्य जलपात्र रखवाने के



लिफ प्रधनाध्यापको को आदेश जारी किया गया है। बच्चों में डिहाइड्रेशन की समस्या न हो, इसके लिए नियमित अंतराल पर उन्हें कम से कम दो गिलास पानी पिलाने को कहा गया है।

कार की टक्कर से आटो सवार नौ घायल

स्वतंत्र चेतना
कौशांबी। सैनी कोतवाली के केसरिया गांव के नजदीक रविवार की दोपहर हाईवे पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से आटो सवार नौ लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मोर्चे पर अफरातफरी मच गई। राहगीरों ने सभी घायलों को सीएचसी सिराथू में भर्ती कराया। सैनी कोतवाली के परस गांव निवासी मीना देवी पुत्री रघुराज, कोमल पुत्री दशरथ, कमला पुत्री शिवराज, रूपरानी पुत्री सरजू, ननकी पत्नी दिनेश, काजल पुत्री दिनेश, प्रमोद पुत्र शिवराज, सुमन पत्नी जुगाराज रविवार को आटो से नवाबगंज सतसंग में गए थे। दोपहर घर लौटते समय केसरिया गांव के समीप भेनान हड्डे पर आटो चालक अनिल पुत्र रामचंद्र ने गाड़ी रोक दी। तभी प्रयागराज की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने आटो में जोरदार टक्कर मार दी।

आरोग्य स्वास्थ्य मेले में 1113 मरीजों का हुआ उपचार



आरोग्य स्वास्थ्य मेले में मरीज का उपचार करते चिकित्सक

स्वतंत्र चेतना
कौशांबी। जिले के 29 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व आठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में रविवार को आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। मेले में विभिन्न रोगों से ग्रस्त कुल 1113 मरीजों का चिकित्सको ने उपचार किया।

23 मरीजों के गम्भीर मिलने पर उन्हे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। उप मुख्य चिकित्साधिकारी डा. हिंद प्रकाश मणि ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंडानपुर का निरीक्षण किया। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. केडी सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिराथू व उप मुख्य

चिकित्सा अधिकारी डा. सुनील सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरसवा का निरीक्षण कर स्वास्थ्य मेले की हकीकत परखी। आरोग्य स्वास्थ्य मेले में 45 चिकित्साधिकारी समेत 124 पैरामेडिकल कर्मचारी की झूटी लगाई गई। इस दौरान कुल 37 गोल्डेन कार्ड भी बनाए गए।

संध काटकर नगदी समेत हजारों का सामान बटोर ले गए चोर

स्वतंत्र चेतना
सिराथू, कौशांबी। सैनी कोतवाली के अटसरई गांव में शनिवार की रात चोरों ने संध काटकर किसान के घर रखे नकदी समेत हजारों के जेवरत पार कर दिए। सुबह चोरी की जानकारी होने पर गृहस्वामी के हीरा काखला हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका-मुआयना किया। अटसरई गांव निवासी कृष्ण पाल पुत्र बाबूलाल गांव के बाहर टयूबवेल में रहता है। वह खाना पीना खाकर स्वजनों संग घर के बाहर सो रहा था। शनिवार की आधी रात घर के पीछे दीवार में संध काटकर अंदर घुसे चोरों ने 15 हजार की नकदी सहित एक तोडिया, लॉकेट व गृहस्थी का अन्य जरूरी सामान पार कर दिया। सुबह घर का बिखरा सामान देख परिजन दंग रह गए। तहरीर लेकर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

डीईओ ने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण



स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते डीईओ राजेश राय

स्वतंत्र चेतना
कौशांबी। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार राय ने रविवार को नदीन मंडी समिति आंसा में बनाए जा रहे स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। उप जिलाधिकारी मंडानपुर आकाश सिंह को निर्देशित किया

कि स्ट्रांग रूम बनाने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन हो। किसी प्रकार की कोई कमी न रहने पाए। उन्होंने उप जिलाधिकारी को अर्थ सैनिक बलों के टहरने के लिए

आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार गोंड तथा अपर जिलाधिकारी प्रबुद्ध सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कूड़े की चिंगारी से लगी आग

स्वतंत्र चेतना
मंडानपुर, कौशांबी। सदर तहसील के जाफरपुर महावां गांव में रविवार दोपहर कूड़े की आग से पशुशाला में रखा भूसा व लकड़ी जलकर राख हो गई। आग की चपेट में आने से पड़ोसी घर में भी गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जाफरपुर महावां गांव निवासी गिरधारी लाल ने जानवरों को बांधने के लिए एक मकान में पशुशाला बना रखी है। इसमें उन्होंने पशुओं को चारा देने के लिए भूसा सहित लकड़ी आदि सामान रखा हुआ था। इसी पशुशाला के पीछे ग्रामीण कूड़ा फेंकते हैं। कूड़े के ढेर में किसी ने आग लगा दी। इससे निकली चिंगारी से पशुशाला में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गिरधारी लाल ने बताया कि आग की चपेट में आने से लगभग 20 हजार रूपए का भूसा व लकड़ी जलकर राख हो गया। वहीं, आग के लपटों की



कूड़े के ढेर में लगी आग को बुझाने दमकल कर्मी

चपेट में आने से बगल के लालजी के घर में भी लगभग 25 हजार रूपए के

गृहस्थी का सामान जल गया है। हल्का लेखपाल हिमांशु निमेश ने नुकसान का

आंकलन कर तहसील में रिपोर्ट भेजने की बात कही है।

तालाब में डूबे बालक की मौत को लेकर परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

स्वतंत्र चेतना
करारी, कौशांबी। करारी थाना क्षेत्र अगियोना गांव में शनिवार की दोपहर नहाने गए आठ वर्षीय बालक की सदियं गथा



शव का पीएम कराने के साथ कार्रवाई की मांग को लेकर दी पुलिस को तहरीर

में मौत हो गई। शव दफनाने के बाद रविवार को स्वजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस को तहरीर दी और शव का पीएम कराए जाने की मांग किया। करारी के अगियोना गांव निवासी अमरावती पत्नी महेंद्र ने बताया कि उसकी पारिवारिक रजिशन चल रही है। शनिवार की दोपहर उसका आठ वर्षीय पुत्र शिवम

हाइवे पर चालक को बांधकर ढाई लाख का गुटखा लूट ले गए बदमाश

स्वतंत्र चेतना
कौशांबी। कोखराज के कल्याणपुर हाइवे स्थित पेट्रोल पंप के पास शनिवार की रात पंजर डीसीएम का टायर बदलते समय बदमाशों ने चालक को बंधक बनाकर लगभग ढाई लाख रूपए का गुटखा लूट लिया। चीख पुकार सुनकर रविवार की सुबह राहगीरों ने केबिन में बंधे चालक का बंधन खोलकर जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

शनिवार की रात हुई वारदात, सुबह चालक का बंधन खोलकर राहगीरों ने दी पुलिस को जानकारी

पंचर हो गया। चालक का आरोप है कि टायर बदलते समय आए दो लोगों ने तमचा सटाकर उसका केबिन में सीट पर हाथ-पैर बांध दिया और दूसरे डीसीएम में 40 पेट्टी गुटखा लादकर फरार हो गए। जिसकी कीमत लगभग ढाई लाख रूपए है। सीओ सिराथू अवधेश विश्वकर्मा ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

निरंजन से नरेन्द्र कुमार बन शिक्षामित्र हुआ युवक

कौशांबी। वायल तहसील के विकास खंड मूरतगंज के एक गांव का युवक शिक्षामित्र बनने के लिए निरंजन कुमार से नरेन्द्र कुमार हो गया। इतना ही नहीं कागजातों में हेराफेरी कर उसने अपनी जन्मतिथि भी 4 वर्ष बढ़ा लिया। जिसके सहारे उसने दुबारा हाईस्कूल व अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्रों को हासिल किया, और शिक्षामित्र में अपनी नियुक्ति कश्चर वर्षों नौकरी कर जालसाजी के दम पर सरकार से लाखों की घनराशि वसूल किया है। वायल तहसील क्षेत्र के मूरतगंज ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पकरसाई में नियुक्ति शिक्षामित्र द्वारा उम्र और नाम की हेरा फेरी कर नियुक्ति कराए जाने को मामला प्रकाश में आया है। जिसमें शिक्षामित्र ने निरंजन लाल पुत्र स्व० रामसूरत जिसकी जन्मतिथि 5-6-1976 आदर्श ग्रामसभा इंटर कॉलेज चरवा कौशांबी इलाहाबाद सन 1992 में दसवीं की बोर्ड परीक्षा में भागीदारी किया। जिसके आए परिणाम में वह तीन विषय में अनुत्तीर्ण हुआ। जिसमें जालसाजी करते हुए निरंजन लाल ने कागजातों में फेर बदल करते हुए अग्रणी जन्मतिथि 05.06.1980 व नाम नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व० रामसूरत बदलकर फिर सरदार पटेल इंटर कॉलेज सराय अकिल से 1994 में हाईस्कूल की परीक्षा पास किया। जिसके उपरान्त उसने इंटरमीडिएट 1996 व इंद्रवासा कुमारी मेमोरियल डिग्री कॉलेज आनापुर इलाहाबाद सन 1999 में संबंध पूर्ववर्त विद्यालय जौनपुर से उत्तीर्ण किया। जो वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालय पकरसाई विकासखंड मूरतगंज शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत है। बीएसए कमलेंद्र कुशवाहा ने बताया, शिक्षामित्र द्वारा जालसाजी किए जाने की शिकायत की एबीएसए द्वारा जांच कराई जा रही है जांचोपरांत विधिक कार्यवाही की जाएगी।

चंगाई सभा की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार

स्वतंत्र चेतना
कौशांबी। कड़ाधाम के शादीपुर गांव में रविवार को चंगाई सभा की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, हालांकि युवक का भाई भागने में कामयाब रहा। पुलिस युवक से पूछताछ कर कानूनी कार्यवाही में जुट गई है। शादीपुर गांव के एक घर में रविवार को आसपास गांवों के दर्जनों लोग एकत्रित हो गए। इस दौरान घर के अंदर से मिशनरी समाज के धार्मिक

आयोजन जैसी आवाजे बाहर तक सुनाई पड़ने लगी। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी हिन्दू संगठन के लोगों को दी। इस पर बजरंग दल के जिला उपाध्यक्ष कृष्ण दत्त ओझा ने मामले की जानकारी कड़ाधाम पुलिस को देते हुए अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। हिन्दू संगठन के लोगों को देखकर एकत्रित लोग एक-एक कर हटने लगे। पुलिस के पहुंचने से पहले सभी लोग जा चुके थे। पुलिस ने गांव के

रामी सरोज को मौके पर मिलने के कारण हिरासत में ले लिया। जबकि उसका छोटा भाई पुलिस के सामने से ही भाग निकला। पुलिस ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रही। थाना प्रभारी आशुतोष सिंह ने बताया, आरोप के घरे में आए शख्स के खिलाफ हिन्दू संगठन के लोगों से तहरीर की मांग की गई है। आरोपी से पूछ-ताछ की जा रही है। तहरीर मिलने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।



चंगाई सभा की सूचना पर जांच करती पुलिस

संक्षिप्त समाचार

कर ढांचे में बदलाव की गलत खबर से गुस्से में निवेशक, सोशल मीडिया पर निकाली भड़सा

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के एक बड़े बिजनेस चैनल द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद टैक्स के ढांचे में परिवर्तन किए जाने की रिपोर्ट का मामला शनिवार को सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहा। इस खबर के कारण निवेशकों को - शुक्रवार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है जिस कारण वह गुस्से में नजर आए। स्टॉक मार्केट से जुड़े बड़े निवेशकों ने इस मामले में ट्वीट करके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ट्वीट को री-ट्वीट किया। दिवंगत राकेश झुनझुनवाला के प्रशंसक आर.जे. स्टॉक्स ने इस मुद्दे पर चैनल की रिपोर्ट और उस पर दी गई वित्त मंत्री की सफाई दोनों के स्क्रीन शॉट शेयर किए, जबकि एक अन्य निवेशक अलोक जैन ने लिखा, बिजनेस चैनल ने कैपिटल गेन टैक्स पर अपनी स्टोरी को डिलीट कर दिया है। यह बिना तैयारी की रिपोर्टिंग है। क्या किसी को अंदाजा है कि एक अफवाह के चलते शुक्रवार को कितने लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। रिपोर्टिंग में जिम्मेवारी होनी चाहिए। दरअसल एक शीर्ष बिजनेस चैनल ने अपनी वेबसाइट पर लिखा था कि वित्त मंत्रालय चुनाव के बाद कर ढांचे में बदलाव की योजना बना रहा है और इसके तहत देश में कर चोरी के मामले कम करने के साथ-साथ नए कानून लाने की तैयारी हो रही है जिसमें कर चोरी के मामलों में भारी जुमाने करने के प्रावधान किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के बाद बाजार को लगा सरकार कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ा कि बदलाव कर सकती है और इससे निश्चित तौर पर बाजार में निवेशकों पर बोझ बढ़ेगा तथा भारतीय बाजार में निवेश काम हो सकता है। इसी चिंता में बाजार लुढ़क गए। शुक्रवार को निफ्टी 22766 अंक पर खुला और दोपहर पौने दो बजे तक लुढ़क कर 22348 अंक पर आ गया और इसमें अपने ऊपरी स्तरों से 418 अंकों की गिरावट देखने को मिली, जबकि सेंसेक्स 75,017 अंक पर खुला और दोपहर पौने दो बजे तक 73,467 तक लुढ़क गया तथा इसमें 1550 अंक की गिरावट देखी गई। हालांकि फल में सेंसेक्स 732 और निफ्टी 172 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। सोशल मीडिया पर मचे बवाल के बाद चैनल ने अपनी रिपोर्ट को वेबसाइट और सोशल मीडिया हट्टल से हटा लिया।

कोटक महिंद्रा बैंक की आमदनी 18 प्रतिशत बढ़ी, निवेशकों के लिए हुआ डिविडेंड का ऐलान



नई दिल्ली, एजेंसी। कोटक महिंद्रा बैंक ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी की तरफ से जारी किए रिजल्ट के अनुसार जनवरी से मार्च 2024 के दौरान प्रॉफिट 13,782 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कोटक महिंद्रा बैंक का प्रॉफिट 10,939 करोड़ रुपये रहा था। यानी सालाना आधार पर अगर देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक का प्रॉफिट 4133 करोड़ या 18 प्रतिशत बढ़ा है। बैंक ने बताया कि 31 मार्च 2024 तक के आकड़ों के अनुसार उनके पास कुल 5 करोड़ ग्राहक थे। 31 मार्च 2023 तक बैंक के पास ग्राहकों की संख्या 4.1 करोड़ थी। यानी एक साल में बैंक ने 90 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं।

हर महीने दूध बेचकर लाखों रुपये कमा रही महिला

▶▶ नवलबेन ने अपने दम पर लाखों का कारोबार खड़ा किया है ▶▶ लॉकडाउन में उन्होंने अपने घर पर ही डेयरी की शुरुआत की थी

नई दिल्ली, एजेंसी। मेहनत से बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सफलता के बड़े मुकाम हासिल किए हैं। आज हम आपको एक ऐसी की महिला के बारे में बताने जा रहे हैं। कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखने वाली गुजरात के बनासकांठा की एक महिला ने अपने दम पर लाखों का कारोबार खड़ा कर लिया है। इस महिला का नाम नवलबेन दलसंगभाई चौधरी है। नवलबेन ने साल 2020 में दूध बेचकर एक करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। गुजरात के बनासकांठा जिले के नागाना गांव की रहने वाली नवलबेन दलसंगभाई चौधरी हर महीने दूध बेचकर साढ़े तीन से 4 लाख रुपये तक हर महीने



कमा रही हैं। वह कमाई के मामले में बड़े-बड़े दिग्गजों को टक्कर दे रही हैं। आईए आपको बताते हैं कैसे नवलबेन ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है।

ऐसे हुई शुरुआत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवलबेन ने कभी भी स्कूल का मुंह नहीं देखा है। उनकी शादी बनासकांठा के नागाना गांव में दलसंगभाई चौधरी से हुई। जब वे अपने ससुराल गयीं तो उनके ससुराल में 15 - 20 पशु थे। उन्होंने इन्हीं पशुओं से दूध उत्पादन का काम शुरू किया और अपनी लगातार मेहनत के द्वारा करोड़ों की कमाई की। नवलबेन के 4 बेटे भी हैं, जो शहर में रहकर कमाई कर रहे थे। इन चारों की आमदनी मिलकर भी नवलबेन की कमाई से कम है।

खूब हो रही कमाई

साल 2019 में जब कोरोना महामारी के चलते लॉगडाउन लगा तो नवलबेन ने अपने घर पर ही डेयरी की शुरुआत की थी। इस दौरान उन्होंने लाखों रुपये का दूध बेचा था। साल 2020 में उनकी कमाई और बढ़ी और यह एक करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवलबेन रोजाना करीब एक हजार लीटर दूध बेचती है। इससे उन्हें हर महीने साढ़े तीन से 4 लाख रुपये तक की कमाई होती है।

एनसीएलटी के कर्ज समाधान मामलों में 43 प्रतिशत उछाल: आईबीबीआई

कोलकाता एजेंसी। कई बाधाओं के बीच भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने 2023-24 को एक ऐतिहासिक वर्ष घोषित किया है। इसमें राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा किए गए समाधान मामले 43 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 270 रहे हैं जो पिछले साल 189 मामले थे। उम्मीद है कि आईबीबीआई 'मध्यस्थता को शामिल करने के लिए अगले दो-तीन महीनों में सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल इसपर चर्चा और जांच चल रही है। नियामक बड़े कॉर्पोरेट मामलों के लिए प्रीपैकेज्ड समाधान पर भी काम कर रहा है, जिसकी अनुमति अब तक केवल एमएसएमई मामलों में ही है। आईबीबीआई के पूर्णकालिक सदस्य सुधाकर शुक्ला ने सीआईआई द्वारा आयोजित सातवें 'इंफ्लॉवेंसी एंड बैंकएप्सी कोड कॉन्वेल्वे' को संबोधित करते हुए कहा कि एक साल में पहली बार नए मामलों की संख्या से समाधान हुए मामलों की संख्या बढ़ी है, जिससे पूरे भारत में लंबित मामलों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि पिछले सात साल में बाधाओं के बावजूद 3.5 लाख करोड़ रुपए का समाधान हासिल किया गया।

अब दूसरे बैंक के एटीएम से कैश निकालना पड़ सकता है महंगा

नई दिल्ली, एजेंसी। अगर आप अक्सर दूसरे बैंकों का एटीएम इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। एटीएम पर आने वाले खर्च या लागत पर नए रिस्से से विचार किया जा रहा है। इसके तहत दूसरे बैंकों के एटीएम से रकम निकालने या लेनदेन करने पर शुल्क (इंटरचेंज शुल्क) बढ़कर 20 से 23 रुपये तक किया जा सकता है। इसके अलावा ज्यादा नकद निकालने पर भी अतिरिक्त शुल्क लगा जा सकता है। वहीं, जिन क्षेत्रों में एटीएम की कमी है, वहां शुल्क कम रखने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लाभार्थी एटीएम से आराम से रुपये निकाल सकें। हाल ही में एटीएम उद्योग परिसंघ और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच एक बैठक हुई। इसमें इन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। नई सरकार के गठन के बाद इन शुल्क में बदलाव हो सकते हैं। दरअसल, इंटरचेंज शुल्क तब लगाया



एटीएम में ज्यादा बार भरने पड़ते हैं नोट

जाता है, जब आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम या व्हाट लेबल एटीएम पर जाकर अपने कार्ड से लेनदेन करते हैं। यह शुल्क आपके बैंक से वसूला जाता है। पहले यह शुल्क 15 रुपये प्रति लेनदेन था, जिसे एक अगस्त 2021 को बढ़कर 17 रुपये कर दिया गया। गैर वित्तीय लेनदेन पर शुल्क 5 रुपये से बढ़कर 6 रुपये कर दिया गया। मार 2012 में एटीएम इंटरचेंज शुल्क 18 रुपये था, जिसे घटाकर 15 रुपये किया गया था।

दरअसल, रिजर्व बैंक ने एटीएम इंटरचेंज शुल्क व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की थी। इसका गठन इसलिए किया था कि जहां बैंक कम वहां एटीएम तेजी से लगाए जाए सकें। इस समिति को रिपोर्टें सौंपे काफी समय हो चुका है। रिपोर्टें में समिति ने बताया है कि रिचार्ज, ईंधन के खर्च, नकदी भरने के शुल्क और गृह मंत्रालय की सुरक्षा शांतों का पालन करने के कारण लागत बहुत बढ़ गई है। 2,000 रुपये के नोट बंद होने के बाद अब एटीएम में नोट भी ज्यादा बार भरने पड़ते हैं। समिति ने सिफारिश कि है कि इंटरचेंज शुल्क और एटीएम उपयोग शुल्क पर नियत समय के बाद विचार होना चाहिए।

कम होंगी अरहर दाल की कीमतें

नई दिल्ली, एजेंसी। अरहर की दाल की बढ़ती कीमतों से लोगों को अब राहत मिलने वाली है। कारोबारियों के मुताबिक, अफ्रीका से अरहर की दाल की सप्लाई शुरू हो गई है। इस वजह से थोक मंडी में इसकी कीमत में 4 से 5 रुपये की गिरावट आई है। साथ ही चना दाल के भी दाम कम होने के आसार हैं। बीते कुछ महीनों से अरहर दाल की कीमत तेजी से बढ़ रही थी। थोक मंडी में इसकी कीमत 170 रुपये किलोग्राम तक पहुंच गई थी। दाल कारोबारी गौरव ने बताया कि अरहर दाल की कीमत में हो रही बढ़ोतरी के पीछे का कारण सप्लाई का कम होना है। अफ्रीका से सप्लाई आ नहीं रही थी, लेकिन अब सप्लाई शुरू हो गई है। जिसके बाद थोक मंडी में अरहर की दाल की कीमतों में प्रतिक्रिया 4 से 5 रुपये की गिरावट आई है। इसके अलावा चने की दाल पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को सरकार ने हटाने का फैसला किया है।



जिससे आने वाले दिनों में चने की दाल की कीमत में भी गिरावट आएगी। इस बीच केंद्र सरकार भी दालों की महंगाई से राहत दिलाने के लिए सक्रिय हो गई है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने दालों के स्टॉक पर सख्त निगरानी रखने की कवायद शुरू कर दी है। अधिकारियों को मंडियों में दालों के स्टॉक की जानकारी लेने और जांच करने के लिए भेजा गया है। इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं जमाखोरी के कारण दालों के दाम तो नहीं बढ़ रहे हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने दाल के स्टॉक की स्थिति और भाव का पता लगाने के लिए पिछले हफ्ते अधिकारियों को दो टीमों को महाराष्ट्र भेजने का फैसला किया था।

बिरला कॉर्प ने मार्च तिमाही में शुद्ध लाभ में 127 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की

बिरला कॉर्प ने बंपर बिक्री और लाभप्रदता में वृद्धि के साथ क्षमता का 97 प्रतिशत उपयोग किया

कोलकाता एजेंसी। बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तीन तिमाहियों में अपनी मजबूत ग्रोथ को जारी रखा और मार्च तिमाही में बिक्री और शुद्ध लाभ में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी ने मार्च तिमाही में शुद्ध लाभ में 127 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है। वित्तवर्ष के अंत में कंपनी ने सभी पैमानों पर सफलता हासिल की है। वहीं रिपोर्टों में बिक्री के साथ ही कंपनी के ओवरऑल प्रदर्शन को भी बेहतर किया है। ये सभी सफलताएं बाजार में असामान्य रूप से कमजोर हालात के बावजूद हासिल की गई हैं। मुकुटबन यूनिट में लगातार वृद्धि के बाद, कंपनी के सीमेंट डिवीजन ने मार्च तिमाही के लिए 97 प्रतिशत की क्षमता उपयोग हासिल किया - जो एक और बड़ी उपलब्धि है।

मार्च तिमाही के लिए कंसोलिडेटेड (समेकित) शुद्ध लाभ, 193 करोड़ रुपये, साल-दर-साल 127.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, क्योंकि बिजली और ईंधन की लागत मध्यम बनी हुई है। तिमाही के लिए कंसोलिडेटेड आय 2,682 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल की समान अवधि से 6.8 प्रतिशत बढ़ गई, जबकि मार्च तिमाही में सीमेंट से प्राप्त होने वाली आय तीव्र दबाव में आ गई और साल-दर-साल 1.6 प्रतिशत गिरकर 5,178 रुपये प्रति टन रह गई। कंपनी चेयरमैन श्री हर्ष वर्धन लोढ़ा ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में बिरला कॉर्पोरेशन का प्रदर्शन संचालन के सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन में चैतन्य सुधार का परिणाम है। कंपनी द्वारा दी गई गाइडेंस से पहले, कंपनी के फंशियल वर्टिकल्स में क्षमता निर्माण में लगातार निवेश किया गया और इससे मुकुटबन यूनिट का काम तेजी से हुआ और वहां पर अच्छे परिणाम मिले। बिरला कॉर्पोरेशन की पूर्ण स्वायत्त वाली सहायक कंपनी, आरसीसीपीएल प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने गुरुवार, 2 मई 2024 को दो साल के भीतर अपनी कुदमंगल यूनिट की क्षमता 1.4 मिलियन टन बढ़ाने के लिए 425 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी।

पेटीएम की मूल कंपनी के अध्यक्ष भावेश गुप्ता ने दिया इस्तीफा, कहा- निजी कारणों से छोड़ा पद

नई दिल्ली, एजेंसी। पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष और सीओओ भावेश गुप्ता ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। शनिवार को जारी किए गए आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। बता दें कि भावेश गुप्ता कंपनी में ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान और ऋण व्यवसाय समेत अन्य कार्यों का संचालन कर रहे थे। बयान में कहा गया है कि गुप्ता ने निजी कारणों से पद से इस्तीफा दिया है। वह 31 मई को कंपनी की सेवाओं



से मुक्त हो जाएंगे। हालांकि, भूमिका में बने रहेंगे। भावेश गुप्ता पेटीएम के साथ अगस्त 2020 में जुड़े थे।

वन97 कम्युनिकेशंस का बयान : वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड का कहना है कि कंपनी अपनी नेतृत्व टीम का विस्तार कर रही है। कंपनी ने पेटीएम के सीईओ और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ सीधे काम करने के लिए अपनी नेतृत्व टीम का विस्तार किया है। कंपनी ने कहा है कि पेटीएम के भुगतान और क्रेडिट व्यवसायों का नेतृत्व जिन अधिकारियों द्वारा किया जाता है, उनमें से हर किसी के पास पेटीएम में पांच साल से अधिक का अनुभव है। यह अनुभवी नेतृत्व टीम अब सीधे पेटीएम के सीईओ के साथ काम करेगी।

आईडीबीआई बैंक का नेट प्रॉफिट मार्च तिमाही में 44 प्रतिशत बढ़ा



नई दिल्ली, एजेंसी। निजी क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक का शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में 44 प्रतिशत उछलकर 1,628 करोड़ रुपए रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 की समान तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 1,133 करोड़ रुपए रहा था। बैंक ने शनिवार को कहा कि जनवरी-मार्च तिमाही में उसकी कुल आमदनी बढ़कर 7,887 करोड़ रुपए रही है, जो पिछले साल समान तिमाही में 7,014 करोड़ रुपए थी। पिछले वित्त वर्ष के लिए बैंक का शुद्ध लाभ 55 प्रतिशत बढ़कर 5,634 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में बैंक का शुद्ध लाभ 3,645 करोड़ रुपए था। कंपनी की कुल आमदनी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 30,037 करोड़ रुपए थी, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 24,942 करोड़ रुपए थी। आईडीबीआई बैंक की शुद्ध ब्याज आय मार्च तिमाही में 12 प्रतिशत बढ़कर 3,688 करोड़ रुपए रही है, जो पिछले साल समान तिमाही में 3,280 करोड़ रुपए थी। शुद्ध गैर-निष्पत्ति परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात 31 मार्च, 2024 को सुधरकर 0.34 प्रतिशत हो गया, जो 31 मार्च, 2023 को 0.92 प्रतिशत था। आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल ने 15 प्रतिशत लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

भोपाल में भूतानी इंफ्रा का नया चैप्टर शुरू हुआ

भोपाल। रियल्टी सेक्टर के दिग्गज, भूतानी ग्रुप ने भोपाल में अपने नए ऑफिस का अनावरण किया। मध्य प्रदेश में अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने के लिए, भूतानी ग्रुप ने भोपाल के प्रतिष्ठित ताज लेकफ्रंट होटल में इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स की एक बैठक आयोजित की। इस कार्यक्रम में एडवोकेट पार्लर, स्टैकहोल्डर्स और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों सहित लगभग 400 सम्मानित लोगों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य स्पष्ट रिलेशनशिप डेवेलोप करना और फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करना था। भूतानी ग्रुप के सीईओ आशीष भूतानी ने कहा, हम पूरे भारत में न्यू रियल एस्टेट सलूशन प्रदान करने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए, भोपाल में अपनी उपस्थिति स्थापित करके प्रसन्न हैं। यह आयोजन सार्थक संबंधों को बढ़ावा देने और इस जीवंत बाजार में नए अवसरों की खोज करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मीट और ग्रीट कार्यक्रम में नेटवर्किंग सेशन और आगामी प्रोजेक्ट्स पर विचार-विमर्श किया गया, जिसके बाद एक भव्य रात्रिभोज का आयोजन किया गया। भूतानी ग्रुप इस क्षेत्र में स्थायी साझेदारी बनाने और निवेशकों और भागीदारों के योगदान के लिए तत्पर है। भूतानी ग्रुप अपने नए x हाई क्वालिटी कर्मशियल व रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है। शहरी स्थानों को फिर से परिभाषित करने की प्रतिबद्धता के साथ स्थापित, भूतानी इंफ्रा ऐंतिहासिक प्रोजेक्ट्स बनाने में माहिर है जो आधुनिक डिजाइन के साथ कार्यक्षमता को जोड़ती है। उनकी परियोजनाएं विविध स्तरीय सुविधाओं, टिकाऊ सुविधाओं और रणनीतिक स्थानों का दावा करती हैं, जो व्यवसायों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करती हैं। पेट्रोफिलियम में कर्मशियल रियल एस्टेट में मानक स्थापित करने वाले प्रतिष्ठित विकास और आवासीय परियोजनाओं में विलासिता का प्रतीक शामिल है।

टीम में हुए हैं ये बदलाव

हाल ही में राकेश सिंह को पेटीएम मनी लिमिटेड (पीएमएल) के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले राकेश सिंह फिक्सेड में स्टॉक ब्रोकिंग व्यवसाय के सीईओ थे। वह आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में प्रमुख प्रबंधन पदों पर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि पेटीएम मनी लिमिटेड के पूर्व प्रमुख वरुण श्रीधर अब पीएमपीएल में सीईओ के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा का कहना है कि भुगतान और उधार पर कंपनी का फोकस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है।

पंजाब से लगातार 5 हार के बाद जीती चेन्नई

- पिछले मैच का हिसाब बराबर किया
- जडेजा ने 43 रन बनाए, 3 विकेट भी लिए



धर्मशाला, एजेसी। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2024 के प्लेऑफ की उम्मीद मजबूत कर ली है। टीम ने मौजूदा सीजन के 53वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को 28 रन से हराया। चेन्नई को पंजाब के खिलाफ लगातार पांच हार के बाद यह पहली जीत है। इस जीत से ग्रुप्स फाइनल टेबल में तीसरे नंबर पर आ गई है। चेन्नई के पास 11 मैचों के बाद 12 अंक हैं। धर्मशाला मैदान पर रविवार को पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। चेन्नई ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 167 रन बनाए। जवाब में पंजाब 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 139 रन बना सकी। रवींद्र जडेजा ने दोहरा प्रदर्शन किया। उन्होंने 26 बॉल पर 43 रन की पारी खेली। इतना ही नहीं, 3 विकेट भी हासिल किए।

भारतीय बॉक्सिंग के लिए ऐतिहासिक दिन, -22 एशियाई यूथ बॉक्सिंग में 43 मेडल पक्के हुए

नई दिल्ली, एजेसी। आकाश गोरखा, विश्वनाथ सुरेश, निखिल और प्रीत मलिक शनिवार को एएसबीसी एशियाई अंडर-22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अंडर-22 पुरुषों के फाइनल में पहुंच गए। इसी के साथ भारतीय मुक्केबाजों ने सभी श्रेणियों में 43 पदक पक्के कर लिए हैं। आकाश गोरखा, विश्वनाथ सुरेश, निखिल और प्रीत मलिक शनिवार को एएसबीसी एशियाई अंडर-22 और युवा मुक्केबाजी



चैंपियनशिप में अंडर-22 पुरुषों के फाइनल में पहुंच गए। इसी के साथ भारतीय मुक्केबाजों ने सभी श्रेणियों में 43 पदक पक्के कर लिए हैं। सीनियर राष्ट्रीय चैंपियन आकाश ने 60 किग्रा वर्ग में अपना दबदबा कायम रखते हुए सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के इलियासोव सयात को 5-0 से हराया। मुकाबले की समीक्षा के बाद मौजूदा युवा विश्व चैंपियन विश्वनाथ (48 किग्रा) ने फिलीपींस के बारिकुआत्रो ब्रायन के खिलाफ 5-2 से जीत दर्ज की। अन्य दो सेमीफाइनलिस्ट, निखिल (57 किग्रा) और प्रीत (67 किग्रा) ने भी क्रमशः मंगोलिया के दोर्जन्यामन गनबोल्ड और किर्गिस्तान के अल्ताज ओरोजबेकोव के खिलाफ समीक्षा के बाद समान 5-2 स्कोर के साथ अपने मुकाबले जीते। इस बीच, एम जदुमणि सिंह (51 किग्रा), अजय कुमार (63.5 किग्रा), अंकुश (71 किग्रा), एचव सिंह (80 किग्रा), जुगनू (86 किग्रा) और युवराज (92 किग्रा) के लिए यह निराशाजनक था क्योंकि उन्होंने कांस्य पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। अंडर-22 सेमीफाइनल में उनकी हार। ओलंपिक के लिए कालीफाई कर चुकी प्रीति (54 किग्रा) सहित नौ महिला मुक्केबाज अंडर-22 सेमीफाइनल में भाग लेंगी। अंडर-22 का फाइनल मंगलवार को खेला जाएगा।

विकेटों के पतझड़ में चेन्नई ने मारी बाजी, पंजाब को 28 रनों से हराया

धर्मशाला (वार्ता) इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 53वें मैच में रविवार को विकेटों के पतझड़ में चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने बाजी मारते हुए पंजाब सुपर किंग्स को 28 रनों से हरा दिया है। आज यहां हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाब किंग्स के कप्तान सैम करन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई ने पहले खेलते हुए बल्लेबाजों के जुझारूपन के दम पर टीम को 167 रन के संघर्षपूर्ण स्कोर तक पहुंचा उसके बाद रवींद्र जडेजा 20 रन देकर तीन विकेट, सिमरजीत सिंह 16 रन देकर दो, तुषार देशपांडे दो विकेट और मिचेल सैंटनर तथा शार्दूल ठाकुर के एक-एक विकेट की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर पंजाब किंग्स की पारी को 20 ओवर में नौ विकेट पर 139 रन पर रोककर मुकाबला 28 रनों से जीत लिया। 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत खराब रही और उसने दूसरे ओवर में ही दो विकेट गवां दिये। जॉनी बेयरस्टो (7), राइली रूसो (शून्य) पर आउट हुये। उसके बाद प्रभसिमरन सिंह और शशांक सिंह ने पारी को संभालने का प्रयास किया। आठवें ओवर में शशांक सिंह 20 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुये। अगले ही ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने 23 गेंदों



में दो चौके और दो छकों की मदद से 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गये। इसके बाद लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे और पंजाब का कोई भी बल्लेबाज पिच पर अधिक देर तक नहीं टिक सका। कप्तान सैम करन (7), जितेश शर्मा (शून्य), आशुतोष शर्मा (3), हर्षल

पटेल (12), राहुल चाहर (16) रन बनाकर आउट हुये। हरीप्रीत बराड़ (17) और कगिसो रबाडा (11) रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले रवींद्र जाडेजा (43), कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (32) और डैरिल मिचेल (30) रनों की

पारियों के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को जीतने के लिये 168 रनों का लक्ष्य दिया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत खराब रही और उसने दूसरे ही ओवर में सलामी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे (9) का विकेट गवां दिया। इसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और डैरिल मिचेल ने पारी को संभाला। आठवें ओवर में राहुल चाहर ने ऋतुराज गायकवाड़ को जितेश के हाथों कैच आउट कराकर पंजाब को दूसरी सफलता दिलाई। ऋतुराज गायकवाड़ ने 21 गेंदों में चार चौके और एक छक्के की मदद से (32) रनों की पारी खेली। अगली ही गेंद पर चाहर ने शिवम दुबे (शून्य) को आउट कर पवेलियन भेज दिया। नौवें ओवर में हर्षल पटेल ने डैरिल मिचेल को पगबाधा आउट कर दिया। डैरिल मिचेल ने 19 गेंदों में दो चौके और एक छक्का लगाते हुये (30) रन बनाये। मोईन अली (17), मिचेल सैंटनर (11), शार्दूल ठाकुर (17), एमएस धोनी (शून्य) पर आउट हुये। रवींद्र जडेजा ने 26 गेंदों में तीन चौके और दो छकों की मदद से सर्वाधिक (43) रन बनाये। उन्हें अर्शदीप सिंह ने एस करन के हाथों कैच आउट कराया। पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने चेन्नई के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया और विकेट गिराते हुए उन पर दबाव बनाये रखा। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट पर 167 रन ही बना सकी। पंजाब किंग्स की ओर से राहुल चाहर और हर्षल पटेल ने तीन-तीन विकेट लिये। अर्शदीप सिंह को दो विकेट मिले। सैम करन ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

पेरिस ओलंपिक

बजरंग की उम्मीदों को लगा तगड़ा झटका, नाडा ने अस्थायी रूप से किया निलंबित

नई दिल्ली, एजेसी। अगर बजरंग से समय रहते निलंबन नहीं हटाया गया तो वह अगले महीने होने वाले चयन ट्रायल में हिस्सा नहीं ले सकेगा। मालूम हो कि बजरंग ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। भारतीय पुरुष पहलवान बजरंग पुनिया को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेसी (नाडा) ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इस कारण बजरंग के पेरिस ओलंपिक में शामिल होने को लेकर तगड़ा झटका लगा है। नाडा के अनुसार, बजरंग ने 10 मार्च को सोनोपत में हुए चयन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से मना कर दिया था जिस कारण उन पर यह कार्रवाई की गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अगर बजरंग पर से समय रहते निलंबन नहीं हटाया गया तो वह अगले महीने होने वाले चयन ट्रायल सहित किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकेगा। मालूम हो कि बजरंग ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अब तक किसी भी भारतीय ने 65 किग्रा वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल नहीं किया है। सुजीत कलकल नौ मई से इस्तांबुल में होने वाले विश्व क्वालीफायर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

नाडा ने बजरंग से सैंपल देने कहा था

बजरंग ने सोनोपत में हुए ट्रायल के दौरान अपने यूरिन का सैंपल देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद नाडा ने उनसे सैंपल देने के लिए कहा था। नाडा ने इस बारे में विश्व डोपिंग रोधी एजेसी (नाडा) को सूचित किया जिसके बाद नाडा ने नाडा को सुझाव दिया कि वे बजरंग को नोटिस भेजकर जवाब मांगें कि उन्होंने टेस्ट से इनकार क्यों किया। नाडा ने 23 अप्रैल को बजरंग को नोटिस जारी कर सात मई तक जवाब देने कहा है। बजरंग को पेरिस ओलंपिक क्वालीफायर्स के लिए आयोजित राष्ट्रीय चयन ट्रायल्स में हार का सामना करना पड़ा था।

बजरंग ने किट के एक्सपायर होने का आरोप लगाया था - बजरंग ने कुछ महीने पहले एक वीडियो जारी कर डोप कलेक्शन किट के एक्सपायर होने का आरोप लगाया था। नाडा ने बयान में कहा, बजरंग को मामले की सुनवाई के दौरान अंतिम निर्णय लेने से पहले किसी प्रतियोगिता या ट्रायल में भाग लेने से अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि निलंबन पत्र वर्ल्ड यूनाइटेड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) की भंग हो चुकी तदर्थ समिति को भेजा गया था।

रियल मैड्रिड ने 36वीं बार ला-लीगा का खिताब जीता

कैडिज को 3-0 से हराया, पॉइंट टेबल में 85 पॉइंट्स के साथ टॉप पर

रियल मैड्रिड ने शनिवार को कैडिज पर 3-0 से हराकर रिकॉर्ड 36वीं बार ला लीगा का खिताब जीत लिया है। इस जीत के बाद मैड्रिड के बाद 87 पॉइंट्स हो गए हैं और अभी भी चार गेम बाकी हैं। वो पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर काबिज गिरोना से 13 पॉइंट्स आगे हैं। मैड्रिड के लिए ब्राह्मि डियाज, जूड बेलिंहाइम और जोसेलु ने एक-एक गोल किया।
4 गेम बाकी रहते पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचा मैड्रिड - कैडिज को हराने के साथ ही मैड्रिड 4 गेम शेष रहते टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। मैड्रिड के 34 मैचों में 87 पॉइंट्स हो गए हैं। वह गिरोना से 13 अंक से आगे हैं। गिरोना ने शनिवार को खेले गए मैच में बार्सिलोना को 4-2 से हराया। बार्सिलोना के 34 मैचों में 73 पॉइंट हैं।

रियल मैड्रिड लीग की सबसे सफल टीम

रियल मैड्रिड का यह 2022 के बाद ला लीगा का पहला खिताब है। 2023 में बार्सिलोना ने यह टाइटल जीता था। मैड्रिड लीग की सबसे सफल टीम है। उसने सबसे ज्यादा 36 बार टाइटल जीता है। दूसरे नंबर पर बार्सिलोना है, जिसने 27 बार ट्रांफी जीती है।

हॉकी इंडिया ने घोषित की भारतीय जूनियर पुरुष टीम, रोहित करेंगे टीम की अगुआई

नई दिल्ली, एजेसी। इस 20 सदस्यीय टीम में शारदानंद तिवारी को उपकप्तान बनाया गया है। हॉकी इंडिया के खिलाड़ियों को अनुभव दिलाने के साथ प्रदर्शन को बेहतर करने की पहल के तहत भारतीय टीम बेलजियम, जर्मनी और नीदरलैंड में पांच मैच खेलेगी। हॉकी इंडिया ने यूरोप दौरे के लिए भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम घोषित कर दी है। टीम रक्षापंक्ति के खिलाड़ी रोहित की अगुआई में 20 से 29 मई तक यूरोप दौरे पर पांच मैच खेलेगी। इस 20 सदस्यीय टीम में शारदानंद तिवारी को उपकप्तान बनाया गया है। हॉकी इंडिया के खिलाड़ियों को अनुभव दिलाने के साथ प्रदर्शन को बेहतर करने की पहल के तहत भारतीय टीम बेलजियम, जर्मनी और नीदरलैंड में पांच मैच खेलेगी।

एक दूसरे के खेलने के तरीके को समझ रहे हैं - हॉकी इंडिया के हवाले से कप्तान रोहित ने कहा, हम अपने शिविर में कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक-



दूसरे के खेलने के तरीके को समझ रहे हैं। अन्य देशों की टीमों के खिलाफ एक साथ खेलना अद्भुत होगा, जिससे हमें अपने खेल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

बेलजियम के खिलाफ होगी दौरे की शुरुआत - भारत इस दौरे का आगाज 20 मई को एंटवर्प में बेलजियम के खिलाफ करेगा। टीम इसके बाद 22 मई को नीदरलैंड के ब्रेडा में फिर से बेलजियम से भिड़ेगी। इसी स्थल पर टीम 23 मई को

नीदरलैंड की क्लब टीम ब्रेडेज हॉकी वेरनिंगिंग पुश से खेलेगी। इसके बाद 28 और 29 मई को जर्मनी के खिलाफ खेलेगी। इससे पहले मैच जर्मनी, जबकि दूसरा मैच ब्रेडा में होगा।

यूरोप दौरे के लिए भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम इस प्रकार है...

गोलकीपर: प्रिंस पीट सिंह, बिक्रमजीत सिंह
डिफेंडर: शारदानंद तिवारी, योगेश्वर रावत, अनमोल एकम्बा, रोहित, मनोज यादव, तालेम प्रियो बार्टा
मिडफील्डर: अंकित पाल, रोशन कुजूर, बिपिन बिलवारा रवि, मुकेश टोपपो, मममोत सिंह, वचन एच ए
फॉरवर्ड: सौरभ आनंद कुशवाहा, अर्शदीप सिंह, गुरजोत सिंह, मोहम्मद कोनैन दाद, दिलराज सिंह, गुरसेक सिंह

वानखेड़े में लगेगा रनों का अंबार या गेंदबाजों का रहेगा जलवा

मुंबई: इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 53वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में 6 मई यानी सोमवार को खेला जाएगा। 11 में से 8 मुकाबले हारने के बाद मुंबई इंडियंस इस वक्त पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हैं। वहीं हैदराबाद 10 में से 6 मुकाबले जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर हैं। दोनों टीमों आईपीएल 2024 में दूसरी बार एक दूसरे से भिड़ रही हैं। इससे पहले जब दोनों टीमों हैदराबाद में मिली थी। तो होम टीम एसआरए को का अंबार लगाया था और आरसीबी का सबसे बड़ा स्कोर कर रिकॉर्ड तोड़ा था। दोनों टीमों के बीच एक और रोमांचक मैच की उम्मीद है। आइये जानते हैं कि इस मैच में मुंबई की पिच कैसा खेलने वाली है।
मुंबई और हैदराबाद के मैच की पिच रिपोर्ट
मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग

मानी जाती है। इस मैदान पर जमकर रन बनते हैं। छोटा ट्राउंड होने की वजह से चौके-छकों की भी खूब बारिश होती है। गेंदबाज इस पिच पर संघर्ष करते नजर आते हैं। हालांकि स्पिनर्स को इस पिच पर मदद जरूर मिलती है। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में अब तक कुल 116 मुकाबले खेले



गए हैं। इसमें से 53 पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम तो 63 दूसरे बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। जो भी टीम मुंबई में टॉस जीतेगी वह पहले गेंदबाजी करने को देख सकती है। पहली पारी का औसत स्कोर आईपीएल में वानखेड़े में 170 रन है। मैच के लिए दोनों टीमों इस प्रकार हैं-
मुंबई इंडियंस: हार्दिक पंड्या (कप्तान), रोहित

शर्मा, सूर्यकुमार यादव, डेवाल्ड ब्रेविस, जसप्रीत बुमराह, पीयूष चावला, गेराल्ड कोएट्टी, टिम डेविड, श्रेयस गोपाल, इशान किशन, अंशुल कंबोज, कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल, वेंना मफाका, मोहम्मद नबी, शम्स मुलानी, मनम धीर, शिवालिक शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, अर्जुन तेंदुलकर, नुवान तुषारा, तिलक वर्मा, हार्दिक देसाई (विकेटकीपर), नेहल वडेरा और ल्यूक वुड।
सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रेविंस हेड, हेनरिक क्लासेन, एडेन मार्कारम, अब्दुल समद, नितीश रेड्डी, शहाबाज अहमद, पैट कर्मिस (कप्तान), भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादेकर, टी नटराजन, मयंक मारकंडे, उमरान मलिक, अनमोलप्रोत सिंह, ग्लेन फिलिप्स, राहुल त्रिपाठी, वॉशिंगटन सुंदर, उपेन्द्र यादव, जथावेध सुब्रमण्यन, सनवीर सिंह, विजयकांत व्यासकांत, फजलहक फारुकी, मार्को यानसेन, आकाश महाराज सिंह और मयंक अग्रवाल।




1944 : गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस से रिहा किया गया और यह उनके जीवन की अंतिम जेल यात्रा थी।

एक नजर

लेबर पार्टी के सादिक खान ने रचा इतिहास, तीसरी बार जीता लंदन के मेयर का चुनाव

लंदन। पाकिस्तानी मूल के नेता सादिक खान ने शनिवार को इतिहास रचा है। उन्होंने लंदन के मेयर पद पर तीसरी बार जीत दर्ज की। इंग्लैंड और वेल्स के स्थानीय चुनाव में लेबर पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सीएनएन ने यह जानकारी दी। लेबर पार्टी के नेता खान ने 43.7 फीसदी मत हासिल कर अपनी कंजर्वेटिव प्रतिद्वंद्वी सुसैन हॉल को हराया। उन्हें 2016 के मेयर चुनाव की तुलना में 11 फीसदी अधिक मत मिले। मेयर पद के कुल 13 उम्मीदवारों में से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे दिल्ली में जन्मे कारोबारी तरुण गुलाटी को कुल 24,702 वोट मिले और वह दसवें स्थान पर रहे। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उन्होंने लंदन की जनता का आभार जताया और कहा कि वह हर लंदनवासी के लिए एक सुरक्षित हरियाली वाले शहर को बनाने में अथक खाने एक्स पर लिखा, शुक्रिया लंदन।



भारतीय छात्रों के साथ भारत के राजदूत ने की चर्चा, चीनी वीजा प्रतिबंधों के कारण हुई समस्याओं पर बात



बीजिंग। दूतावास ने एक्स पर ट्वीट करते हुए बताया कि चार मई को हारवागट और संवाद समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में 13 से अधिक चीनी विश्वविद्यालयों के लगभग 80 पुराने और नए छात्र शामिल हुए थे। चीन में भारतीय दूतावास ने कोविड काल के बाद भारतीय छात्रों के साथ पहला इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया। खास बात यह है कि ये वह छात्र हैं, जो चीन के वीजा प्रतिबंधों के कारण तीन साल की कोविड-19 अवधि के दौरान सबसे अधिक परेशान हुए। छात्रों का कहना है कि प्रतिबंधों के कारण उनकी शैक्षणिक अवधि कई वर्षों तक बढ़ गई।

भारतीय राजदूत और काउंसलर कार्यक्रम में हुए शामिल दूतावास ने एक्स पर ट्वीट करते हुए बताया कि चार मई को हारवागट और संवाद समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में 13 से अधिक चीनी विश्वविद्यालयों के लगभग 80 पुराने और नए छात्र शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत और काउंसलर नितिनजीत सिंह ने छात्रों की शिकायतें और उनका अनुभव सुना। बैठक में द्वितीय सचिव (शिक्षा) अमित शर्मा भी शामिल थे।

व्हाइट हाउस की चहारदीवारी के गेट से वाहन टकराया, ड्राइवर की मौत

वाशिंगटन (वार्ता/शुद्धि)। अमेरिका में शनिवार रात तेज गति से जा रहा एक वाहन व्हाइट हाउस की चहारदीवारी के गेट से टकरा गया जिससे चालक की मौत हो गई। अमेरिकी खुफिया सेवा के अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसी ने एक्स पर जारी एक बयान में कहा, चार मई को रात करीब 10:30 बजे से एक वाहन व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स के गेट से टकरा गया। बयान में कहा गया घटना के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया। इस घटना से व्हाइट हाउस को कोई खतरा नहीं था। एजेंसी के संचार प्रमुख एथानी गुलिलमी ने ह्वाएक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एजेंसी और स्थानीय पुलिस विभाग घटना की जांच कर रहे हैं, इसलिए सीमित यातायात प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है।

नाइट आउट पर निकली सांसद के साथ यौन उत्पीड़न, इंस्टाग्राम पर खुद बताई पूरी घटना, पुलिस कर रही जांच

मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के वकील सांसद की सांसद ने एक वीडियो वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि एक नाइट आउट के दौरान उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर, उनके साथ यौन शोषण किया गया था। सहायक स्वास्थ्य मंत्री ब्रिटनी लौगा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर बताया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र योपून में शाम के समय उनके ऊपर हमला किया गया था। उन्होंने कहा, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। दुखद बात यह है कि यह हमले से कई लोगों के साथ होता है। 37 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई सांसद 28 अप्रैल को पहले पुलिस के पास गईं और फिर वहां से अस्पताल पहुंचीं। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, अस्पताल में कराए गए टेस्ट में पता चला कि मुझे ड्रग्स दिया गया था। उन्होंने आगे बताया कि इस ड्रग्स ने उनके शरीर को प्रभावित किया था। इतना ही नहीं, जो भी महिलाएं उनके संपर्क में आईं, उन सभी को ड्रग्स दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने कहा, यह ठीक नहीं है। हम ड्रग्स दिए जाने और हमले के डर के बिना अपने शहर में मेलजोल बढ़ाने का साहस रख सकें। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर योपून में मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि फिलहाल इस मामले में और कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।



ब्राजील में भारी बारिश और बाढ़ से 58 की मौत, कई पुल टूटे, 70 हजार लोग बेघर

वाशिंगटन। ब्राजील के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण हालात खराब हो गए हैं। स्टेट डिफेंस एजेंसी के मुताबिक बाढ़ के कारण अब तक 58 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 74 से ज्यादा लोग घायल हैं। बाढ़ के कारण करीब 70 हजार से ज्यादा लोगों अपना घर छोड़ना पड़ा है। इसके अलावा 67 लोगों के लापता होने की खबर है। बाढ़ के कारण ब्राजील के रियो ग्रांडे डो सुल राज्य का पोर्टो एलेग्रे शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। सोमवार (28 अप्रैल) से रियो ग्रांडे डो सुल में आ रहे तूफानों की वजह से 300 नगर पालिकाएं प्रभावित हुई हैं। जलवायु परिवर्तन को बताया जिम्मेदार

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वे ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से मदद का वादा किया है। साथ ही उन्होंने बाढ़-बारिश के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं ब्राजील के मौसम विभाग ने भी कहा है कि बारिश की बढ़ती तीव्रता के लिए अल-



राष्ट्रपति लूला बोले- तूफान की वजह अल नीनो

नीनो जिम्मेदार है। रिपोर्टें स्तर पर बह रही नदियां आने वाले दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी

ब्राजील के रियो ग्रांडे डो सुल राज्य में बारिश के कारण बांध टूटने का खतरा है। शहर में बहने वाली गुआबा नदी रिपोर्टें 5.04 मीटर की रिपोर्टें ऊंचाई पर है, जो 1941 के बाद सबसे ज्यादा है। बचावकर्मियों को लोगों का रेस्क्यू करने में परेशानी हो रही है। सड़कें तबाह हो गई हैं और पुल पानी के बहाव के कारण बह गए हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, बचावकर्मियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट ने शुक्रवार 3 मई को अनिश्चित काल के लिए उड़ानें निलंबित कर दीं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

शहर में भारी बारिश के कारण 3 से ज्यादा हाइड्रो प्लांट बंद पड़ गए हैं। जिससे शहर में पीने योग्य पानी की कमी हो गई है। 15 लाख लोगों को पीने योग्य पानी नहीं मिल पा रहा है। रियो ग्रांडे डो सुल के गवर्नर एडुआर्डो लेट्टे ने कहा कि उनके राज्य को आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए भारी निवेश की मार्शल योजना की जरूरत होगी। हमने ऐसी हालत आज तक नहीं देखी। ये देश में अब तक के सबसे खराब हालात हैं। शनिवार को शहर की एक और नदी, ग्रावताई के खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के बाद पोर्टो एलेग्रे शहर के मेयर सेबेस्टियाओ मालो ने लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकलने की सलाह दी है।

पाकिस्तान में गेहूं घोटाला, 300 अरब रुपये का नुकसान

शहबाज बोले- सब कुछ देश के सामने रखेंगे

इस्लामाबाद: आठे के लिए तरसने वाले पाकिस्तान में गेहूं आयात घोटाला सामने आया है। इस घोटाले के कारण सरकारी खजाने को 300 अरब रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। घोटाले के खुलासे के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चारों तरफ से घिर गए हैं। ऐसे में उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी सरकार गेहूं आयात घोटाले के लिए जिम्मेदार लोगों के संबंध में सब कुछ लोगों के सामने रखेगी। उन्होंने इस मामले की जांच को तेज करने वाले नौकरशाह और कैबिनेट डिवीजन सचिव कामरान अली अफजल के साथ एक बैठक के दौरान पीएम शहबाज ने कहा, हम सब कुछ देश के सामने रखेंगे। अफजल को जिम्मेदारी तय करने और घोटाले के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को सुचित करने का निर्देश देते हुए, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सचिव को उपलब्ध रिपोर्टें और दस्तावेजों के साथ सिफारिशें तैयार करने और सोमवार (कल) तक अंतिम रिपोर्टें सौंपने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी तब आई है जब बलूचिस्तान और पंजाब सरकार सरलस स्टॉक के कारण किसानों से गेहूं खरीदने में असमर्थ होने के बाद संघीय सरकार मुश्किल में फंस गई है, जिससे अब तक फसल के अत्यधिक आयात के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पाकिस्तानी किसानों को भारी नुकसान प्रांतीय सरकारों द्वारा गेहूं की खरीद से कम कीमत पर बेचा जा रहा है जो किसानों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि, एक दिन पहले, पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर ने एक इंटरव्यू के दौरान बोलते हुए, मौजूदा संकट में अपनी भूमिका से इनकार करते हुए जोर दिया था कि गेहूं उत्पादन की निगरानी करना प्रधानमंत्री का काम नहीं है। गेहूं आयात के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि उक्त फसल का केवल 3.4 मिलियन मीट्रिक

टन आयात किया गया था जबकि कमी 4 मिलियन मीट्रिक टन की थी। सूत्रों ने जियो न्यूज को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने पीएम शहबाज की कैबिनेट को अगस्त कराया था कि पिछले साल 28.18 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ था और कार्यवाहक सरकार ने 2.45 मिलियन टन अधिक आयात करने का फैसला किया था। प्रधानमंत्री को यह भी बताया गया है कि अतिरिक्त गेहूं आयात से राष्ट्रीय खजाने को 300 अरब रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। अलग से, लाहौर में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, प्रधानमंत्री शहबाज ने अध्यक्षता किया कि सरकार किसानों की आर्थिक समस्याओं को कम करने के लिए पाकिस्तान कृषि और भंडारण और सेवा निगम (पास्को) के माध्यम से 1.8 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगी। किसानों को हो रही कठिनाइयों की खबरों को गंभीरता से लेते हुए, पीएम शहबाज ने कहा कि उत्पादकों को आर्थिक सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को गेहूं खरीद के अवसरों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का आदेश दिया। इसके अलावा, पीएम शहबाज ने गेहूं खरीद के संबंध में किसानों की सुविधा सुनिश्चित करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा समिति का भी गठन किया है।



से राष्ट्रीय खजाने को 300 अरब रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। अलग से, लाहौर में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, प्रधानमंत्री शहबाज ने अध्यक्षता किया कि सरकार किसानों की आर्थिक समस्याओं को कम करने के लिए पाकिस्तान कृषि और भंडारण और सेवा निगम (पास्को) के माध्यम से 1.8 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगी। किसानों को हो रही कठिनाइयों की खबरों को गंभीरता से लेते हुए, पीएम शहबाज ने कहा कि उत्पादकों को आर्थिक सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को गेहूं खरीद के अवसरों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का आदेश दिया। इसके अलावा, पीएम शहबाज ने गेहूं खरीद के संबंध में किसानों की सुविधा सुनिश्चित करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा समिति का भी गठन किया है।

अमेरिका के बाद अब इन देशों में भड़का गुर्रसा, कहीं नारेबाजी तो कहीं पुलिस की कार्रवाई के बीच विरोध

वाशिंगटन हमस और इसाइल बीते सात महीने से जंग लड़ रहे हैं। इसाइल द्वारा हमस को खत्म करने का संकल्प गाजा पट्टी के लोगों पर भारी पड़ रहा है। गाजा में पैदा हुई मानवीय परिस्थितियों को लेकर अमेरिका के बाद कई देशों में गुर्रसा भड़क गया है। दुनियाभर के छात्र इसाइल के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि फलस्तीनियों के समर्थन में किन-किन देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं।



गाजा के लोगों की हालत को लेकर सबसे पहले अमेरिका के छात्रों ने आवाज उठाई।


उन्होंने इसाइल के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। 17 अप्रैल से लेकर अबतक कम से कम यहां के 40 विश्वविद्यालय परिसरों में पदर्शनकारियों पकड़ हो चुके हैं। इन लोगों ने गाजा पट्टी में बढ़ती मौतों की संख्या के विरोध में विश्वविद्यालय परिसरों में तंबू लगाए।

अमेरिकी मीडिया के अनुसार, विरोध प्रदर्शनों को लेकर करीब दो हजार लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। हाल के दिनों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प देखी गई। विश्वविद्यालय के प्रशासन के अनुरोध पर पुलिस ने कार्यवाई की। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में धरने पर बैठे कई छात्रों को जबरदस्ती हटाया गया। इतना ही नहीं, कोलंबिया विश्वविद्यालय में जिस जगह पर प्रदर्शन हो रहे थे वहां बैरिकेड लगाए गए। वहीं, कुछ छात्रों ने पुलिस द्वारा दुर्यवहार किए जाने की शिकायतें की। सेंट एड्रियंस के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सैकड़ों पुलिस ने प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए टेंटों को तोड़ा। इसके अलावा 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्जीनिया विश्वविद्यालय में फलस्तीनी समर्थक शिविर को तोड़ने के लिए पुलिस ने रासायनिक स्प्रे का इस्तेमाल किया।

को जबरदस्ती हटाया गया। इतना ही नहीं, कोलंबिया विश्वविद्यालय में जिस जगह पर प्रदर्शन हो रहे थे वहां बैरिकेड लगाए गए। वहीं, कुछ छात्रों ने पुलिस द्वारा दुर्यवहार किए जाने की शिकायतें की। सेंट एड्रियंस के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सैकड़ों पुलिस ने प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए टेंटों को तोड़ा। इसके अलावा 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्जीनिया विश्वविद्यालय में फलस्तीनी समर्थक शिविर को तोड़ने के लिए पुलिस ने रासायनिक स्प्रे का इस्तेमाल किया।

भारत पर आरोप लगाना उनकी राजनीतिक मजबूरी, निज्जर हत्याकांड में जयशंकर की कनाडा के पीएम टूटो को खरी-खरी

भुवनेश्वर। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा में जो कुछ भी हो रहा है वह उनकी आंतरिक राजनीति के कारण है। इस हत्याकांड का भारत से कोई लेना-देना नहीं है। जयशंकर ने जस्टिन टूटो द्वारा भारत की आलोचना पर पृष्ठ गए सवाल पर यह टिप्पणी की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, खालिस्तान समर्थकों का एक वर्ग कनाडा के लोकतंत्र का इस्तेमाल कर रहा एक लॉबी बना रहा है।



वह एक वोट बंद बन गया है। कनाडा में सतारूद पार्टी के पास संसद में बहुमत नहीं है और कुछ दल खालिस्तान समर्थक नेताओं पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा, हमने उन्हें कई बार समझाया है कि वे ऐसे लोगों को वीजा, वैधाना या राजनीतिक स्थान न दें जो भारत-कनाडा रिश्ते के लिए भी समस्या पैदा कर रहे हैं। लेकिन कनाडा ने कुछ नहीं किया। कनाडा पुलिस ने खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के कवित्व तीनों हत्यारों की पहचान उजागर करते हुए उनकी तस्वीरें जारी की हैं। इनकी पहचान करण बरार (22), कमलप्रीत सिंह (22) और करणप्रीत सिंह (28) के रूप में हुई है। ये तीनों भारतीय नागरिक हैं और कनाडा के एडमंटन में रहते हैं। इनके खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने इन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार किया था।

कनाडा कानून के शासन वाला देश, निज्जर हत्या मामले में तीन भारतीयों की गिरफ्तारी पर बोले टूटो

ओटावा खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनावनी बनी हुई है। कनाडा ने हाल ही में इस मामले में तीन भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री जस्टिन टूटो ने कहा कि कनाडा कानून के शासन वाला देश है, जहां मजबूत एवं स्वतंत्र न्याय प्रणाली है। बता दें, 18 जून 2023 में कनाडा के सरी शहर में एक गुरुद्वारा साहिब के निकट गोली मारकर खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कनाडा पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों पर प्रथम डिग्री हत्या और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। टूटो शनिवार को टोरंटो में सिख विरासत का जश्न मनाने वाले एक समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने गिरफ्तारियों के बारे में कहा,



हायद महत्वपूर्ण है क्योंकि कनाडा एक मजबूत और स्वतंत्र न्याय प्रणाली के साथ-साथ अपने सभी नागरिकों की रक्षा के लिए एक मौलिक प्रतिबद्धता वाला कानून के शासन वाला देश है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, टूटो ने कहा कि जैसा कि आरसीएमपी का कहना है कि जांच चल रही है। आगे भी जारी रहेगी। साथ ही जांच कल गिरफ्तार किए गए तीन लोगों की सलिसता तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि निज्जर की हत्या के बाद सिख समुदाय के कई लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हर कनाडाई को सुरक्षित रूप से रहने और कनाडा में भेदभाव और हिंसा के खतरों से मुक्त रहने का मौलिक अधिकार है।

बारामती में नन्द जीतेगी या भाभी सुप्रिया सुले बनाम पवार की भिड़ंत में शरद पवार और अजित की प्रतिष्ठा दाँव पर

जहां तक बारामती संसदीय क्षेत्र की बात है तो आपको बता दें कि यहां लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान कराया जायेगा। यह क्षेत्र अपने चीनी कारखानों के लिए जाना जाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का यह पारंपरिक गढ़ रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने बारामती में विकास के काम तो बहुत कराये हैं और वह लोकप्रिय नेता और राजनीति के उस्ताद भी रहे हैं लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी राजनीतिक पारी समाप्ति की ओर है। ऐसा हम हवा में नहीं कह रहे बल्कि चुनाव यात्रा के दौरान हमने पुणे, बारामती और शिरूर का दौरा किया और शरद पवार तथा अजित पवार की पार्टियों के चुनाव प्रचार, चुनाव प्रबंधन को तो देखा ही साथ ही यह भी जाना कि किस गुट के साथ कितने नेता और कार्यकर्ता हैं। सभी पैमानों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अजित दादा पवार ही अब सर्वमान्य नेता हैं और एनसीपी के नेता से लेकर कार्यकर्ता और आम जनता



तक इस मत की नजर आ रही है कि अजित दादा पवार ही भविष्य के नेता हैं और यह स्वाभाविक ही है कि जहां भविष्य नजर आता है वहां लोग जुड़ते ही हैं। लेकिन अजित दादा पवार का यह रुतबा और स्वीकार्यता उन्हें विरासत में नहीं मिली है बल्कि यह उन्होंने अपनी खुद की मेहनत से कमाई है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से सीधा सवाद करना, सुबह पांच बजे से देर रात तक कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहना, मुंबई में व्यस्तता होने के बावजूद क्षेत्र का दौरा करते रहना और जो वादा किया है उसको जरूर निभाना, उनकी बड़ी खासियत है। विपक्ष उन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाये लेकिन स्थानीय

जनता इससे इतेफाक नहीं रखती और वह अजित दादा पवार के समर्थन में खड़ी नजर आती है। जहां तक बारामती संसदीय क्षेत्र की बात है तो आपको बता दें कि यहां लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान कराया जायेगा। यह क्षेत्र अपने चीनी कारखानों के लिए जाना जाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का यह पारंपरिक गढ़ रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सुप्रिया सुले ने लगातार तीन लोकसभा चुनावों में इस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। बारामती लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं- इंदायपुर, बारामती, पुरंदर, शरद, खडकवासला और दीड। पुणे से आया यह निर्वाचन क्षेत्र 1999 में पार्टी के गठन के बाद से एनसीपी का गढ़ रहा है। 1999 में शरद पवार ने यहां पहली बार एनसीपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। पुणे साल बाद, शरद पवार ने 2004 में लोकसभा क्षेत्र से अपनी जीत दोहराई। इसके बाद 2009 में उनकी बेटी सुप्रिया सुले पहली बार इस सीट से जीती थीं।

व्यवसाय में उन्नति के लिए करें ये छोटे मोटे बदलाव, हाथों हाथ बिक जाएगा पूरा माल

ज्ञान का पिढारा अगर मेघ का गुरु हो, धन भाव में शनि और चंद्रमा हों, दशम भाव में राहु-शुक्र हों, तो व्यक्ति को राज पद से विभूषित करते हैं। यदि समस्त ग्रह द्वितीय, षष्ठ, सप्तम व द्वादश भाव में विराजमान हों, तो व्यक्ति राजतुल्य ऐश्वर्य का आनंद लेता है। बात पते की शनि यदि कुंडली अष्टम भाव में हों, तो उत्तराधिकार में संपत्ति प्रदान करते हैं। शनिदेव अष्टम में बैठकर अशुभत्व का नाश करते हैं। ऐसे व्यक्ति दीघायु होते हैं। यह शनि आयुष्यकारक होते हैं। शुभ होने पर इस भाव के शनि विद्वता, वाक्पटुता और वीरता देते हैं। ये हिम्मती, होशियार और उदार होते हैं। इनके विचार उच्च और अनेक होते हैं। ये जीवन में शीर्ष पर पहुंचने का दमखम रखते हैं। गूढ़ विद्या की ओर इनकी स्वाभाविक रुचि होती है। इनके विचार संकुचित होते हैं। इनमें संतोष का अभाव होता है। पुण्य कर्मों के अभाव में यह शनि धनहीनता का कारक बन जाता है। इन्हें आरंभ में अक्सर अपने मित्रों की उपेक्षा झेलनी पड़ती है। ये लोग निम्न आदत के लोगों से संबंध जोड़ सकते हैं। इनका कोई अपना इनसे बैर बंध रखता है। यह शनि क्रोध, उत्साहहीनता के साथ चातुर्य में



बढ़ोत्तरी करता है। यह स्थिति आलस्य की वजह भी बनती है। दूसरों की गलतियों पर ये सुक्ष्म दृष्टि रखते हैं। अपने जन्मस्थान से ये लोग दूर रहते हैं। अशुभ होने पर यह शनि झूठे आरोप व मुकदमे की भी वजह बनता है। इन्हें अपनी मृत्यु का पूर्वानुभव हो जाता है। इनका सचम तंत्र कमजोर होता है तथा घंट से जुड़ी समस्याएं भी दरोश आ सकती हैं। साथ ही, जोड़ो का दर्द, दंतों व नाखूनों से संबंधित पीड़ा का भी योग निमित्त होता है। यह शनि बवासीर व वात से पीड़ित कर सकता है। विवाह के पश्चात आर्थिक उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है। इनकी अल्प संतान होती है। प्रश्न: अगर कुंडली में बृहस्पति अशुभ न हो, तो क्या करना चाहिए

विजय सागर उत्तर: सद्गुरुश्री कहते हैं कि अगर कुंडली में बृहस्पतिदेव अशुभ न हों, तो अपने व्यवहार और जिज्ञा पर नियंत्रण रखना चाहिए। खीझ, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट व असत्य वचन से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत सौच समझकर बोलना चाहिए। अनीति पूर्ण आचरण, स्वभाव में क्रूरता, किसी के अपमान और झूठी गवाही से कोसों दूर रहना चाहिए। गुरुवार को वना, दाल, बेसन के लड्डू और केले का दान तथा मस्तक, नाभि और जिज्ञा पर केसर मिश्रित जल ले लेना और खाने में केसर का प्रयोग उत्तम फल प्रदान करता है। ऐसा मैं नहीं, मान्यताएं कहती हैं। प्रश्न: व्यवसाय में बहुत सारा माल फंस गया है। बिक नहीं रहा है। क्या करूं-बूज गये। उत्तर: सद्गुरुश्री कहते हैं कि इसके लिए अपने दुकान का बारीक निरीक्षण करके देखें। सर्वप्रथम आप मालिक और कर्मचारियों के बैठने की स्थिति का मुआयना करें। जो माल आकार बिक नहीं रहा है, उसे वायव्य कोण यानी उत्तर-पश्चिम दिशा में रख दें और वहां उसके डिस्पले की भी व्यवस्था करें। नित्य संध्या को अपना शौरुम को सुगंधित पदार्थ से महका दें। किसी भी रूप में मुख की दिशा दक्षिण की ओर नहीं होनी

स्वतंत्र चेतना

प्रकाशक, चंद्रक आर.सी.गुप्त
 द्वारा डी.ए.चेतना प्रकाशन प्रा.लि.
 के लिए 8-ए हेस्टिन्स रोड,
 इलाहाबाद से मुद्रित तथा प्रकाशित
 फोन नं. 0532-2423438
 आर.एन.आई. संख्या 54328/91

सम्पादक : आर.सी.गुप्त

दिल्ली कार्यालय : ए-29, द्वितीय
 बल्ल, फिक्रम नगर, फिरोजशाह
 कोटला/फोन नं. 011-23724374
गोरखपुर कार्यालय
 शाहमरफूफ, हिन्दी बाजार,
 गोरखपुर
 फोन-0551-2341010
लखनऊ कार्यालय
 15, ए.पी.सेन रोड, चारबाग,
 लखनऊ
 फोन-0522-4101353
काठपुर कार्यालय
 16/17 सिविल लाइन्स कानपुर
 फोन-0512-2304107
आजमगढ़ कार्यालय
 चेतना भवन, एलवल (निकट आर्य
 समाज मन्दिर) फोन-05462-
 223430 फैक्स-05462-
 223431
फैजाबाद कार्यालय
 2/1/5/1/ए-4 बड़ो डाकखाना के
 बगल में सिविल लाइन्स,फैजाबाद
 फोन : 05278-223035
वाराणसी कार्यालय :
 18/2ए, वी, 1/11 इमरॉक कालोनी
 प्रथम तल चेतना भवन अन्ना कालोनी,
 नंदसर, वाराणसी। फोन: 0542-
 2502011
 इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों
 के चयन एवं सम्पादन हेतु ए.पी.आर.बी.
 एन्ट के अंतर्गत उत्तराखण्ड तथा इनसे
 उत्पन्न समस्त विवाद गोरखपुर न्यायालय
 के अधीन ही होंगे।

Email - anandchetna@gmail.com

राहुल में कोई आग नहीं, लेकिन हिंदू-मुस्लिम विभाजन की कोशिश कर आग से खेल रही कांग्रेस : राजनाथ सिंह

राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण होना चाहिए : राजनाथ

नयी दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी में कोई आग नहीं है जबकि उनकी पार्टी चुनावी फायदे के लिए हिंदू-मुस्लिम विभाजन की कोशिश कर आग से खेल रही है। सिंह ने एक साक्षात्कार में यह संकेतमयी दिया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लगातार तीसरी बार सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और एक राष्ट्र, एक चुनाव जैसी बड़ी योजनाओं पर अमल करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) 400 सीटों का आंकड़ा पार करेगा और भाजपा को 370 से अधिक सीट मिलेंगी क्योंकि यह अनुमान जमीनी स्थिति के विस्तृत

मूल्यांकन के बाद लगाया गया है। संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य पर बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक आधार पर तनाव पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, वे चुनावी फायदे के लिए हिंदू-मुस्लिम विभाजन का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस धार्मिक आधार पर तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहती है। वे मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में देखते हैं। मैं उन्हें सुझाव देना चाहता हूँ - राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। सिंह ने

कहा, राहुल गांधी में कोई आग नहीं है, लेकिन कांग्रेस आग से खेल रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताएंगे और पिछले पांच साल में सरकार के प्रदर्शन के आधार पर भाजपा की सीटों की संख्या में उल्लेखनीय सुधार होगा। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हमारी सीट बढ़ेगी और तमिलनाडु में हमें कुछ सीट मिलेंगी। केरल में भी हमारा खाता खुलेगा। हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी अच्छी-खासी सीट जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा 370 का आंकड़ा पार करेगी। सिंह ने कहा, ओडिशा, झारखंड और असम में भी हमारी सीट बढ़ेगी। हम ख़ोसीगढ़

में सभी सीट जीतेंगे। यह पृष्ठे जाने पर कि क्या महाराष्ट्र में भाजपा की सीटें कम होंगी, इस पर उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि वहां सीटें ऊपर-नीचे हो सकती हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने संपत्ति के पुनः वितरण की कांग्रेस की योजना को लेकर सख्त पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। सिंह ने कहा, संपत्ति के पुनः वितरण की अवधारणा से मंदा आएगी। अर्जेंटिना और वेनेजुएला ने इसे लागू किया और विनाशकारी परिणामों का सामना किया। निवेशकों का भारत से भरोसा उठ जाएगा। सत्ता में लौटने पर यूसीसी और एक राष्ट्र

एक चुनाव जैसी भाजपा की बड़ी योजनाएं लागू करने के बारे में सिंह ने कहा कि वह भारत के लोगों से जो वादा करती है, उन्हें पूरा भी करती है। भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में सत्ता में लौटने पर यूसीसी लागू करने का संकल्प लिया है। उसने यह भी कहा है कि पार्टी एक राष्ट्र, एक चुनाव लागू करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। सिंह ने कहा, हम हमेशा अपने वादे पूरा करते हैं। हम अपनी विश्वसनीयता पर कभी प्रश्न चिह्न नहीं लगने देंगे और देश की एकता व अखंडता से समझौता नहीं करेंगे। हमने अपने चुनाव घोषणापत्र में जो भी कहा है, उसे लागू करना होगा।



लोकसभा चुनाव 2024

सीएम की मतदाताओं से अपील

आतंकवादियों की समर्थक सपा को कतरई वोट न देना

सीएम योगी ने मिश्रिख लोकसभा से भाजपा सांसद व प्रत्याशी अशोक रावत के लिए की जनसभा

हरदोई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने शासनकाल में समाजवादी पार्टी आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने में रुचि लेती थी। इन लोगों ने अयोध्या, रामपुर में सीआरपीएफ, काशी में संकटमोचन मंदिर, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरी पर हमला करने वाले आतंकियों के मुकदमों को वापस लेने का प्रयास किया था, तब हाईकोर्ट ने कहा था कि आज आतंकियों के मुकदमे वापस ले रहे हों, कल इन्हें पद्म पुरस्कार से नवाजेंगे। सरकार का यह कृत्य खतरनाक व निन्दनीय है। कोर्ट ने सपा को कंडमा किया था। सीएम ने अपील की कि आतंकवादियों की समर्थक सपा और राम का अपमान करने वालों को वोट नहीं देना है। सीएम योगी ने मिश्रिख से भाजपा सांसद व प्रत्याशी अशोक रावत के लिए रविवार को मकल्ला, हरदोई में जनसभा कर वोट देने की अपील



की। योगी ने भीषण गर्मी में पहुंचे लोगों का अभिवादन किया और कहा कि विधानसभा चुनाव और 2019 में महागठबंधन के बाद भी भाजपा प्रत्याशियों को आमजन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। अबकी बार-400 पारक में सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ने जनता से अनुरोध किया कि नए भारत के निर्माण में हम भी सहभागी बनें। दो चरणों के चुनाव ने साबित कर दिया कि अबकी

बार-400 पारक का लक्ष्य प्राप्त होगा और इसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का होगा। 10 वर्ष में देश में व्यापक परिवर्तन हुआ है, इसलिए आमजन फिर से पीएम मोदी को चुनना चाहता है। हरदोई व लखनऊ के बीच 1000 एकड़ क्षेत्रफल में नए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पीएम श्री टेक्सटाइल्स पार्क बनने जा रहा है। इसमें हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी। एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज का उपहार भी इस जनपद को प्राप्त हो चुका है। हरदोई व सीतापुर में बने सर्वाधिक आवास-शौचालय सीएम योगी ने कहा कि नए भारत में नई विकास यात्रा चल रही है। 2014 के पहले जितने हाइवे बने, मोदी के नेतृत्व में उससे दोगुने हाइवे 10 वर्ष में बन गए हैं। दोगुने एयरपोर्ट बन गए हैं। कांग्रेस ने सिर्फ एक एम्स बनाया, छह एम्स अटल जी और 15 एम्स पीएम मोदी ने बनवाए। दस वर्ष में दोगुने विश्वविद्यालय बन गए। यह विकास की नई गाथा है। सीएम ने कहा कि सपा शासन में यह क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र, लोग भूख से मरते थे। पाकिस्तान का राम अलापन वालों को बताना चाहिए कि वहां के 23-24 करोड़ लोगों को दो जून की रोटी नहीं मिल रही है और यहाँ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। सबसे अधिक शौचालय, पीएम आवास हरदोई व सीतापुर में बने हैं। बचे लोगों को भी पांच वर्ष में आवास मिलेगा।

जिस दिन गंगा एक्सप्रेस बने जायगा, उस दिन हरदोई की गिनती विकसित जनपद में होगी। योगी ने कहा कि एक तरफ मोदी के नेतृत्व में नया भारत है, जिसमें सुरक्षा, सम्मान, गरीब कल्याण व आस्था का सम्मान भी है। डबल इंजन सरकार में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। जो लोग पांच-सात साल पहले गए होंगे, अब जाने पर उन्हें नई अयोध्या के दर्शन होंगे। 500 वर्ष बाद अयोध्या में रामलला ने होली भी खेली और जन्मोत्सव भी मनाया। सूर्य तिलक से भगवान राम का अभिषेक हुआ। अब भारत में विकास, विरासत व जनविश्वास भी है। समृद्धि के लिए नए कार्य हो रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस का निर्माण तेजी से चल रहा है। जिस दिन यह बन जायगा, हरदोई का कायाकल्प हो जायगा और इसकी गिनती विकसित जनपद में होगी। लाखों नौजवानों को नौकरी व रोजगार मिलेगा।

राष्ट्रनायकों को अपमानित करने की सपा और कांग्रेस की पुरानी नीति : भूपेन्द्र सिंह चौधरी
स्वतंत्र चेतना

अभी अमेठी छोड़ी है वायनाड भी छोड़ेंगे राहुल गांधी : धामी

बदायूं में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो



बदायूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय शाक्य के लिए रोड शो करने बदायूं पहुंचे। रोड शो करने से पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कहा कि अमेठी कांग्रेस की परम्परागत सीट है। अमेठी से इंदिरा गांधी चुनाव हारी, राजीव गांधी चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने कभी अमेठी की सीट नहीं छोड़ी। यह पहली बार है कि राहुल गांधी ने वहां का राण छोड़ दिया है, एक तरह से भाग गए हैं। यह देश की जनता देख रही है, राहुल गांधी ने अभी अमेठी छोड़ी है। वह वायनाड भी छोड़ेंगे। अब कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है। वह अपनी परंपरागत सीट भी छोड़ रहे हैं, उनकी जमीन अब नहीं बची है।

मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि गठबंधन की हार होने वाली है, यह सारे हथकंडे अपनाते हैं कभी कहते हैं भाजपा वाले आरक्षण खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं संविधान खत्म करने वाले हैं। इनको पता है चार जून को जब परिणाम निकलेगा तो मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। श्री धामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया है। जनता से उसे भली भांति देख रही है। आज उत्तर प्रदेश विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में आज गरीब कल्याण योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिसका जनता को लाभ मिल रहा है।

लोकसभा चुनाव के शुरुआती दो चरण के बाद मोदी आगे हैं : अमित शाह

धर्मवरम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान रविवार को दावा किया कि देश में आम चुनाव के शुरुआती दो चरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शतक लगा चुके हैं और 400 से ज्यादा सीट पाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। शाह ने राज्य के धर्मवरम विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री वई एस जगन मोहन रेड्डी और वईएसआर कांग्रेस पार्टी (वईएसआरसीपी) पर हमला करते हुए उन पर आंध्र प्रदेश में भ्रष्टाचार, रेत एवं भूमि माफिया तथा अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।



गृह मंत्री ने कहा कि वह राज्य में भ्रष्टाचार, अपराध, माफिया और धर्मतरण के खिलाफ भाजपा, तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना गठबंधन की लड़ाई को

ताकत देने के लिए आंध्र प्रदेश आएं हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य में गुंडों और अपराधियों के कथित शासन, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और रेत माफिया को खत्म करने के लिए गठबंधन बनाया है। शाह ने कहा कि पूरे देश ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सहित इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस) गठबंधन का कोई भी नेता देश का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

महाराणा प्रताप का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं होगा बर्दाश्त : जयवीर सिंह

मैनपुरी। शनिवार की रात को समाजवादी पार्टी (सपा) के रोड शो के बाद सपा के कुछ लोगों ने महाराणा प्रताप के मूर्ति स्थल पर चढ़कर हमला किया। कई लोगों के साथ ही नारेबाजी की थी। इसे महापुरुषों और पूर्वजों का अपमान मानते हुए क्षत्रिय समाज और भाजपा नेताओं में आक्रोश व्याप्त है। देर रात ही प्रतिमा स्थल की सफाई की गई। सपा कार्यकर्ताओं की इस हरकत ने तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर आक्रोशित क्षत्रिय समाज और संगठन के पदाधिकारियों के साथ रविवार की सुबह कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपाइयों ने करहल चौराहा पर जाम लगा दिया। वहां पहुंचे उग्र सरकार के मंत्री एवं प्रत्याशी जयवीर सिंह ने

कहा कि महाराणा प्रताप का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने यह कृत्य किया है। वह लोग किसी भी कीमत पर बचने नहीं पाएंगे। कानून उन्हें सजा जरूर देगा। वह मांग करते हैं कि प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उल्लेखनीय है कि बीती शनिवार की रात सपा प्रत्याशी डिपाल यादव के समर्थन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो के बाद मैनपुरी में महाराणा प्रताप चौक पर उनकी प्रतिमा पर फूल मालाएं आदि पहनाई गई थी। इस दौरान कुछ सपा समर्थकों के द्वारा वहां जूते पहनकर झंडे आदि लगा कर प्रतिमा स्थल को नुकसान पहुंचाने का कृत्य किया।

यह चुनाव विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला: नड्डा

सूरजपुर। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा है कि यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के सपने को पूरा करने के संकल्प का चुनाव है। श्री नड्डा रविवार को यहां के हाईस्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सबले बढ़िया छत्रीसमूह से अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे वादा मांगा था और आपने मेरी बात मानी। विधानसभा चुनावों में भाजपा जीती और मजबूत सरकार बनाई। उन्होंने कहा, आप लोगों ने



पहले से ही मन बना लिया है। आप लोगों ने पहले से भी निर्णय कर दिया है। यह चुनाव श्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के सपने को पूरा

करने के संकल्प का चुनाव है। श्री नड्डा ने कहा, भाजपा ने जो कहा वो किया। श्री मोदी ने कहा बदलाव लाओ और उन्होंने वो किया। जनजाति के नाम पर पहले राजनीति होती थी। आपकी तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए कोई काम नहीं होता था। इसके लिए श्री मोदी ने काम किया है। श्री मोदी ने आदिवसियों का बजट तीन गुना बढ़ा दिया है। एकलव्य स्कूल के बजट 21 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। इज्जत घर बनाने का काम भी श्री मोदी ने किया।

रायबरेली लोकसभा: गांधी परिवार की सेफ सीट, लेकिन बहुत कठिन है डगर राहुल की!

सपा ने विधानसभा चुनावों में जिस तरह का प्रदर्शन किया है उससे साफ है कि राहुल का चुनावी सफलता का पूरा दारोमदार सपा पर ही रहेगा।



लगातार कांग्रेस नेता सोनिया गांधी जीतती रही हैं, लेकिन पिछले चुनाव में उनका जीत का मार्चिन कम हो गया था। 2019 में सोनिया गांधी को 1 लाख 67 हजार वोटों के अंतर से जीत मिली थी, जबकि इसके पहले 2004, 2006, 2009 3 लाख वोट से अधिक अंतर से जीतती रही हैं। 2019 में सोनिया गांधी के जीत का अंतर 17.23 प्रतिशत ही रह गया था और भाजपा के वोट प्रतिशत में जिस तरह इजाफा हुआ था, कांग्रेस को मुश्किल में डालने वाला है। 2022 के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी पांचों विधानसभाओं के परिणाम

तो कांग्रेस को और परेशान करने वाले हैं, जब किसी भी विधानसभा में पार्टी की जीत नहीं हुई। केवल बछरावां को यदि छोड़ दें तो ऊंचाहार, रायबरेली, हरचंदपुर और सरनेनी सभी में कांग्रेस का वोट प्रतिशत काफी कम रह है। रायबरेली विधानसभा सीट पर कांग्रेस को 6.50 और ऊंचाहार में 4.71 प्रतिशत वोट ही मिल पाए। जबकि हरचंदपुर में 8 प्रतिशत वोट मिले हैं। केवल बछरावां और सरनेनी में पार्टी 15 प्रतिशत से ज्यादा वोट पा सकी। इसके भी पीछे प्रत्याशियों का अपना मजबूत प्रभाव बताया जा रहा है। राहुल गांधी के रणनीतिकारों के लिए बेहद कड़ी चुनौती है जिसका सामान इंडी गठबंधन प्रत्याशी राहुल गांधी को करना है। सपा का है भरोसा। 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली के 5 में से 4 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज कर ली, जबकि एक सीट बीजेपी के खाते में गई, मतलब साफ है कि लोग कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में सपा ने समाजवादी पार्टी पिछले कई चुनावों से रायबरेली में अपना प्रदर्शी नहीं खड़ी करती रही है और इस बार भी सपा इंडी गठबंधन में है। सपा ने विधानसभा चुनावों में जिस तरह का प्रदर्शन किया है उससे साफ है कि राहुल का चुनावी सफलता का पूरा दारोमदार सपा पर ही रहेगा। हालांकि बसपा के ठाकुर प्रसाद यादव की कोशिश जरूर होगी कि वह सपा के मूल वोट बैंक में से घटाए लें लेकिन इसमें वह कितना सफल हो पाएंगे, यह समय बताएगा, लेकिन राहुल की नैया सपा के भरोसे ही है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं कि किसी तरह सपा का मजबूत वोट बैंक आसानी से कांग्रेस की ओर ट्रांसफर हो जाय।

21 में से नौ की संसद पहुंचने की हसरत रह गई अधूरी

बांदा। लोकसभा चुनाव में इस बार कई प्रत्याशियों ने नामांकन करके संसद भवन पहुंचने का दावा कर डाला था। कई प्रत्याशी तो भारी जन समर्थन के बूते चुनाव में जीतने का खाबा तक देख रहे थे। लेकिन इन अजब गजब प्रत्याशियों के दावों पर निर्वाचन आयोग ने पानी फेर दिया। कुल 21 प्रत्याशियों में से 9 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र जांच में खारिज हो जाने से इनकी संसद भवन पहुंचने की हसरत अधूरी रह गई है। बांदा चित्रकूट लोकसभा चुनाव में कुल 21 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें 9 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए। जिनके नामांकन पत्र खारिज किए गए उनमें मोहनलाल (विकासशील पार्टी) इनके अलावा प्रकाश चंद, अब्दुल सुल्तान नोमानी, विजय प्रकाश, अरविंद राजकुमार, राम सजीवन, बलबन खान निर्दलीय प्रत्याशी थे जिनके नामांकन पत्र कागजातों में कमी बताकर खारिज कर दिए गए हैं। जबकि भाजपा के आर के सिंह पटेल, सपा की कृष्णा देवी, बसपा के मयंक द्विवेदी और अपना दल कैमरावादी के प्रमोद कुमार सहित 12 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। जिन प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रह किए गए हैं। उनमें विकासशील पार्टी का मोहन लाल धुरिया भी शामिल है जो दिव्यांग है।

शुद्ध, प्राकृतिक, बेमिसाल मसाले

एगमार्क

चेतना

मसाले

शुद्ध खाएँ स्वस्थ रहें

शुद्ध प्राकृतिक, सस्वादु और डिटिन से युक्त

चेतना जलजीरा

शुद्ध स्वाद और कोटलाशक से मुक्त

अन्य उत्पाद: चेतना बंधानी हींग, चेतना कसुरी मेथी, चेतना राखि हवन सामग्री और पूजन सामग्री

FOR TRADE ENQUIRY: 9415020014, 9336857202

Chetna Spices (India) Pvt Ltd